



सत्यमेव जयते

Report on
New Series of Consumer Price Index
for Industrial Workers (CPI-IW)
(Base 2016 = 100)



(Since 1920)

Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau

संतोष कुमार गंगवार
Santosh Kumar Gangwar



श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार
Minister of State Labour & Employment
(Independent Charge)
Government of India

MESSAGE

It is indeed a pleasure to learn that the Report on "New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2016=100)" has been prepared by Labour Bureau with respect to of the new series of Consumer Price Index, Industrial Workers CPI-(IW) with base 2016=100. This report provides a comprehensive detail of key concepts, definitions and methodology used in the revision of CPI-IW base year from 2001 to 2016.

CPI-IW is a vital economic indicator which measures the change in prices of goods and services consumed by the index population. This index is also of high significance to the Government for it is used for regulation and determination of Dearness Allowance (DA) being paid to millions of Central/State Government employees and also to the workers in the industrial sectors besides fixation and revision of minimum wages in scheduled employments. Labour Bureau compiles the indices as per international best practices & guidelines of ILO. The dissemination of CPI-IW is also Special Data Dissemination Standard (SDDS) compliant.

I place on record my appreciation for the officers and staff of Labour Bureau who strived for efficient completion of this enormous exercise of base revision. I also appreciate the State Directorate of Economics and Statistics, Office of State Labour Commissioner, NILIET and NSO, MoSPI for the co-operation and support extended by them in the exercise.

I sincerely hope that this report will prove highly useful to the various stakeholders in gaining a better understanding of the base revision methodology used in the new series.


(Santosh Kumar Gangwar)

Dated : 21stOctober,2020

APURVA CHANDRA, IAS
Secretary



सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
Tele : 91-11-23 71 02 65
E-mail : secy-labour@nic.in

MESSAGE

One of the most important mandate of the Labour Bureau, an attached office of Ministry of Labour and Employment, is base updation of the prominent economic indicator i.e. Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW). The details included in the Report "New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2016=100)" are expected to bring out inter-alia harmonisation in concepts, definition, methodology of compilation of data/information on CPI-IW. The adoption of the methodologies' suggested in this Report can go a long way in facilitating the data aggregation and data comparison, both at inter-regional and intra-regional levels besides international comparisons.

It gives me immense pleasure to unveil this report on the occasion of formal release of new series of CPI-IW by the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) Labour & Employment with base year 2016 which would replace the current base which was done 19 year back in the year 2001.

This report was made possible through the active cooperation and support from Central Ministries and State Government departments in providing timely information/data. I convey my compliments and record my appreciation for the efforts towards this endeavour by the Director General, Labour Bureau and also the team of officers and staff of Labour Bureau who worked tirelessly to make the release possible even during the pandemic.


(APURVA CHANDRA)

Dated: 21st October, 2020

डी.पी.एस. नेगी, आई.ई.एस.
महानिदेशक

D. P. S. Negi
DIRECTOR GENERAL

E-mail : dglb@nic.in
Twitter : @LabourDg



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो
श्रम ब्यूरो भवन, ब्लॉक नं० 2,
संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 38 वेस्ट,
चण्डीगढ़ - 160036

Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Shram Bureau Bhawan, Block No. 2,
Institutional Area, Sector 38 West,
Chandigarh - 160036

PREFACE

The latest Report on "New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2016=100)" is an important publication meant to give insights into the concepts, definitions and methodology related to the CPI-IW base revision to the new base year 2016. This will serve as a useful reference book for researchers, academicians, scholars and all other stakeholders of CPI-IW.

2. Labour Bureau, an attached office of Ministry of Labour and Employment, since its inception has inter alia been entrusted with the responsibility of compilation, maintenance and dissemination of Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW). In the new CPI-IW series base 2016=100, the number of centres covered has been increased from 78 to 88. The number of markets has also been enhanced from earlier 289 to 317. The coverage of workers has also been increased from 41040 in 2001 series to 48384 in the new 2016 series.

3. The latest in the revisions of base years of CPI-IW is the revision to the year 2016. This report presents a perspicuous explanation of all the technical aspects and methodology related to CPI-IW base revision to the year 2016.

4. The base revision exercise is exceptionally intricate and requires consistent focus and hard work. Therefore, I also take this opportunity to place on record my sincere appreciation for the entire team of dedicated officers and staff of Labour Bureau who were involved in this elaborate exercise and who ensured its meticulous compilation and timely release. I also express my grateful appreciation to the Central Ministries, State Governments, NSO and NILIET for extending their support and cooperation in the base revision exercise.

(D.P.S. Negi)

Dated: 21st October, 2020

Table of Content

| Chapter | Content | Page No. |
|---------------|--|----------|
| Chapter-I | INTRODUCTION | 1-6 |
| Chapter-II | SELECTION OF CENTRES, SAMPLE DESIGN & SAMPLE SIZE | 7-12 |
| Chapter-III | WEIGHTING DIAGRAMS AND PRICE COLLECTION MECHANISM | 13-29 |
| Chapter-IV | INDEX COMPILATION METHODOLOGY | 30-37 |
| Chapter-V | CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS (2016=100) | 38-41 |
| Annexure-I | LIST OF SELECTED CENTRES UNDER NEW SERIES OF CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS BASE 2016=100 | 42-43 |
| Annexure-II | CENTRE WISE SAMPLE SIZE OF WCFI&ES | 44-46 |
| Annexure-III | SCHEDULE 'A' OF WCFI&ES | 47-88 |
| Annexure-IV | SCHEDULE 'B1' OF WCFI&ES | 89-95 |
| Annexure-V | CENTRE-WISE GROUP WEIGHTS OF NEW SERIES OF CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS ON BASE 2016=100 VIS-A-VIS 2001=100 | 96-106 |
| Annexure-VI | CENTRE-WISE LIST OF MARKETS UNDER NEW SERIES OF CPI-IW (2016=100) | 107-116 |
| Annexure-VII | CENTRE WEIGHTS IN ALL INDIA CPI-IW NEW SERIES (2016=100) | 117-119 |
| Annexure-VIII | LIST OF 78 SELECTED CENTRES UNDER OLD SERIES OF CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS 2001=100 | 120-121 |

| | | |
|-------------|--|---------|
| Annexure-IX | CENTRE-WISE LINKING FACTOR | 122 |
| Annexure-X | COMPOSITION OF TECHNICAL COMMITTEES/ BODIES | 123-133 |



Chapter I

INTRODUCTION

Background:

The history of compilation & maintenance of Consumer Price Index Numbers for industrial Workers owes its origin to the deteriorating economic condition of the workers on account of abnormal rise in prices following the First World War. As a result of sharp rise in prices and the cost of living, some Provincial Governments started conducting Family Budget Enquiries and compilation of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in the country. But none of them was entirely satisfactory. In pursuance of the recommendations made by the Rau Court of Enquiry, the job of compilation & maintenance of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers was taken over by the Central Govt. in 1941. However, the compilation of index numbers on uniform and scientific lines was started only after the conduct of the Family Living Surveys by the Labour Bureau during 1958-59 at 50 important industrial centres, spread over length and breadth of the country, under the guidance of the Technical Advisory Committee on Cost of Living Index Numbers and compilation of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 1960=100. Since then the compilation and maintenance of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers are being done by the Labour Bureau on a continuous basis. The series (1982=100) had replaced the old (1960=100) series with the release of October, 1988 index. Thereafter, the ongoing series on base 2001=100 has replaced the earlier (1982=100) series in 2006.

Index numbers in statistics are indicators of changes in certain economic, social and related phenomena. Most of the current indices are indicators of changes over time in respect of economic characteristics like prices, output, wages, etc. These are termed as price index, production



index, wages index, etc. Price index is a measure of how prices change over a period of time, or in other words, it is a way to measure inflation.

In India broadly two price indices are compiled viz. Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI). The first one captures the price situation in wholesale market and second, measure price changes in retail market. Based on the target group, the CPI is further classified as CPI for Industrial Workers, Agricultural Labourers, Rural Labourers, CPI for Rural, Urban, Combined. The present document deals with the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW), one of the prominent economic indicators, which measures the relative changes in retail prices over a period of time in respect of a fixed set of goods and services consumed by an average working class family in a given area with reference to a base year. The changes in consumer prices affect the real purchasing power of households' money incomes and hence, the standard of living or welfare that they can achieve out of a given money income/ expenditure.

Labour Bureau an attached office of Ministry of Labour and Employment, since its inception has, inter-alia, been entrusted with the responsibility of compilation, maintenance and disseminating of the CPI-IW. The CPI-IW is compiled as per international best practices & guidelines of ILO and dissemination of CPI-IW is Special Data Dissemination Standard (SDDS) compliant. It is released on last working day of subsequent month. The CPI-IW is mainly used for regulating and determination of dearness allowance (DA) being paid to large number of Central/State Government employees and also to the workers in the industrial sectors besides fixation and revision of minimum wages in scheduled employments, hence, having significant financial implications to the Public Exchequer. Further, CPI numbers are widely used as macroeconomic indicator of inflation, and also as a tool by government and central banks for targeting inflation and monitoring price stability. CPI is also used as deflators in the



National Accounts. Therefore, CPI is considered as one of the most important economic indicators.

Compilation of Consumer Price Index (CPI) Numbers in India:

- CPI for Industrial Workers (CPI-IW) with current base 2001= 100.
- CPI for Agricultural Labourers (CPI-AL)/CPI for Rural Labourers (CPI-RL)with current base 1986-87= 100.
- CPI for Rural, Urban and Combined (CPI-U/R/C) with current base 2012= 100.

The first two indices are compiled and released by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment and are specific to population segments. The third is released by the MOSPI. The MOSPI started releasing comprehensive CPIs on base 2010=100 for all-India and States/UTs basis separately for Rural, Urban and combining them to arrive at one CPI (Combined) every month with effect from January, 2011. It revised the base year of the CPI from 2010=100 to 2012=100, incorporating many methodological improvements in consonance with the international practices.

Index Review Committees (IRC) set up by Government:

The Government of India has constituted Expert Committees/ IRCs from time to time to review and report on various aspects of the CPI-IW including the methodology for deriving the weighting diagram, issues relating to conduct of Working Class Family Income & Expenditure Surveys (WCFI&ES), methods of compilation and linking factor, to study and report on the existing price collection procedures and machinery of price collection to make extensive evaluation of the indices and illuminate on improved practices to incorporate while updating the base. Following are the committees set up for CPI-IW:



- 1) Prof. NilakanthaRath Committee in 1977 to examine 1960 based series of index numbers.
- 2) Dr. K. C. Seal Committee in 1980 to examine the details of the proposed family living survey (1981-82) for industrial workers and compilation of new series based on the results of the survey.
- 3) Prof. G. K. Chadha Committee in 2006 to advice Government on matters relating to issues pertaining to Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (CPI-IW) with base year 2001=100.

Major Recommendations of IRC (2006)

- Base year updation at a gap not exceeding 10 years
- Consultations with stakeholders from very beginning till the end of survey
- Standing Tripartite Committee (STC) to be constituted of all the stakeholders like Trade Unions', Employers Organisations', Central/State Government Departments, Women's Organisations and representatives from the newly emerging sectors
- Coverage of sectors be extended beyond existing seven sectors
- Number of centers to be reviewed and new upcoming centers to be added

Base revision of CPI -IW from 2001=100 to 2016=100

The ongoing series of CPI-IW is with base year 2001=100 covering 78 centres spread across the country. To capture the latest consumption pattern of working class family, the Labour Bureau had undertaken the base revision exercise of CPI-IW with base 2016=100.

The new series of CPI-IW intends to update the base year of the existing series of CPI-IW (2001=100) to the base 2016=100. The main objective of the exercise is to bring out the new series of All-India and individual centre wise



Consumer Price Indices for Industrial Workers based on the latest consumption pattern of the working class population.

The consumption pattern of the working class population has undergone change over a period of time and therefore, it becomes necessary that the consumption basket is updated from time to time to account for these changes and thus to maintain the representative character of the index. The need for frequent revision of base on account of fast changing consumption pattern of the target group has been recommended by various National and International level agencies like International Labour Organization, National Statistical Commission, National Commission on Labour and Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living (TAC on SPCL). This recommendation was strongly reiterated by the Index Review Committee (IRC) set up under the Chairmanship of Prof. G.K. Chadha, who was a member of Prime Minister's Economic Advisory Council, which inter-alia stated that the intervening gap between the two series should not exceed 10 years. Labour Bureau accordingly, has initiated the process to revise the base year of the existing CPI-IW series 2001=100 to a more recent base year 2016=100. The major recommendations of this committee have been considered and incorporated in the base revision of CPI-IW (new series).

The various technical issues like coverage of sectors, selection of centres, fixation of sample size, reference period, conduct of working class family income & expenditure survey, etc., involved in the work of base updation have been discussed at length and decided by the technical bodies. The National Sample Survey Office conducted the field work for collecting the income and expenditure data from the 88 selected centres on the behalf of Labour Bureau from January 2016 to December 2016. Subsequently, the data collected under working class family income and expenditure survey was tabulated by National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT). Besides, the pilot survey for organizing the work for collection of retail prices through the officials of the Labour Commissioner's



Office/ Directorate of Economics and Statistics on a part time basis was done by Labour Bureau and the price quotations are being collected and processed on a regular basis. On the basis of the results revealed by working class family income and expenditure survey (WCFI&ES), the weighting diagrams (average consumption pattern) have been derived in respect of all 88 selected centres. Using the prices pertaining to calendar year 2016 as the base prices, the indices are being compiled through the software developed by NIELIT.



Chapter II

SELECTION OF CENTRES, SAMPLE DESIGN & SAMPLE SIZE

2.1 Coverage of sectors under new series:

The new series of CPI-IW (2016=100) covers the industrial workers from the existing seven sectors viz. Factories, Mines, Plantation, Railways, Public Motor Transport Undertakings, Electricity Generating & Distributing Establishments and Ports & Docks.

Working class family: A working class family is a family which is situated within the centre, has at least one member working as manual worker in an establishment in any of the sectors covered, derives 50% or more of its income during the calendar month preceding the day of enquiry through manual work. The manual worker under CPI-IW belongs to one of the seven selected sectors.

The coverage of seven sectors was approved by Standing Tripartite Committee (STC) during its meeting held on 2nd July, 2013 and by Group of Technical Advisory Committee on SPCL meeting held on 22nd October, 2013.

2.2. Centre selection under new series (2016=100) :

The coverage of the centres for the WCFI&ES under new series during 2016 has been thoroughly reviewed on the basis of employment data furnished by the States/ U.Ts for different sectors covered in the States. Lists of centres having concentration of workers and total employment details in the State/ U.Ts relating to these sectors were obtained from various State Governments. Employment data pertaining to seven existing sectors has been used to work out the total centres to be covered in the new series. The employment of industrial workers in these seven sectors has registered an



increase of 15% since the last survey of 1999-2000 in which 78 centres were covered. Thus, on the basis of this increase the number of centres to be covered in the new series has been extended to 88. Therefore, the actual selection of centres has been done on the basis of industrial importance of the centre as ascertained by centre wise employment data. The allocation of centres amongst Mining, Plantation and Factory(other five sectors) sectors in various States/UTs was done on the basis of following three stage process/criteria laid down by TAC on SPCL for 2001 series:

? The sectors being covered were divided into three groups i.e. Mining, Plantation and remaining 5 sectors taken together. The total number of centres were allocated among these groups in proportion of the employment in each group to the total employment in the country as a whole. This was done primarily to ensure that the number of Mining and Plantation centres covered during the last survey are retained.

? The number of centres allocated to each sector was then distributed amongst States on the basis of industrial employment in a State subject to a maximum of 7 centres being allotted to a State in a sector, so that the smaller States could also have representation.

? The name and location of centres were then selected on the basis of centre-wise industrial employment in consultation with the respective State Governments, the centres likely to have major industrial activity in future were also considered.

Accordingly, the sector-wise break-up of the centres is; 8 centres are in Mining; 12 are in Plantation and 68 are in remaining five sectors. These 88 centres cover approximately 60% of total employment in the seven sectors. There are 65 common centres between old (2001=100) and new series (2016=100) and 23 new centres under new series while 13 centres have been dropped. The list of centres selected under new series of CPI-IW is annexed at Annexure I. While there has been a



significant increase in the number of centres from 50 on base 1960=100 to 70 on base 1982=100 and 78 in the existing series of CPI-IW with base 2001=100, there has also been an enhanced coverage of working class families surveyed under the above three series.

2.3. Sample Size and Sampling Design:

2.3.1. Sample Size:

After deciding about coverage of sectors and selection of centres to be surveyed during Working Class Family Income and Expenditure Survey (WCFI&ES) for generating CPI weights at the basic item level, the next important issue is the determination of size of the sample survey. It is to be mentioned that while working out the sample size for conducting of WCFI&ES, Labour Bureau has adopted the methodology followed by it in the earlier CPI-IW base revision exercises with approval of TAC on SPCL. Accordingly the sample size of a particular centre had been arrived at by considering-

- (i) heterogeneity in the consumption pattern of that centre studied by constructing sub-sample wise weighting diagrams and then by computing Coefficient of Variation (CV) for 36 months belonging to calendar years 2010, 2011 and 2012;
- (ii) precision objective, which in the instant case is 2%, one of the highest for such surveys and
- (iii) Manageability of workload by the field staff.

For determination of sample size, centres were classified into two categories:

- i. Centres common with the previous WCFI&ES
- ii. New Centres



- (i) For the 65 common centres, sample size has been arrived at by using the Coefficient of Variation(C.V.) of sub-sample indices of 36 months (January, 2010 to December, 2012)for each centre and compared with the precision envisaged for the survey viz. 2 percent. The centres where average CV is less than or equals the precision of 2% as envisaged for the new series, the sample size of previous survey is retained. In case the average value of 36 months CV was greater than 2, then the sample size is determined by multiplying sample size of previous WCFI&ES by $(C.V.)^2/4$ restricting it to twofold of previous survey.
- (ii) In respect of 23 new centres covered during the present survey, for which such past data were not available for working out the C.V., the sample size was determined after taking into consideration comparability of
 - a. the variability observed at neighbouring/ similar centres and
 - b. Size of employment of industrial workers.

The minimum sample size for a centre was fixed at 216 for Schedule 'A' (Income & Expenditure) and 84 for Schedule 'B1' (House Rent). Accordingly, the sample size for other centres was adjusted to multiples of 216 and 84 respectively to achieve equitable distribution of work amongst field Investigators. The sample sizes varied at different centres from 216 to 3024.

The TAC group on SPCL approved the sample size of 48,384 working class families belonging to the existing seven sectors for coverage under the family budget enquiry and 18816 working class families belonging to these sectors for coverage under the house rent survey during its second meeting held on 20th June, 2014.



These samples sizes were also approved by STC during its second meeting held on 24th February, 2014. The centre-wise sample size of working class families covered during the WCFI&ES is annexed at Annexure II.

2.3.2 Sampling Design

The Sampling Design adopted for the survey was basically a Stratified two-stage sampling design with clusters of blocks/establishments as the first stage units and working class families or workers in the establishments as the second stage units. Preliminary enquiries were conducted with a view to defining the boundaries of each centre, examining the feasibility of adopting the tenement or pay-roll method of sampling and collecting information regarding the concentration of working class population and frame list of First Stage Units(FSU).

The type of sampling (tenement/ payroll) adopted at each centre had been decided after taking into consideration the information collected during the preliminary survey as well as the operational convenience. In the case of Electricity Generating and Distributing Establishments, Ports & Docks and Railways, wherever pay-roll sampling has been adopted, a stratified uni-stage sample design has been adopted in certain centres where the total number of workers in these sectors was small.

It may be noted that the tenement sampling has been followed in such centres/sectors where at least 75 percent of workers are identifiable through tenement approach and in other cases payroll sampling has been adopted.

Tenement Sampling:

In case of sectors/centres where tenement sampling has been adopted, clusters of blocks have been formed so as to have maximum heterogeneity within the cluster with respect of one or more of the following characteristics: the type of industry, the working class population engaged in, their state of origin and percentage of concentration. As stated earlier,



the sample design is two stage one with blocks or clusters of blocks as first stage units and working class family as the unit at the second stage. The blocks have been arranged in a suitable manner and a systematic sampling of 12 clusters of blocks has been drawn.

Pay-roll Sampling:

In the case of centres/ sectors where pay-roll sampling has been adopted, the establishments in each sector have been generally divided into two strata, stratum one consisting of large establishments each with an average number of workers generally exceeding one thousand and stratum two consisting of remaining establishments. The total sample size of second stage units (i.e. working class families) for the centre has been distributed among various sectors featuring at the centre in proportion to number workers in them. The sample size allocated for each sector has been further distributed over two strata within a sector (in case stratification has been done) in proportion to the number of workers in them.



Chapter III

WEIGHTING DIAGRAMS AND PRICE COLLECTION MECHANISM

3.1. Weighting diagrams:

The system of base period expenditure weights relating to an index series is known as 'weighting pattern' or 'weighing diagram'. There are two essential constituents of a CPI namely, (i) the weighting diagram and (ii) retail prices. The weighting diagrams for the purpose of compilation of index numbers have been derived on the basis of average monthly family expenditure on a limited set of items whose prices are represented in the index basket. The weighting diagram is built up at the start of the series usually on the basis of a family budget enquiry/WCFI&ES (to determine the consumption pattern) among the target population group to which the CPI relates. The weighting diagram along with the base prices of the goods and services constitutes the basic framework on which the index series is compiled periodically. Following 'theory of fixity', the weights and base prices remains fixed throughout the lifetime of the series.

As per the recommendations of the International Labour Organisation (ILO), the Working Class Family Income & Expenditure Surveys (WCFI&ES) should be conducted at least once in every 10 years. Since the consumption pattern undergoes changes over a period of time, it is necessary that the consumption basket is up-dated from time to time in order to ensure a more accurate Consumer Price Index Numbers. Labour Bureau has conducted such surveys in the past during 1958-59, 1981-82 and 1999-2000. As mentioned in chapter 1, under the new series such survey was conducted from January to December 2016. This survey facilitated updation of the consumption basket, which resulted in construction of weighting diagrams for new series of CPI-IW with base year 2016=100.



3.1.1. Conduct of WCFI&ES:

The investigators of the NSSO through a detailed questionnaire collected the income and expenditure data in order to reflect the temporal change in the consumption pattern of the working class population at all the 88 selected centres across the country during Jan- 2016 to Dec-2016 under the overall guidance and supervision of Labour Bureau. The information collected during the course of survey relates to all family members of a working class family during the reference month about their nature of employment along with industry/occupation, age, marital status, literacy level, economic status, activity status, earning strength, income/ receipts from various sources, quantity and expenditure/disbursement on various items purchased and consumed, expenditure on housing and other details, expenditure on items of non-consumption as well as investments and indebtedness with source and purpose of loan etc. During this survey the data are also collected on demographic and socio-economic conditions of the working class population. For this purpose, the detailed instructions were issued by Labour Bureau for canvassing of schedules by the field staff in order to ensure accuracy and uniformity in collection of data. Besides, extensive training was imparted to Officers/ Officials of NSSO at different places by Labour Bureau before the launch of the actual work. Under the WCFI&ES two types of schedules were canvassed:

- 1 Schedule 'A' is designed to collect information on average monthly income and receipts, average monthly expenditure and disbursements on all consumable as well as non-consumable items with quantities consumed, capital outlays and consumer durables, demographic particulars, purchase source of important items, budgetary position, indebtedness and dwelling inhabited etc. A copy of schedule 'A' is attached at Annexure III.
- 2 Schedule 'B1' is designed to collect the information on housing conditions particularly in regard to house rent paid by them and



availability of basic amenities including water, electricity, no. of rooms, approximate area etc. A copy of schedule 'B1' is attached at Annexure IV.

3.1.2. Scrutiny of Schedules:

Two levels of scrutiny ensured the reliability and authenticity of data collected from the field. At the first level, NSSO made elaborate arrangements for field scrutiny of canvassed schedules on the basis of field scrutiny manual circulated by Labour Bureau. Thereafter, these schedules were again scrutinised in detail by the Labour Bureau to ensure consistency in the collected data. Discrepancies revealed during the course of the scrutiny were reconciled by referring the scrutiny points to the respective RO/ SRO of the NSSO and also by making actual visits to the field, if necessary.

3.1.3. Tabulation of data:

The responsibility for computerised processing and tabulation of data was entrusted to the NIELIT. In this regard, the detailed instructions were provided to NIELIT. The entire exercise which, inter-alia, included data entry, data cleaning, generation of tables at centre level etc and their validation have been done with the active involvement of Labour Bureau.

3.1.4. Retention of items in index basket:

After the collection of expenditure data on large number of items through the conduct of family budget enquiry, the next step is to define and select the items to be retained in the final index basket. It is neither necessary nor desirable to include all consumption items figuring in family budget enquiry therefore, the items retained in the index basket should be representative of consumption pattern of target population of respective centre. It is to mention that the inclusion of items having negligible weights/shares and



also consumed by very few households/ working class families will make the basket big and virtually have no impact of these items on the overall index. On the other hand, large number of items may also increase the chance of non-response error. Also the item basket should not be very small rather it should be of optimum size consisting all sections of items in a more representative way. Following only one criterion may not yield a representative basket, therefore, multiple criteria have been considered to include administered items, items having reasonable share of expenditure, and items consumed by most of the working class families in a given centre. Accordingly, all items having expenditure of 1% or more at sub-group level; important PDS items; and items whose consumption is reported by large number of families irrespective of expenditure criterion, have been retained in the index basket.

3.1.5. Imputation procedure:

Since it is neither desirable nor practical to represent all the items directly in the index basket, therefore, an attempt has been made to include all the priceable items with significant expenditure (1% expenditure at sub-group level). Besides, essential items like salt, match box etc. where the number of reporting families was large have also been retained even if the expenditure reported on these items was not adhering to the significance criterion in strict sense. At the same time it has also been ensured that all the sub-groups/ groups are adequately represented. Special endeavour has been made to ensure uniformity in the imputations across the centres as far as possible. For items not included directly in the Weighting diagram, the generally accepted method has been followed by imputing the expenditure to the items observed or expected to have a broad similarity in price behaviour as that of item not included in the index. Wherever the information on price behaviour was not available, other economic factors like similarity in want; same manufacturing process etc. were also taken into consideration for imputations as an approximation to the actual price behaviour. Imputations



have been done at four levels namely, (i) Item level, (ii) Section level, (iii) Sub-group level and (iv) Group level.

- Item level imputation was done by simply adding the expenditure of one or more un-priced items to a priced item within the sub-group.
- The section level imputation consisted of a proportionate distribution of expenditure of one or more un-priced items over more than one priced items, forming a distinct section within the sub-group.
- The sub-group imputation involved proportionate distribution of expenditure of one or more un-priced items over all the items included in the sub-group. Similar procedure was followed for group level imputation also.

3.1.6. Derivation of Weighting Diagrams:

The weighting diagrams for the purpose of compilation of index numbers have been derived on the basis of average monthly family expenditure. The average budget derived from a family budget enquiry consisted of all items of expenditure reported by the families surveyed under Working Class Family Income & Expenditure Survey (WCFI&ES) conducted by NSSO. These items of expenditure can be broadly divided as:

- a. Consumption Expenditure;
- b. Non-Consumption Expenditure; and
- c. Capital outlays.

Only consumption expenditure has been considered for the purpose of a weighting diagram for construction of consumer price index series. Non-consumption expenditure and expenditure on Capital outlays like income tax and other direct taxes, charities and gifts, interest on debts, repayment of debts, litigation expenses, life insurance premium etc. have been omitted.



As per the recommendations made by TAC on SPCL during 64th meeting held on 22nd October, 2018, the Weighting Diagrams of 88 centres had been recasted following the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) classification of items into different Groups and Sub-Groups in line with CSO's (Central Statistics Office) classification.

Classification of items is the first step in compiling the CPI numbers. In broad sense, a classification is a procedure in which items are organized into categories based on information on one or more characteristics inherent to the items. In years past, countries used their own distinct systems for classifying the range of products covered by their CPI. Most countries have now, however, moved to the international standard classification COICOP (Classification of Individual Consumption according to Purpose). The COICOP is part of a set of classifications of expenditures according to purpose, also known as "functional" classifications, which are part of the System of National Accounts (SNA). The idea of classifying household consumption expenditure at the international level was mentioned for the first time in October 1923 at the first International Conference of Labour Statisticians organized by the International Labour Organization (ILO). As an international standard classification, COICOP is the primary tool for collecting and presenting internationally comparable statistics on individual consumption according to purpose. COICOP is one of the "functional" classifications designed to classify certain transactions of producers and of three institutional sectors, namely household, general government and nonprofit institutions serving households. They are described as "functional" classifications because they identify the "functions" - in the sense of "purposes" or "objectives" - for which these groups of transactors engage in certain transactions. The objective of COICOP is to provide a framework of homogeneous categories of goods and services, which are considered a function or purpose of household consumption expenditure, which are those expenditures that are made for the benefit of individual persons or households. In order to ensure better comparability with CPIs of other countries, it is desirable to have the classification of items synchronized with COICOP. At the same time, it is also important to make it relevant to the Indian/ domestic context by making it comparable to groups and sub-groups being followed in the CPI series compiled in the country.

Source: Classification of Individual Consumption according to Purpose (2018), Statistical papers, series M.99, Dept. of Economic and Social Affairs, Statistical Division, White cover publication, pre-edited text.
Consumer Price Index, changes in revised series, (base year 2012=100), MOSPI, CSO, NAD, P&CLU, 2015.
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=352>



The six consumption groups adopted for CPI-IW with base 2016=100 are as follows:

- i) Food & Beverages;
- ii) Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants;
- iii) Clothing & Footwear;
- iv) Housing;
- v) Fuel & Light; and
- vi) Miscellaneous

The Food Group and the Miscellaneous Group have been further divided into sub-groups as follows:

Food and Beverage s Group:

- a. Cereals and Products
- b. Pulses and Products
- c. Milk and Milk products
- d. Egg
- e. Meat and Fish
- f. Oils and Fats
- g. Fruits Fresh and Dry
- h. Vegetables
- i. Sugar and Confectionery
- j. Salt and Spices
- k. Non-Alcoholic Beverages
- l. Served & Packaged Processed Food

Miscellaneous Group:

- a. Education
- b. Health
- c. Recreation & Entertainment
- d. Household Goods & Services





- e. Transport & communication
- f. Personal Care & Effects


As per the recommendation of TAC on SPCL the Bedding items had been shifted from clothing and footwear group to miscellaneous group. Similarly, the Egg has been separated from Egg, Meat and Fish sub-group in line with CSO's classification. The All-India group level weights under new series vis-a-vis earlier series of CPI-IW (1982=100 & 2001=100) and Consumer Price Index (Urban) compiled by CSO are summarized in table below.

Table 3.1. All-India GROUP WEIGHTS UNDER CPI -IW 2016=100 vis -à-vis 2001=100, 1982=100 and 2012=100 CPI(U) by CSO

| Groups | Labour Bureau | | | CPI(U), CSO |
|--|---------------|--------|--------|----------------|
| | 1982 | 2001 | 2016 | 2012 |
| I-A Food & Beverages (Food Group)* | 57.0 | 46.2 | 39.17 | 36.29 |
| I-B Pan, Supari, tobacco & Intoxicants | 3.15 | 2.27 | 2.07 | 1.36 |
| II. Fuel & Light | 6.28 | 6.43 | 5.5 | 5.58 |
| III. Housing | 8.67 | 15.27 | 16.87 | 21.67 |
| IV. Clothing & Footwear (Clothing, Bedding & Footwear)* | 8.54 | 6.57 | 6.08 | 5.57 |
| V. Miscellaneous | 16.36 | 23.26 | 30.31 | 29.53 |
| General Index | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*denotes the respective group name under previous/ existing series 2001=100.





It may be observed that there is a general pattern of declining share of food group and increasing share of miscellaneous group in general index. The centre-wise detail of group level weights of the new series (2016=100) vis-a-vis old series (2001=100) is placed at Annexure V. The analysis of weighting diagrams of 88 centres has been discussed in detail during the 4th meeting of TAC group on SPCL held on 4th November, 2019 and were approved by TAC on SPCL during its 67th meeting held on 28th January, 2020, New Delhi. After this the 3rd meeting of Standing Tripartite Committee constituted by Ministry of Labour & Employment was held on 27th February 2020, at Labour Bureau, Shimla wherein the STC members gave its concurrence to the Weighting Diagrams prepared by Labour Bureau.

3.2. Price collection work under new series:

Under the new series of CPI-IW with base 2016=100 the item level price data is being collected from 317 markets spread across 88 centres on the regular



basis. The prices are collected on weekly, monthly, etc basis in respect of items selected on the basis of results of WCFI&ES.

3.2.1. Selection of markets:

Main criterion for selection of any market for collection of prices is the popularity. The popularity of the markets is determined through interaction with knowledgeable sources like various local Trade Unions' leaders, representatives of Employer's Organisations, local MLA/MP/Councillors, local officers of Department of Economics & Statistics or Labour Department and a cross section of industrial workers. In case, a cluster of localities has more than one popular market, then the most popular amongst these markets is selected for the purpose of collecting prices. The markets in a centre are selected in such a manner that different price trends prevailing in the centre are captured. The list showing 317 selected markets in 88 centres from where price data are collected for constructing the Consumer Price Index Number series with base year 2016=100 is given in Annexure VI.

3.2.2. Selection of shops:

Popularity is again the main criterion for the selection of shops. The selection process includes observation of the shops during peak business hours by a team of field officers of the Labour Bureau and interviews of the local workers. For each item/service, two selected shops and two reserve shops are listed out. In case price of a selected item cannot be collected from any of the selected shops, then the prices are collected from the reserve shops. If prices cannot be collected even from the reserve shops for a particular item, then the prices are collected from any other shop in the market.



3.2.3. Organisation of price collection work:

Before the launch of the main survey, pilot surveys on scientific lines were conducted at various centres to demarcate the centre-boundaries with a reference to market selection; selection of shops; testing and finalisation of price collection schedule along with fixation of specifications of the items to be priced; setting up of price collection machinery in consultation with State government by appointing Price Collectors/ Supervisors and fixation of price collection day. The Price Collectors and the Price Supervisors, appointed by the Bureau on part-time basis, are generally the employees of the State Directorate of Economics & Statistics or State Labour Commissioner's Office. The designated Price Collectors and Price Supervisors are given training by the Labour Bureau for the collection and supervision of prices. They are familiarized with the specifications of selected items, selected shops, price collection schedules and the related instructions. A senior level Officer of the same department is appointed as a State Coordinator to oversee and supervise the work of all the Price Supervisors and Price Collectors.

With the setting up of price collection machinery, retail prices from 317 selected markets started flowing into Labour Bureau. Initially, a very exhaustive price collection schedule was introduced in the field, which later on, was pruned on the basis of actual expenditure reported during the main survey and these price collection schedules have been again revised on the basis of actual weighting diagrams and would continue throughout the lifetime of the series.

3.2.4. Scrutiny and processing of prices:

The retail prices are collected on a weekly/ monthly basis by the Price Collectors through personal visits to the selected shops in the markets on the appointed price collection day every week/ month. The work of the Price Collectors is also supervised by the Price Supervisors. Both the Price



Collectors as well as Price Supervisors are employees of the respective State governments who work on part-time basis for CPI-IW in lieu of which honorarium is paid to them. There is a State Co-ordinator who is overall incharge for the price collection work for the entire State. Besides, the officials of different Regional Offices/ Sub-Regional Office of the Labour Bureau undertake periodic price audit work at different centres on regular basis. Prices for each commodity are collected from two selected shops of each of the selected markets. The prices from the field are subjected to detailed examination from the point of view of consistency on account of inter-shop, inter-market and inter-period variations. Discrepancies wherever found are referred to the field and prices are rectified accordingly before utilising the data for index compilation. The seasonal pattern as reflected in the price movement has been specially looked into.

Advantages of price collection machinery- For price collection there are three tier checks. In the first stage, the price supervisor checks and verifies the prices collected by Price Collectors. In the second stage, officers from Regional Offices of Labour Bureau undertake price audit and in the third stage prices are studied and reference is made to field with a view to seek clarifications wherever desirable. Thus, the price collection machinery is totally foolproof as it is done by employees of state authorities (either by Directorate of Economics/ Labour Commissioner's office) and it leaves negligible chance of erroneous prices going into compilation of CPI-IW.

3.2.5. Concept of price:

The definition of price adopted for the compilation of CPI is the price which a consumer/industrial worker has to pay for the specified item/variety, for the specified unit, in the selected shop of the selected market. It includes all taxes like sales tax, etc., and excludes rebates and discounts, which are universally applicable for all the customers. It is the actual price prevailing



in the open market at which transaction takes place between a buyer and a seller. The Black market or unauthorized prices are, however, not taken in the compilation of index numbers. In case of rationed commodities, the fair price is taken.

3.2.6. Finalization of Base Year:

The well-known criteria for the selection of base year are:

- The base year should preferably synchronise with the period of the income & expenditure survey and should not be very distant from the actual period of the survey.
- Reliable price data should be available for the chosen period.
- The base year should be a normal year i.e. a year in which there is no abnormalities in the price level and price variations.
- The base year of the constituent centres should be uniform so as to facilitate easy and quick compilation of the All-India Index.

The use of 2016 as the base year for the compilation of CPI -IW has been approved by the TAC on SPCL during its 64th meeting held on 22.10.2018.

3.2.7. Selection of items for price collection during base year:

All probable items/ services being consumed by the working class population in a selected centre were listed in consultation with the local knowledgeable persons including workers and also on the basis of the experience of previous surveys. The items that are to be included in the final index basket have been decided based on the results of the WCFI&ES and preparation of weighting diagram at centre level. Since it was necessary to collect prices of the items that are likely to appear in the index basket so as



to ensure that the item level prices are available for the base year therefore, initially a comprehensive/ exhaustive list of items/ services were incorporated in the draft/ tentative price collection schedules and later on, based on the centre-wise weighting diagrams, these price schedules have been revised.

3.2.8. Base prices:

The base prices are the annual average of the prices collected during the period of January to December, 2016. The average is the geometric average of price data and it is least influenced by the extreme values. It may be noted that the base prices remains fixed throughout the lifetime of the CPI-IW series and thereafter, the current prices of the item basket are collected regularly to capture the price movement. Under the new series the Labour Bureau has adopted 'Jevons formula' which uses Geometric mean of price relatives instead of arithmetic mean of price relatives.

3.2.9. Training of price collectors/ price supervisors:

A three day Annual Training Programme for a representative group of Price Collectors and Price Supervisors is organized by Labour Bureau every year in the month of September in which Price Collectors and Price Supervisors participate. Apart from this, State Level Training Programmes are also organized from time to time, usually once in two years, if possible, on the request of the State Governments. A set of Instructions for the Price Collectors and Price Supervisors have been provided for better understanding. Some of the State Coordinators also participate in such training programmes. These trainings specifically cover the aspects of CPI numbers like price collection schedules, specifications problems, index compilation techniques, problems in index compilation and field problems



faced by them during the price data collection. The training sessions are interactive and special attention is paid to the problems posed by the participants.

3.3. Technical Meetings and Stakeholders Consultations held during the Process of Updating the Base of the Existing Series of CPI-IW (2001=100) to the New Base 2016=100

Since, the base revision exercise of CPI-IW is highly technical, and complex in nature, therefore in order to decide the technical details of base updation exercise the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living (TAC on SPCL) and TAC Group on SPCL were constituted. Also the Standing Tripartite Committee (STC), involving stakeholders as member on recommendation of Prof. G. K. Chadha Committee, was constituted by Ministry of Labour and Employment (MoLE) to discuss and decide the technical issues at various stages of base revision exercise (the composition of these committees are annexed at the end of report). The issues discussed and approved during the various stages of base updation by these committees/bodies have been summarized in following table.

Table 3.2. Issues approved by TAC on SPCL/ TAC Group on SPCL

| Technical Body | Date of Meeting | Issues approved |
|-------------------------|-----------------|--|
| 1. Group of TAC on SPCL | 22.10.2013 | i. Coverage of Sectors ii. Selection of Centres |
| | 20.06.2014 | Determination of Sample Size |
| | 15.09.2014 | i. Sampling Design ii. Schedules and Instruction of Preliminary and main survey of WCFI&ES. |
| 2.TAC on SPCL | 23.09.2014 | All the above issues were considered and approved. |
| 3.NSC | 25.11.2014 to | All the above issues |



| | | |
|-------------------------|------------|---|
| | 26.11.2014 | were considered and approved. |
| 4. TAC on SPCL | 22.10.2018 | Base year 2016=100 |
| 5. Group of TAC on SPCL | 04.11.2019 | Discussion on trial indices and methodology |
| 8. TAC on SPCL | 28.01.2020 | Approval of base revision of CPI-IW |

Table 3 .3.Consultations with STC

| Date of Meeting | Issues Consulted |
|-----------------|---|
| 02.07.2013 | i. Coverage of Sectors ii. Selection of Centres |
| 24.02.2014 | Determination of Sample Size |
| 27.02.2020 | Discussion and concurrence of trial indices and its methodology |

Index Users Meetings: In order to widen the sphere of consultations with the Trade Unions, Employers' Associations and State Govt. Departments in the base updation of CPI-IW as suggested by Prof. G. K. Chadha Committee to ensure participation of representatives of various trade unions, meetings of Index Users were held at Mumbai on 04-03-2014, Chennai on 12-04-2014, Kolkata on 26-05-2014 and Shillong on 1-12-2014 so as to sensitise various stakeholders of CPI IW and to acquire their inputs for incorporation in base updation.

Chapter IV

Index Compilation Methodology

4.1. Basic framework:

The main components for constructing consumer price index numbers are the weights and prices. Weights are the share of actual expenditure on each commodity during the base period and base prices are the annual average of item level prices during the 2016 in respect of items retained in the index basket. Following theory of fixity the weights and base prices remains fixed throughout the lifetime of the series and only current period prices are collected on weekly, monthly etc basis to capture the price movement at the market level. The broad stages involved in the index compilation are depicted below:




Figure 5.1. Stages involved in index compilation.



Statistically, index compilation involves two step procedure:

- x In the first step, the elementary price indices or item level indices for the elementary aggregates are calculated by using the “Jevons formula” which uses Geometric Mean of Price Relatives where price relatives are calculated by dividing the current price by base price. These elementary price indices are used to obtain higher-level indices using the associated expenditure weights during the index compilation.
- x In the second step, these elementary level indices are averaged (aggregated) to calculate the higher level indices using consumption expenditure as weights associated with each level using Laspeyres index formula.

An algebraic form of Laspeyres’ index formula can be written as:

$$I_n = \frac{\sum q_o^i p_n^i}{\sum q_o^i p_o^i} \quad \text{----- (1)}$$

Where,

p_n^i = price for i^{th} item at time ‘n’ (current period)

p_o^i = price for i^{th} item at time ‘0’ (base period)

q_o^i = quantity of i^{th} item purchased during the base period.

which is equivalent to:

$$I_n = \frac{\sum q_o^i p_o^i \times (p_n^i / p_o^i)}{\sum q_o^i p_o^i}$$



$$\ln = \sum (p_n^i / p_o^i) \times w_i \quad \text{----- (2)}$$

where w_i is the weight assigned to the i^{th} item or share of expenditure for i^{th} item in base period and the expression (p_n^i / p_o^i) is called the Price Relative (PR) which is the ratio of the price of an item in the current period to its price in the base period. Thus, eq. (2) represents the weighted average of the elementary price indices where weights being the expenditure incurred on the i^{th} item in the base period. Under the new series of CPI-IW (2016=100), Labour Bureau has adopted the 'Jevons formula' for compiling indices therefore, in this case p_n^i and p_o^i are the averages (using Geometric Mean) of the prices for the i^{th} item collected from different markets in current period and base period respectively. Thereafter, GM has been used for averaging the price relatives of i^{th} item across all markets in a given centre.

4.2. Rationale for using Jevons Index formula for elementary price index :

The Laspeyres index formula has been used for index compilation because of its inherent practical advantages. In existing series with base 2001=100, the arithmetic mean of price relative has been used for compilation of indices. However, as per the direction of Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living (TAC on SPCL) during its meeting held on 22.10.18, New Delhi, Labour Bureau has used the Geometric Mean of price relative (Jevons formula) instead of Arithmetic Mean for compiling indices under new series. It may be noted that the Geometric Mean of price relative (Jevons formula) is less influenced by extreme prices than the ratio of arithmetic mean prices and hence, the elementary price indices are less volatile in nature. Moreover, the Jevons approach satisfies the axioms or statistical tests like time reversal test, commensurability test and transitivity test.

4.3. Construction of All India Index :

The All India index is the weighted average of the 88 centre level indices. The centre weights are being determined as the ratio of product of average



consumption expenditure per family as per the main survey and the number of working class families represented by a centre in a State to sum of such products over all the centres. The centre weights in all India CPI-IW new series (2016=100) are placed at Annexure VII. The provisional indices compiled by Labour Bureau were discussed in detail and approved by TAC on SPCL during its 67th meeting held on 28.01.2020. Subsequently, these provisional indices were discussed and deliberated in detail by STC during its meeting held on 27.02.2020. The STC also gave its concurrence to the methodology of trial indices compiled by Labour Bureau.

4.4. Treatment of Seasonal items:

Special care has been taken in case of seasonal items. In case of fruits and vegetables items, month-wise seasonality have been fixed in the base year itself on the basis of their availability in different months of the year i.e. a particular fruit/vegetable is priced during the months it is available in the market in saleable quantity. The seasonality had been determined by examining the availability of price data of various items from markets of the centre. Besides, month-wise expenditure reported on these items during the main survey was also taken into account while finalising the seasonality. The item weights within the vegetables and fruits sub-group of food group vary from month to month on the basis of vegetables and fruit items retained in the index basket for all the 12 months separately of a year. Seasonality once finalised would remain fixed throughout the lifetime of the series.

4.5. Treatment of Fair Prices:

Under the Public Distribution System, Government has been supplying some of the essential items to the public at concessional rates and this facility is also available to working class population. For PDS items like Rice, Wheat, Sugar, etc., prices are collected from both open market and PDS shops as these items are purchased by the target population from both the



sources. The quantity availed from PDS is as per entitlement of the beneficiary/household which may be less than actual requirement and in that case the remaining quantity is purchased from open market to meet the family's total requirement. It may be noted that the price of PDS items used in index computation is weighted average of open market and PDS prices wherein weight is the proportion of total requirement met from these two sources for targeted beneficiary. For non-targeted beneficiary, only open market prices are used. Thus, in case of PDS items due care has been taken to arrive at weighted price (PDS & Open Market) of the item. With the use of weighted average price of PDS items, the open market prices are appropriately accounted for. For all remaining items under index basket, only open market prices have been used.

4.6. Index for Housing Group:

The change in rent and related charges, which constitute a single term under housing group, is captured through Repeat House Rent Survey (RHRS) which is conducted in the form of six monthly rounds. The house rent index is utilized in the compilation of centre level general index and the centre level general indices are utilized in the compilation of a weighted average All-India Index. In the compilation of all-India group indices, a separate all-India Housing group index is also compiled like all other groups such as Food & Beverages; Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants; Fuel & Light; Clothing & Footwear; and Miscellaneous.

4.6.1. Objective and definitions:

The main objective of the Repeat House Rent Survey is to collect data on house rent and related charges from a fixed sample of dwellings, according to a prescribed procedure, in order to measure the changes in rents for a fixed standard accommodation and amenities as revealed through working class family income & expenditure survey. Rent for the sampled dwelling is the price for housing which goes into the index compilation.



'Rent' implies compensation payable to the owner of specified accommodation by the occupant. In case of self-owned dwelling the comparable rent which is the rent paid for the similar rented accommodation in the same building or nearby locality has been taken into account. The comparable rented dwelling may even be occupied by non-working class family.

Unit: The 'Unit' of the survey is the dwelling (and not the sample worker/family) occupied by the sample family. Thus, the identity of dwelling is important and not the identity of the family. Further, the dwelling must be under occupation of a family of a sample worker belonging to any of the seven sectors of employment being covered under the definition of industrial workers in the Working Class Family Income & Expenditure Survey. Three types of dwellings viz. Rented, Rent Free and Self-owned have been covered across all the centres as is done under the existing series with base 2001=100.

Rented dwelling is defined as the entire portion of the residential accommodation hired by the sampled working class family on payment of rent.

Rent-free dwelling is defined as the entire portion of the residential accommodation occupied by the sampled family which has been provided by the employer of the sampled worker without charging any rent.

Self-owned dwelling means a residential accommodation of which any member of the family of the worker is an owner and the same is occupied by the family.

Round/Sub-round: The total span of six months to cover all the selected dwellings is known as a round and every month of the round is termed as a sub-round for this survey. All the dwellings covered in a sub-round are surveyed again after an interval of six months in the subsequent round. There are two rounds of the House Rent Survey in a year.



Sector: A set of similar establishments classified by the industrial divisions as per their economic activities are termed as a 'Sector'. Seven sectors covered in the main survey are Factories, Mines, Plantations, Railways, Public Motor Transport Undertakings, Electricity Generating & Distributing Establishments and Ports & Docks.

Weights: In RHRS, the indices in respect of three categories of houses viz. Rented, Self-owned and Rent Free are combined using the weights which are proportions of families residing respectively in the three categories covered during the main working class family income & expenditure survey.

For the purpose of house rent survey, sampled dwellings for a centre are divided into six equal groups and one group is covered in the month. Thus, a group covered in a given month (say, January) will be covered again after six months (i.e. in July). The order of visits to the sampled dwellings is kept same from round to round in order to ensure a gap of six months between two consecutive visits, to each sampled dwelling. Thus a span of six months to cover all the selected dwellings forms a round and every month is termed as a sub- round for this survey. The index for the housing group is revised twice in a year i.e. in January and July month of every year. The index is calculated once in every six months and is kept constant for the remaining five months of the round on account of the tendency of house rent to remain more or less stable over short periods. The same practice is also followed in the existing series of CPI-IW(2001=100).

During the survey, a sampled dwelling may be found as casualty due to reasons like demolition, utilization of the dwelling for non-residential purpose, rent cannot be collected due to legal dispute, major structural changes etc. Under such circumstances, a dwelling is substituted with similar type/ category of dwelling i.e. rented is substituted with rented dwelling, rent free is substituted by rent free dwelling and self- owned by self-owned dwelling. In case, a dwelling is treated as casualty in successive two rounds, ensured after a second visit in a sub-round, the dwelling should



be substituted by a dwelling available in the frame in a circular manner but nature of dwelling must be same. However, the substituted dwelling may belong to a different sector as compared to the original dwelling.

4.6.2. Compilation of Housing Index

Chain Base Method : It is unrealistic to assume that all the sample dwellings would remain either occupied or be in the same condition during every successive Round. Therefore, instead of working out price relatives directly with reference to the base year prices, as in the case of other items of the index basket, the rent relatives of all the dwellings in the sample are worked out on the basis of total rents of the sampled dwellings in current Round of RHRS with reference to the previous Round of RHRS. The rent relative of the current Round is then multiplied with the house rent index of the previous Round to obtain the house rent index for the current Round and in this manner a chain to the base year is established. This is how Chain Base Method is followed in the compilation of House Rent Index.

In this method the total net rent of the sample dwellings during the current round (6 month period) is expressed as a percentage of the corresponding net rent of the previous round and this percentage is multiplied by the rent index of the preceding round to yield the index for the current round. The house rent index for the rented and comparable rented dwellings is compiled separately by this procedure. Since, the rent for rent-free dwellings is taken as zero, the house rent index for such dwellings is kept frozen at 100.

The three housing indices (rented, self-owned and rent free houses) are combined using weights which are proportions of working class families residing in rented houses, self-owned houses and rent free houses as revealed by the main survey. The Index is calculated on round basis once in every half year and utilized in the compilation of centre-wise general indices for January and July.



Chapter V

Consumer Price Index for Industrial Workers (2016=100)

5.1. Introductory

The ongoing series of CPI-IW is with base year 2001=100 covering 78 centres spread across the country. To capture the latest consumption pattern of working class families, the Labour Bureau had conducted the base revision exercise of CPI-IW to update the base year of the existing series of CPI-IW (2001=100) to the base 2016=100. The main objective of the exercise is to bring out the new series of All-India and individual centre-wise Consumer Price Indices for Industrial Workers based on the latest consumption pattern of the target population, industrial workers in instant case.

The following are the key features of the ongoing series of CPI-IW:

- The current series of CPI-IW on base 2001=100 is compiled for 78 selected centres in the country (list is annexed at AnnexureVIII). The All-India Consumer Price Index for Industrial Workers is the weighted average of these 78 centre indices.
- The Centre-wise Weighting Diagrams for the Index have been derived from the results of Working Class Family Income and Expenditure Surveys conducted during 1999-2000 in all the 78 selected centres.
- The present system of price collection passes through three tier scrutiny- at the first tier, the prices collected by the price collectors are scrutinized by the Price Supervisors who are middle level officers of the State Government working in same department - at the second stage prices are scrutinized by the Officers of the Regional Offices of the Labour Bureau and at the third tier they are scrutinized by the Officers at Head Quarter. These price data, after cleaning them for



conceptual/factual errors at various levels, are utilised for the compilation of index numbers.



- Housing group index is compiled by following the Chain Base method, in which rent movements are compared with the last six monthly period and not with the base period. Rent index is calculated once in every six months viz., Jan. and July and kept constant for the following five months.
- The index is compiled by using Laspeyres base weighted formula. The indices are compiled on monthly basis with a time lag of one month and are released through website, Press Note, Monthly Index letter and Indian Labour Journal.

From the above account, it may be mentioned that broad features of old series (2001=100) have been retained under the new series with base 2016=100 as well, however, following are the improvements in the updated series of the CPI-IW with base 2016=100:

- Under updated series, the number of States/UTs have been increased from 25 to 28 States/UTs.
- Under revised series, the coverage of centres has been increased from 78 centres to 88 centres across the country. Out of these 88 centres, 65 centres are common and 23 are new centres.
- Under updated series, the coverage of markets has also been increased from 289 markets under old series to 317 markets across the country.



- Under revised series, the sample size has also been increased from 41040 working class families to 48384 during the main survey across the 88 centres.
- As per the direction of Technical Advisory Committee (TAC) on Statistics of Prices and Cost of Living (SPCL) the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) method for grouping & sub-grouping of consumption items, is being used for derivation of weighting diagrams under new series.
- Under the new series 2016=100, as per the direction of Technical Advisory Committee (TAC) on Statistics of Prices and Cost of Living (SPCL), the Geometric mean based methodology (using the GM of Price relative) is being used for compilation of indices instead of Arithmetic mean being used in old series 2001=100.





The group level weights under new series (2016=100) and existing series of CPI-IW (2001=100) are depicted in above charts. It may be observed that the weight of Food & Beverages (earlier Food group) is declining whereas the weight of Miscellaneous group is rising under CPI-IW (2016=100) vis-à-vis CPI-IW (2001=100).

5.2. Linking Factor:

On the introduction of revised series, it is essential to provide a linking factor between the old series and the revised series so that the new series, when released, may be compared with the outgoing one. Under the 'Arithmetic Conversion method' the linking factor or conversion factor of the two series is worked out by taking the ratio of the averages of old series indices to the new series indices. This method had been adopted for linking 1982 series with 2001 series. Following this approach, the linking factor has been derived by taking the ratio of average of monthly indices of old series to new series for the period of 12 months (from September 2019 to August 2020). The linking factor of new series 2016=100 to old series of CPI-IW (2001=100) is 2.88. The linking factor of the centres common between both series ranges from 2.38 of Doom-Dooma Tinsukia to 3.60 of Nagpur (Annexure IX).



ANNEXURE -I

List of Selected Centres Under New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2016=100)

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ANDHRA PRADESH | HIMACHAL PRADESH | PONDICHERRY |
| 1. Vishakhapatnam (old) | 1. Himachal Pradesh(old) | 1. Pondicherry(old) |
| 2. Nellore(*) | KARNATAKA | PUNJAB |
| 3. Guntur (old) | 1. Bengaluru (old) | 1. Amritsar (old) |
| TELANGANA | 2. Belgaum (old) | 2. Ludhiana (old) |
| 1. Hyderabad (old) | 3. Mysore (old) | 3. Jalandhar (old) |
| 2. Manchiryal(*) | 4. Hubli-Dharwad (old) | 4. Sangrur(*) |
| 3. Warangal (old) | 5. Mercara- Kodagu (old) | RAJASTHAN |
| ASSAM | 6. Davanagere(*) | 1. Jaipur (old) |
| 1. Doom-Dooma Tinsukia (old) | 7. Chikmagalur(*) | 2. Alwar(*) |
| 2. Labac Silchar (old) | KERALA | 3. Bhilwara (old) |
| 3. Sibsagar(*) | 1. Idukki(*) | TAMIL NADU |
| 4. Numaligarh-Golaghat (*) | 2. Kollam (old) | 1. Coimbatore (old) |
| 5. Biswanath Chariali(*) | 3. Ernakulam/Alwaye (old) | 2. Salem (old) |
| 6. Guwahati (old) | MADHYA PRADESH | 3. Virudhu Nagar(*) |
| BIHAR | 1. Jabalpur (old) | 4. Chennai (old) |
| 1. Patna(*) | 2. Indore (old) | 5. Madurai (old) |
| 2. Munger Jamalpur (old) | 3. Bhopal (old) | 6. Tirunelveli(*) |
| GOA | 4. Chhindwara (old) | 7. Coonoor (old) |
| 1. Goa(old) | MAHARASHTRA | TRIPURA |
| GUJARAT | 1. Mumbai (old) | 1. Tripura (old) |
| 1. Surat (old) | 2. Thane (*) | UTTAR PRADESH |
| 2. Ahmedabad (old) | 3. Pune (old) | 1. Ghaziabad/G.B.Nagar (old) |
| 3. Vadodara (old) | 4. Nagpur (old) | 2. Varanasi (old) |
| 4. Rajkot (old) | 5. Solapur (old) | 3. Kanpur (old) |
| 5. Bhavnagar (old) | 6. Nasik (old) | 4. Lucknow (old) |
| HARYANA | ORISSA | 5. Agra (old) |
| 1. Faridabad (old) | 1. Angul-Talcher (old) | UTTRAKHAND |
| 2. Gurgaon/Gurugram(*) | 2. Keonjhar(*) | 1. Udham Singh Nagar(*) |
| 3. Yamunanagar (old) | 3. Cuttak (*) | WEST BENGAL |
| CHATTISGARH | JHARKHAND | 1. Kolkata (old) |
| 1. Raipur(*) | 1. Bokaro (old) | 2. Haldia (old) |
| 2. Korba(*) | 2. Dhanbad-Jharia (old) | 3. Durgapur (old) |
| 3. Bhilai (old) | 3. Jamshedpur (old) | 4. Raniganj (old) |
| DELHI | 4. Ramgarh(*) | 5. Jalpaiguri (old) |
| 1. Delhi(old) | CHANDIGARH | 6. Darjeeling (old) |



| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| DADRA & NAGAR HAVELI | 1. Chandigarh(old) | 7. Howrah (old) |
| 1. Dadra & Nagar Haveli(*) | MEGHALAYA | JAMMU & KASHMIR |
| | 1. Shillong(*) | 1. Jammu/Srinagar (old) |

NOTE:

(*)-Denotes New Centre.

(old)-Denotes the common centres in 2001=100 series and new series 2016=100.

Centres dropped from 2001 series:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Godavarikhani | 8. Tiruchirapally |
| 2. Vijaywada | 9. Asansol |
| 3. Mariani-Jorhat | 10. Silliguri |
| 4. Rangapara | 11. Giridih |
| 5. Mundakym-Kottayam | 12. Koderma |
| 6. Rourkela | 13. Ranchi-Hatia |
| 7. Ajmer | |



ANNEXURE-II

Centre wise Sample size of Working Class Family Income and Expenditure Survey

| Sr. No. | Name of the State | Name of the centre | Sample size for WCFI&ES | | |
|---------|----------------------|--------------------|--|---|-----|
| | | | For Schedule 'A' (Family Budget Enquiry) | For Schedule 'B ₁ ' (House Rent Survey) (@ 84/216 of Family Budget Enquiry Schedule) | |
| 1 | ANDHRA PRADESH | 1 | Guntur | 216 | 84 |
| | | 2 | Vishakhapatnam | 432 | 168 |
| | | 3 | Nellore | 216 | 84 |
| 2 | TELANGANA | 4 | Manchiryal | 432 | 168 |
| | | 5 | Warangal | 432 | 168 |
| | | 6 | Hyderabad | 1296 | 504 |
| 3 | ASSAM | 7 | Doom-Dooma Tinsukia | 432 | 168 |
| | | 8 | Labac-Silchar | 864 | 336 |
| | | 9 | Sibsagar | 432 | 168 |
| | | 10 | Numaligarh- Golaghat | 432 | 168 |
| | | 11 | BiswanathChariali | 432 | 168 |
| | | 12 | Guwahati | 216 | 84 |
| 4 | BIHAR | 13 | Patna | 864 | 336 |
| | | 14 | Munger-Jamalpur | 432 | 168 |
| 5 | CHANDIGARH | 15 | Chandigarh | 216 | 84 |
| 6 | CHATTISGARH | 16 | Raipur | 864 | 336 |
| | | 17 | Korba | 432 | 168 |
| | | 18 | Bhilai | 432 | 168 |
| 7 | DADRA & NAGAR HAVELI | 19 | Dadra &Nagar Haveli | 216 | 84 |
| 8 | DELHI | 20 | Delhi | 648 | 252 |
| 9 | GOA | 21 | Goa | 432 | 168 |
| 10 | GUJARAT | 22 | Surat | 432 | 168 |
| | | 23 | Ahmedabad | 648 | 252 |
| | | 24 | Vadodara | 432 | 168 |
| | | 25 | Rajkot | 432 | 168 |
| | | 26 | Bhavnagar | 648 | 252 |
| 11 | HARYANA | 27 | Faridabad | 432 | 168 |



| Sr. No. | Name of the State | Name of the centre | Sample size for WCFI&ES | | |
|---------|-------------------|--------------------|--|--|-----|
| | | | For Schedule 'A' (Family Budget Enquiry) | For Schedule 'B1' (House Rent Survey) (@ 84/216 of Family Budegt Enquiry Schedule) | |
| | | 28 | Gurgaon | 432 | 168 |
| | | 29 | Yamunanagar | 432 | 168 |
| 12 | HIMACHAL PRADESH | 30 | Himachal Pradesh | 432 | 168 |
| 13 | JAMMU & KASHMIR | 31 | Jammu/Srinagar | 432 | 168 |
| 14 | JHARKHAND | 32 | Bokaro | 432 | 168 |
| | | 33 | Dhanbad-jharia | 1080 | 420 |
| | | 34 | Jamshedpur | 1944 | 756 |
| | | 35 | Ramgarh | 648 | 252 |
| 15 | KARNATAKA | 36 | Bengaluru | 1296 | 504 |
| | | 37 | Belgaum | 216 | 84 |
| | | 38 | Mysore | 432 | 168 |
| | | 39 | Hubli-Dharwad | 216 | 84 |
| | | 40 | Mercara-Kodagu | 432 | 168 |
| | | 41 | Davanagere | 216 | 84 |
| | | 42 | Chikkamagalur | 432 | 168 |
| 16 | KERALA | 43 | Idukki | 432 | 168 |
| | | 44 | Kollam | 432 | 168 |
| | | 45 | Ernakulam/Alwaye | 216 | 84 |
| 17 | MADHYA PRADESH | 46 | Jabalpur | 864 | 336 |
| | | 47 | Indore | 432 | 168 |
| | | 48 | Bhopal | 432 | 168 |
| | | 49 | Chhindwara | 864 | 336 |
| 18 | MAHARASHTRA | 50 | Mumbai | 1080 | 420 |
| | | 51 | Thane | 432 | 168 |
| | | 52 | Pune | 648 | 252 |
| | | 53 | Nagpur | 648 | 252 |
| | | 54 | Nasik | 216 | 84 |
| | | 55 | Solapur | 432 | 168 |
| 19 | MEGHALAYA | 56 | Shillong | 216 | 84 |
| 20 | ODISHA | 57 | Cuttack | 216 | 84 |
| | | 58 | Keonjhar | 216 | 84 |



| Sr. No. | Name of the State | Name of the centre | | Sample size for WCFI&ES | |
|---------|-------------------|--------------------|----------------------|--|---|
| | | | | For Schedule 'A' (Family Budget Enquiry) | For Schedule 'B ₁ ' (House Rent Survey) (@ 84/216 of Family Budget Enquiry Schedule) |
| | | 59 | AngulTalcher | 216 | 84 |
| 21 | PUDUCHERRY | 60 | Puducherry | 432 | 168 |
| 22 | PUNJAB | 61 | Amritsar | 864 | 336 |
| | | 62 | Ludhiana | 432 | 168 |
| | | 63 | Jalandhar | 432 | 168 |
| | | 64 | Sangrur | 432 | 168 |
| 23 | RAJASTHAN | 65 | Jaipur | 216 | 84 |
| | | 66 | Alwar | 216 | 84 |
| | | 67 | Bhilwara | 648 | 252 |
| 24 | TAMIL NADU | 68 | Coimbatore | 432 | 168 |
| | | 69 | Salem | 216 | 84 |
| | | 70 | Virudhu Nagar | 648 | 252 |
| | | 71 | Chennai | 648 | 252 |
| | | 72 | Madurai | 432 | 168 |
| | | 73 | Tirunelveli | 432 | 168 |
| | | 74 | Coonoor | 432 | 168 |
| 25 | TRIPURA | 75 | Tripura | 216 | 84 |
| 26 | UTTAR PRADESH | 76 | Ghaziabad /G.B.Nagar | 432 | 168 |
| | | 77 | Varanasi | 216 | 84 |
| | | 78 | Kanpur | 1296 | 504 |
| | | 79 | Lucknow | 432 | 168 |
| | | 80 | Agra | 216 | 84 |
| 27 | UTTRAKHAND | 81 | Udham Singh Nagar | 216 | 84 |
| 28 | WEST BENGAL | 82 | Kolkata | 3024 | 1176 |
| | | 83 | Haldia | 216 | 84 |
| | | 84 | Durgapur | 1728 | 672 |
| | | 85 | Raniganj | 648 | 252 |
| | | 86 | Jalpaiguri | 432 | 168 |
| | | 87 | Darjeeling | 432 | 168 |
| | | 88 | Howrah | 1512 | 588 |
| | | Total | | 48384 | 18816 |



ANNEXURE-III

द्वितीय प्रति/DUPLICATE

| | |
|---|--|
| केंद्र का प्रकार/Type of Centre Factory/ Mine/ Plantation कारखाना/खान/बागान | |
|---|--|

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE
श्रमिक वर्ग पाटिवाटिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण-2015-16
WORKING CLASS FAMILY INCOME AND EXPENDITURE SURVEY-2015-16
अनुसूची 'ए' - पाटिवाटिक बजट
SCHEDULE 'A' - FAMILY BUDGET

खण्ड 1 पाटिवाटिक पहचान एवं सूचक का विवरण Block-1 Identification and Informants particulars

| | | | | | |
|----|--|--|----|---|--|
| 01 | State-Name राज्य - नाम code संकेतांक * | | 11 | Particulars of Head of Family/worker पटिवाट के मुखिया/श्रमिक का विवरण a) Name and full residential address क) नाम तथा निवास का पूरा पता | |
| 02 | Centre-Name केन्द्र - नाम Code संकेतांक * | | | b) Gender ख) लिंग: Male पुरुष-1, Female स्त्री-2 Transgender किन्नर -3 | |
| 03 | Stratum स्तर | | | c) Caste Category ग) जाति वर्ग:- SC, अनु.जाति-1 ST अनुसूचित जन जाति-2 OBC पिछड़ा वर्ग - 3, Others अन्य-4 | |
| 04 | Sub-sample उप-प्रतिदर्श | | | | |
| 05 | Sub-round उप-चरण | | | | |
| 06 | Month of Enquiry सर्वेक्षण मास | | 12 | Name of main earner मुख्य कमाने वाले का नाम | |
| 07 | Sample unit-I प्रतिदर्श इकाई- I | | 13 | Establishment where employed प्रतिष्ठान जहां काम करता है a) Name and address क) नाम तथा पता b) Token No./Designation/ Unit/ Section of worker covered ख) चयनित कर्मचारी का टोकन संख्या/ पद/इकाई/अनुभाग | |
| 08 | Sample Unit-II प्रतिदर्श इकाई- II | | 14 | Sector (a) Public-1, Private-2, Joint-3, Foreign-4 क्षेत्र(क) सार्वजनिक-1, निजी-2, संयुक्त-3, विदेशी-4 (b) Factory/ Mine/ Plantation/ Motor transport/ Port and dock/Electricity/ Railway (ख) कारखाना/खान/बागान/मोटर यातायात/ पत्तन एवं गोदी/विद्युत/रेल | |
| 09 | Sampling method प्रतिचयन विधि : Tenement/Payroll मकान/वेतन चिट्ठा | | 15 | Name of informant सूचक का नाम | |
| 10 | Family multiplier** पटिवाट गुणक** | | 16 | Relationship with Main Earner मुख्य उपार्जक से संबंध Self-1, Other family member-2, Others-3 स्वयं-1, अन्य पाटिवाटिक सदस्य-2, अन्य-3 | |

* State and Centre codes are given in Annexure I of the Instructions
* राज्य तथा केन्द्र संकेतांक अनुदेशों के अनुलग्नक I में दिए गए हैं।

** Not to be filled in by the investigator
** अज्ञेयक द्वारा नहीं भरा जाएगा



Block 2 Field Investigation, Inspection and Field Scrutiny

खण्ड 2 क्षेत्र अन्वेषण, निरीक्षण तथा क्षेत्र संवीक्षा

| Sl. No. क्रम सं. | Item मद | Field Investigation क्षेत्र अन्वेषण | Inspection and Field Scrutiny निरीक्षण एवं क्षेत्र संवीक्षा |
|---------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Name नाम | | |
| 02 | Date of Survey/Inspection (DD/MM/YY) सर्वेक्षण/निरीक्षण की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) | | |
| 03 | Time taken (hrs. 0.00) interview/inspection साक्षात्कार/निरीक्षण में लिया गया समय | | |
| 04 | Time taken (hrs. 0.00) others लिया गया समय-अन्य | | |
| 05 | Date of dispatch by Field Investigator/ Date of receipt by Supervisor क्षेत्र अन्वेषक द्वारा प्रेषण की तिथि पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्ति की तिथि (DD/MM/YY) (दिनांक/माह/वर्ष) | | |
| 06 | Date of scrutiny (DD/MM/YY) संवीक्षा की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष) | X | |
| 07 | Time taken (hrs. 0.00) scrutiny संवीक्षा हेतु लिया गया समय | X | |
| 08 | No. of scrutiny sheets attached संलग्न संवीक्षा शीट की संख्या | X | |
| 09 | Date of dispatch of schedules to Labour Bureau (DD/MM/YY) श्रम ब्यूरो को अनुसूची भेजने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) | X | |
| 10 | Signature हस्ताक्षर | | |



Block 3 Classificatory characters खण्ड 3 वर्गीकृत विशेषताएँ

| | | | | | |
|----|--|---|----|--|--|
| 01 | Reference period (last 30 days) संदर्भ अवधि : (पिछले 30 दिन) | | | | |
| 02 | Family size (Total) पारिवारिक आकार (योग): Men पुरुष _____ Women महिला _____ Children बच्चे _____ | | 09 | Total monthly family expenditure कुल मासिक पारिवारिक व्यय (i) Actual वास्तविक (Rs. रुपये): (ii) Code संकेतांक | |
| 03 | Adult consumption unit (family) : व्यस्क उपभोक्ता इकाई (परिवार) : Adult Male व्यस्क पुरुष = 1.2 Adult Female व्यस्क महिला = 0.9 Child (below 15 Years) बच्चे (15 साल से कम)=0.6 | | 10 | Per capita monthly expenditure प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (i) Actual (Rs. P.) वास्तविक (रु.पै.) (ii) Code संकेतांक | |
| 04 | Number of workers in the family : परिवार में श्रमिकों की संख्या : | X | 11 | Monthly expenditure Per adult consumption unit (Rs.P.) (Item 9/Item 3) प्रति व्यस्क उपभोक्ता इकाई मासिक व्यय (रु.पै.) (मद 9/मद 3) | |
| | (i) Registered Factories पंजीकृत कारखाना | | 12 | Total monthly family income कुल मासिक पारिवारिक आय i) Actual (Rs.) वास्तविक (रु.पै.) ii) Code संकेतांक | |
| | (ii) Mines खान | | 13 | Per capita monthly income प्रति व्यक्ति मासिक आय i) Actual (Rs.P.) वास्तविक (रु.पै.) ii) Code संकेतांक | |
| | (iii) Plantations बागान | | | | |
| | (iv) Port and docks पत्तन एवं गोदी | | | | |
| | (v) Electricity generating and distributing establishments विद्युत उत्पादन एवं वितरण स्थापना | | | | |
| | (vi) Public motor transport undertakings सार्वजनिक मोटर परिवहन संस्थान | | 14 | Land owned by family (acres 00.00) परिवार की स्वामित्व भूमि (एकड़ 00.00) | |
| | (vii) Railways रेल | | | | |
| | (viii) Total योग | | | | |
| 05 | Family composition by relationship सम्बन्ध से पारिवारिक गठन Code संकेतांक | | | | |
| 06 | Family composition by number of adults and children व्यस्कों और बच्चों की संख्या से पारिवारिक गठन Code संकेतांक | | 15 | Land cultivated by family (acres 00.00) परिवार द्वारा खेती की गई भूमि (एकड़ 00.00) | |
| 07 | Family earning strength by economic status आर्थिक स्थिति से पारिवारिक उपार्जन शक्ति Code संकेतांक | | 16 | Khet land given by the employer to the worker for cultivation (acres 00.00) नियोक्ता द्वारा श्रमिक को दी गई खेती के लिए भूमि (एकड़ 00.00) | |
| 08 | Family earning strength by relationship with main earner मुख्य उपार्जन के संबंध से पारिवारिक उपार्जन शक्ति Code संकेतांक | | | | |



Codes for Block 3 खण्ड 3 के लिए संकेतांक

Codes for item 05: Husband or wife-01, Husband and wife-02, Husband-wife and children-03, Husband, wife, children and other members-04, Husband, wife and other members (no children) -05, Husband or wife with children-06, Husband or wife, children and other members-07, Husband or wife with other members (no children) -08, Unmarried earner-09, Unmarried earner with other members-10.

मद 05 हेतु संकेतांक : पति या पत्नी-01, पति और पत्नी -02, पति- पत्नी और बच्चे-03, पति- पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य-04, पति-पत्नी और अन्य सदस्य(बिना बच्चों के) -05, पति या पत्नी बच्चों सहित-06, पति या पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य-07, पति या पत्नी अन्य सदस्यों सहित बिना बच्चों के -08, अविवाहित उपार्जक-09, अन्य सदस्यों सहित अविवाहित उपार्जक-10.

Codes for Item 06: Family composition by number of adults and children will be given in two digits. Left hand digit will be the number of adults and right hand digit the number of children in the family. In case the number of adults is more than 9, the left hand digit will remain as 9. Likewise in case the no. of children is more than 9, the right hand digit will also remain 9. Thus the highest code would continue to be 99.

मद 06 हेतु संकेतांक : परिवार की संरचना में व्यक्तों तथा बच्चों की संख्या को 2 अंकों में दिया जाये। जिसमें बायाँ अंक परिवार में व्यक्तों की संख्या तथा दायाँ अंक बच्चों की संख्या दर्शाएगा। अगर व्यक्तों की संख्या 9 से अधिक हो तो बायाँ अंक 9 ही रहेगा। वैसे ही बच्चों की संख्या 9 से अधिक होने पर दायाँ अंक 9 ही रहेगा। इस तरह अत्यधिक संकेतांक 99 होगा।

Codes for item 07: 1 earner - 10, 1 earner and 1 earning dependant - 11, 1 earner and 2 earning dependants -12, 1 earner and 3 or more earning dependants - 13, 2 earners - 20, 2 earners and 1 earning dependant - 21, 2 earners and 2 or more earning dependants - 22, 3 earners - 30, 3 earners and 1 or more earning dependants - 31, 4 or more earners, with or without earning dependants - 40.

मद 07 हेतु संकेतांक : 1 उपार्जक -10, 1 उपार्जक तथा 1 आभित उपार्जक- 11, 1 उपार्जक तथा 2 आभित उपार्जक -12, 1 उपार्जक तथा 3 या अधिक आभित उपार्जक- 13, 2 उपार्जक - 20, 2 उपार्जक तथा 1 आभित उपार्जक - 21, 2 उपार्जक तथा 2 या अधिक आभित उपार्जक- 22, 3 उपार्जक - 30, 3 उपार्जक तथा 1 या अधिक आभित उपार्जक- 31, 4 या अधिक उपार्जक, उपार्जित आभितों के बिना अथवा सहित- 40.

Codes for Item 08: Self - 01, Self & wife or husband -02, Self and one or more male children -03, Self and one or more female children -04, Self and one or more male children and one or more female children -05, Self, wife or husband and one or more children -06, Self and 1 or more other family members - 07, Self, wife or husband and 1 or more other members - 08, Self, 1 or more children and 1 or more other family members - 09, Self, wife or husband, 1 or more children and 1 or more other family members - 10.

मद 08 हेतु संकेतांक : स्वयं-01, स्वयं और पत्नि या पति-02, स्वयं और 1 या 1 से अधिक बेटे -03, स्वयं और 1 या 1 से अधिक बेटियाँ-04, स्वयं और 1 या 1 से अधिक बेटे और 1 या 1 से अधिक बेटियों -05, स्वयं, पत्नी या पति और 1 या 1 से अधिक बच्चे-06, स्वयं और 1 या 1 से अधिक परिवार के अन्य सदस्य-07, स्वयं, पत्नी या पति और 1 या 1 से अधिक अन्य सदस्य-08, स्वयं, 1 या 1 से अधिक बच्चे और 1 या 1 से अधिक परिवार के अन्य सदस्य-09, स्वयं, पत्नी या पति, 1 या 1 से अधिक बच्चों और 1 या 1 से अधिक परिवार के अन्य सदस्य-10.

Codes for Items 09 and 12: Below Rs.3000 - 01, Rs.3000 to below Rs.6000 - 02, Rs.6000 to below Rs.9000 - 03, Rs.9000 to below Rs.12000 - 04, Rs.12000 to below Rs.15000 - 05, Rs.15000 to below Rs.18000 - 06, Rs.18000 to below Rs.21000 - 07, Rs.21000 to below Rs.24000 - 08, Rs.24000 to below Rs.27000 - 09, Rs.27000 and above - 10.

मद 09 तथा 12 हेतु संकेतांक : 3000 रुपये से कम-01, 3000 रुपये से 6000 रुपये से कम- 02, 6000 रुपये से 9000 रुपये से कम-03, 9000 रुपये से 12000 रुपये से कम-04, 12000 रुपये से 15000 रुपये से कम-05, 15000 रुपये से 18000 रुपये से कम-06, 18000 रुपये से 21000 रुपये से कम-07, 21000 रुपये से 24000 रुपये से कम-08, 24000 रुपये से 27000 रुपये से कम-09, 27000 रुपये और से ऊपर-10.

Codes for Items 10 and 13: Below Rs.750 - 01, Rs.750 to below Rs.1500 - 02, Rs.1500 to below Rs.2250 - 03, Rs.2250 to below Rs.3000 - 04, Rs.3000 to below Rs.3750 - 05, Rs.3750 to below Rs.4500 - 06, Rs.4500 to below Rs.5250 - 07, Rs.5250 to below Rs.6000 - 08, Rs.6000 to below Rs.6750 - 09, Rs.6750 and above - 10.

मद 10 तथा 13 हेतु संकेतांक : 750 रुपये से कम-01, 750 रुपये से 1500 रुपये से कम- 02, 1500 रुपये से 2250 रुपये से कम- 03, 2250 रुपये से 3000 रुपये से कम- 04, 3000 रुपये से 3750 रुपये से कम- 05, 3750 रुपये से 4500 रुपये से कम- 06, 4500 रुपये से 5250 रुपये से कम- 07, 5250 रुपये से 6000 रुपये से कम- 08, 6000 रुपये से 6750 रुपये से कम- 09, 6750 रुपये और से ऊपर-10.



Block 4.1 Ceremonies performed during the last 30 days ended on.....

खण्ड 4.1 को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान मनाए गए धर्म अनुष्ठान एवं समारोह

| Sl. No. क्र.सं. | Ceremony description धर्म अनुष्ठान एवं समारोह का विवरण | Code: क्रमिकतांक Birth जन्म-1 Marriage विवाह-2 Death मृत्यु-3 Others (specify) अन्य (विवरण दें)-4 | No. of meals served to guests अतिथियों को परोसे गये भोजनों की संख्या |
|--------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total/योग | X | X | |

Block 4.2 Meals consumed and expenditure incurred during last 30 days ended on.....

खण्ड 4.2 को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान उपभोग किया गया भोजन एवं उस पर व्यय

| Sl.No क्र.सं. | Nature स्वभाव | No. of meals consumed and expenditure incurred by family (principal cereal meals only) उपजीव्य भोजन की संख्या एवं परिवार द्वारा उन पर किया गया व्यय (प्रधान मुख्य अनाज भोज्य) | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|
| | | By family members परिवार के सदस्यों द्वारा | | By non-family members गैर पारिवारिक सदस्यों द्वारा | |
| | | No. संख्या | Exp./Value (Rs.P.) व्यय/मूल्य (रु.पै.) | No. संख्या | Exp./Value (Rs.P.) व्यय/मूल्य (रु.पै.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | At home normal घर पर सामान्य | | | | |
| 02 | At home ceremonial घर पर धर्म अनुष्ठान एवं समारोह | | | | |
| 03 | Outside purchased घर से बाहर खरीवा हुआ | | | | |
| 04 | Outside but free घर से बाहर परन्तु मुफ्त | | | | |



Codes for Block 5 खण्ड 5 के लिए संकेतांक

Codes for column: 3 Relationship with main earner: Self-01, wife or husband-02, Son or daughter-03, Father, Mother, Uncle-Aunt-04, Brother, Sister, Cousin-05, Nephew, Niece-06, Father-in-law, Mother-in-law, Sister-in-law, Brother-in-law-07, Son-in-law, daughter-in-law-08, Grand Children-09, Grand Parents-10, Paying guests-11, Servant-12, Others-13.

कॉलम 3 के लिए संकेतांक: मुख्य उपार्जक से संबंध : स्वयं-01, पत्नी अथवा पति -02, बेटा अथवा बेटी-03, माता,पिता, अंकल,आंटी-04, भाई,बहन, रिश्ते में भाई बहन,-05, भतीजा,भतीजी, भ्रांजा, भ्रांजी -06 सास,ससुर, सासल,सासली, भाभी, जीजा -07, दामाद, बहू-08, पोता,पोती, दोहता, दोहती-09, दादा,दादी, नाना, नानी-10, देय मेहमान-11, नौकर-12, अन्य-13

Codes for column 4: Membership Type: Family Member-1, Paying guest-2, Servants-3.

कॉलम 4 के लिए संकेतांक सदस्यता प्रकार :: परिवार सदस्य-1, देय मेहमान-2, नौकर-3

Codes for column 8: Marital Status: Unmarried-1, Married-2, Widowed-3, Divorced-4, Separated-5.

कॉलम 8 के लिए संकेतांक : वैवाहिक स्थिति : अविवाहित-1, विवाहित-2, विधवा-3, तलाकशुदा-4, अलग रहने वाले-5

Codes for column 9: Education Standard: Children below 5 years - 0, Illiterate - 1, below Primary - 2, Primary - 3, Middle - 4, Matriculate/Secondary - 5, Technical Certificate/Diploma-6, Graduate - 7, Post graduate and above - 8.

कॉलम 9 के लिए संकेतांक: शिक्षा स्तर: 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे-0, निरक्षर-1, प्राथमिक से कम-2, प्राथमिक-3, माध्यमिक-4, मैट्रिक/सकैण्ड्री-5, तकनीकी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा-6, स्नातक-7, स्नातकोत्तर और उससे ऊपर-8

Codes for column 10: Economic Status: Earner-1, earning dependant-2, Non-earning dependant-3.

कॉलम 10 के लिए संकेतांक: आर्थिक स्तर: उपार्जक-1, आश्रित उपार्जित जन-2, आश्रित गैर-उपार्जित जन-3

Codes for column 11: Activity Status: Employer - 1, Employee - 2, Apprentice - 3, Self-employed - 4, Unpaid family labour - 5, Unemployed seeking employment - 6, Not seeking though available for employment - 7, Not in labour force - 8.

कॉलम 11 के लिए संकेतांक: कार्य स्तर : नियोक्ता-1, कर्मचारी-2, प्रशिक्षु -3, स्व-नियोजित-4, अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक-5, रोजगार की चाह रखने वाला बेरोजगार-6, वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, परन्तु रोजगार नहीं ढूँढ रहे हैं-7, अम बल में नहीं-8,

@ Please refer to Annexures II and III of Instructions for NIC 2008 and NCO 2004 Codes.

@ एनआईसी 2008 और एनसीओ 2004 संकेतांकों के लिए कृपया अनुदेशों के अनुलग्नक-11 तथा 111 देखें

Block 6. Dependants living away from the family

खण्ड 6 परिवार से दूर रहने वाले आश्रित

| Sl. No क्र.सं. | Relationship with main earner मुख्य उपार्जक से संबंध | | Gender Male-1 Female-2 लिं: पुरुष-1, महिला-2 | Age last birthday (Completed yrs.) पिछले जन्म दिन पर आयु (पूर्ण वर्ष) |
|-------------------|---|------------------|---|--|
| | Description विवरण | Code संकेतांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Codes for column 3: Self-01, Wife or husband-02, Son or daughter-03, Father, Mother, Uncle, Aunt-04, Brother, Sister, Cousin-05, Nephew, Niece-06, Father-in-law, Mother-in-law, Sister-in-law, Brother-in-law-07, Son-in-law, Daughter-in-law-08, Grand Children-09, Grand Parents-10, Others-11.

कॉलम 3 के लिए संकेतांक: स्वयं-01, पत्नी अथवा पति-02, बेटा अथवा बेटी-03, माता,पिता, अंकल, आंटी -04, भाई, बहन, रिश्ते में भाई, रिश्ते में बहन -05, भतीजा, भतीजी, भ्रांजा, भ्रांजी -06 सास, ससुर, सासल, सासली, भाभी, जीजा -07, दामाद, बहू-08, पोता, पोती, दोहता, दोहती-09, दादा, दादी, नाना, नानी -10, अन्य -11



BLOCK 9 ITEMS RECEIVED
during last 30 days ended on

खण्ड 8को समाप्त पिछले 30 दिनों की अवधि के दौरान नियोजता से निःशुल्क तथा दियायती दर पर प्राप्त वस्तुएं एवं उपहार

| Sl. No क्र. सं. | Sl. No. as in Block 5 खण्ड 5 के अनुसार क्र.सं. | Item /मद | | Standard Unit मानक इकाई | Quantity मात्रा | Value मूल्य | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|----|
| | | Code संकेतांक | Description विवरण | | | At market price बाजार भाव पर (Rs.) (रुपये) | Actually paid वास्तविक शुगतान (Rs.) (रुपये) | Gifts/Concessions उपहार/दियायत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.1 From employer नियोजता से | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | Total योग | | | | X |

8.2 From others अन्य से

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | Total योग | | | | X |

Codes for column 3: The item codes are given in Blocks 10.1 & onwards.

कॉलम 3 के लिए संकेतांक: खण्ड 10.1 और उस से आगे के खंडों में मदों के संकेतांक दिये गये हैं।

Codes for column 10: Items received absolutely free-1, items received at concessional rate but not absolutely free-2.

कॉलम 10 के लिए संकेतांक: पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त वस्तुएं -1, पूर्णतः निःशुल्क नहीं परन्तु दियायती दर से प्राप्त-2



Block 9 Receipts (Rs.) during the last 30 days and average for 30 days on the basis of last 365 days ended on

खण्ड-9को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान तथा 365 दिनों के आधार पर 30 दिनों की औसत प्राप्तियाँ रु.

| Reference period संदर्भ अवधि | Sl.No. क्र. सं. | Sl. No. as in bl. 5 खण्ड 5 के अनुसार क्र.सं. | Gross income from paid employment भुगतान नियोजन से सकल आय | | | | | | | | Net income from self-employment स्वरोजगार से शुद्ध आय | Net rent शुद्ध किराया | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|--|
| | | | Basic Wage/pay+Grade pay मूल मजदूरी / वेतन + ग्रेड वेतन | Allowances अत्ते | Bonus & commissions बोनस तथा कमिशन | Over time earnings अतिरिक्त उपार्जन | Other benefits अन्य फायदे | Concessions दियायते | Total योग (Column 4-9) (कॉलम 4-9) | Land भूमि | | House आवास | Others अन्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Last 30 days पिछले 30 दिन | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total योग | | | | | | | | | | | | | | |

9.2

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Average for 30 days on the basis of last 365 days पिछले 365 दिनों के आधार पर 30 दिनों की औसत | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total योग | | | | | | | | | | | | | |



Block 10 Consumption expenditure on food and non alcoholic beverages

खण्ड 10 भोजन तथा गैर-मादक पेय पदार्थों पर उपभोग व्यय

Block 10.1 Consumption expenditure of cereals, pulses, milk and milk products, sugar and salt during the last 30 days ended on

खण्ड 10.1 को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान अनाज, दालें, दूध एवं दूध उत्पाद, चीनी तथा नमक पर उपभोग व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Unit इकाई @ | Consumption उपभोग | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | Quantity (0.000) मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Rice – PDS चावल -पीडीएस | Kg कि.ग्रा. | | |
| 102 | Rice – Other sources चावल-अन्य स्रोत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 103 | Chira चीड़ा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 104 | Khoi, lawa खोई, लावा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 105 | Muri मुड़ी | Kg कि.ग्रा. | | |
| 106 | Wheat – PDS गेहूँ - पीडीएस | Kg कि.ग्रा. | | |
| 107 | Wheat – Other sources गेहूँ - अन्य स्रोत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 108 | Wheat atta –PDS गेहूँ आटा-पीडीएस | Kg कि.ग्रा. | | |
| 109 | Wheat atta– Other sources गेहूँ आटा-अन्य स्रोत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 110 | Maida मैदा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 111 | Suji, Rawar सूजी, रवा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 112 | Sewai, Noodles सेवई, नूडल्स | Kg कि.ग्रा. | | |
| 113 | Bread (Bakery) ब्रैड (बेकरी) | Kg कि.ग्रा. | | |
| 114 | Jowar ज्वार | Kg कि.ग्रा. | | |
| 115 | Bajra बाजरा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 116 | Maize मकई | Kg कि.ग्रा. | | |
| 117 | Barley जौ | Kg कि.ग्रा. | | |
| 118 | Ragi रागी | Kg कि.ग्रा. | | |
| 119 | Tapioca, Sago टापिओका, सागो | Kg कि.ग्रा. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 129 | Cereals & cereal products अनाज एवं अनाज उत्पाद Sub-total उप-योग (101-128) | Kg कि.ग्रा. | | |
| | No. of family members (f) पारिवारिक सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर पारिवारिक सदस्यों /अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 120 Other rice products (specify) (Kg) अन्य चावल उत्पाद (विवरण दें) (कि.ग्रा.), 121 Dalia (Kg) दलिया (कि.ग्रा.), 122 Other wheat products (specify) (Kg) अन्य गेहूँ उत्पाद (विवरण दें) (कि.ग्रा.), 123 Maize atta (Kg) मकई का आटा (कि.ग्रा.), 124 Corn flakes (Kg) कॉर्नफ्लेक्स (कि.ग्रा.), 125 Oats, Barley Sattu, etc. (Kg) ओट्स,जौ सत्तू इत्यादि (कि.ग्रा.), 126 Small millets & their products (Kg) छोटा मिल्ड्स तथा उत्पाद (कि.ग्रा.), 127 Other cereals kg (Specify) अन्य अनाज (कि.ग्रा.), 128 Other cereal products (specify) अन्य अनाज उत्पाद (विवरण दें). | | | | |

@ In case the unit of transaction is local, its equivalent in standard unit i.e. Kg may also be indicated.

यदि अंतरण की इकाई स्थानीय है तथा इसके समानार्थी को मानक इकाई अर्थात् कि.ग्रा में भी दर्शाया जाये ।



| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------------------|---|
| | | | Quantity मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | Arhar dal, Tur dal अरहर दाल, तुअर दाल | Kg कि.ग्रा. | | |
| 131 | Gram dal - split husked चना दाल-छिलका रहित | Kg कि.ग्रा. | | |
| 132 | Gram - whole काले चने- साबुत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 133 | Moong - whole मूंग-साबुत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 134 | Moong split - washed मूंग दाल- धुली हुई | Kg कि.ग्रा. | | |
| 135 | Moong split un-husked मूंग दाल छिलका सहित | Kg कि.ग्रा. | | |
| 136 | Masur dal split - washed मसूर दाल धुली हुई | Kg कि.ग्रा. | | |
| 137 | Masur - whole मसूर साबुत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 138 | Urd whole उड़द साबुत | Kg कि.ग्रा. | | |
| 139 | Urd split - washed उड़द दाल धुली हुई | Kg कि.ग्रा. | | |
| 140 | Urd split - unhusked उड़द दाल छिलका सहित | Kg कि.ग्रा. | | |
| 141 | Kabli channa काबली चना | Kg कि.ग्रा. | | |
| 142 | Rajmah राजमा | Kg कि.ग्रा. | | |
| 143 | Lobia/Raungi etc लोबिया/रांगी इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | |
| 144 | Besan बेसन | Kg कि.ग्रा. | | |
| 145 | Soya Products (Nutri nugget etc.) सोया उत्पाद (न्यूट्री नग्गट इत्यादि) | Kg कि.ग्रा. | | |
| 159 | Pulses & pulse products दाल एवं दाल उत्पाद: Sub-total उप-योग- (130-154) | Kg कि.ग्रा. | | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-परिवार सदस्यों/अन्य व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड (एफ/एफ+ई) | | X | |
| 146 | Peas dal (Kg) मटर की दाल (कि.ग्रा.) | | | |
| 147 | Moth (Kg) मोठ (कि.ग्रा.) | | | |
| 148 | Soyabean (Kg) सोयाबीन (कि.ग्रा.) | | | |
| 149 | Khesari dal (Kg) खेसरी दाल (कि.ग्रा.) | | | |
| 150 | Barbati dal (Kg) बारबती दाल (कि.ग्रा.) | | | |
| 151 | Horse Gram (Kulthi) (Kg) कुल्थी (कि.ग्रा.) | | | |
| 152 | Mixed pulses (Kg) मिश्रित दालें (कि.ग्रा.) | | | |
| 153 | Other pulses (specify), अन्य दालें (विवरण दें) | | | |
| 154 | Other pulse products (specify) अन्य दाल उत्पाद (विवरण दें) | | | |
| 160 | Cow-Milk गाय का दूध | Litre लि. | | |
| 161 | Buffalo-Milk भैंस का दूध | Litre लि. | | |
| 162 | Dairy milk-toned/double toned/ whole-standard डेयरी दूध- टॉड/डबल टॉड/व्हील-स्टैंडर्ड | Litre लि. | | |
| 163 | Condensed milk संघनित दूध | Kg कि.ग्रा. | | |
| 164 | Powder milk पाउडर दूध | Kg कि.ग्रा. | | |
| 165 | Curd दही | Kg कि.ग्रा. | | |



| 166 | Pure Ghee (Cow-Buffalo) देसी घी (गाय-भैंस) | Kg कि.घा. | | |
|---|---|--------------|----------------------------|---|
| 167 | Butter मक्खन | Kg कि.घा. | | |
| 168 | Cheese पनीर | Kg कि.घा. | | |
| 169 | Ice Cream आइसक्रीम | No. सं. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 179 | Milk & milk products दूध एवं दुग्ध उत्पाद Sub-total उप-योग (160-173) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-परिवार सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड (एफ/एफ+ई) | | X | |
| 170 Khoya (Kg) खोया (कि.घा.), 171 Lassi (quantity of curd used) (Kg) लस्सी (प्रयोग की गई दही की मात्रा) (कि.घा.), 172 Baby food (Kg) बच्चों के लिए दूध (कि.घा.), 173 Other milk products (specify) अन्य दुग्ध उत्पाद (विवरण दें) | | | | |
| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
| | | | Quantity मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | Sugar-white-PDS सफेद चीनी-पीडीएस | Kg कि.घा. | | |
| 181 | Sugar-white-other sources चीनी- अन्य स्रोत | Kg कि.घा. | | |
| 182 | Sugar-desi (khandsari) देशी चीनी-खण्डसारी | Kg कि.घा. | | |
| 183 | Desi Shakkar (brown) देशी शक्कर-भूरी | Kg कि.घा. | | |
| 184 | Gur गुड़ | Kg कि.घा. | | |
| 185 | Sugar candy (Misri) शुगर कैंडी (मिश्री) | Kg कि.घा. | | |
| 186 | Honey शहद | Kg कि.घा. | | |
| 187 | Salt नमक | Kg कि.घा. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 189 | Sugar & Salt चीनी एवं नमक : Sub-total उप-योग (180-188) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-परिवार सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड (एफ/एफ+ई) | | X | |
| 188 Others (specify). अन्य (विवरण दें) | | | | |
| Block 10.1 Total Consumption expenditure of cereals, pulses, milk and milk products, sugar and salt during the last 30 days -I. nadjusted (Rs.) खण्ड 10.1 पिछले 30 दिनों के दौरान अनाज, दाल, दूध तथा दुग्ध उत्पादों, चीनी और नमक पर हुआ कुल व्यय -असमायोजित (रु) (129+159+179+189) | | | | |
| Adjusted expenditure for family (Rs. P.) ((f/f+e)*(129+159+179+189)) परिवार के लिए समायोजित व्यय (रु.पै.) :((एफ/एफ+ई)*(129+159+179+189)) | | | | |



Block 10.2 Consumption expenditure of edible oil, egg, fish and meat, vegetables, fruits, spices, beverages and processed food during the last 7 days ended on

खण्ड 10.2 को समाप्त पिछले सात दिनों के दौरान खाद्य तेल, अंडा मछली तथा मीट, सब्जियाँ, फलों, मसालों, पेय पदार्थों तथा संसाधित खाद्य पदार्थों के उपभोग पर हुआ व्यय

| Item code मद संकेतांक | Items मद | Unit इकाई | Consumption/उपभोग | |
|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|--|
| | | | Quantity इकाई | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 190 | Mustard oil सरसों का तेल | Litre लि. | | |
| 191 | Cocunut oil नारियल का तेल | Litre लि. | | |
| 192 | Groundnut oil मूँगफली का तेल | Litre लि. | | |
| 193 | Vanaspati वनस्पति | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 194 | Soyabean oil सोयाबीन का तेल | Litre लि. | | |
| 195 | Cotton seed oil बिनौला ऑयल | Litre लि. | | |
| 196 | Sunflower oil. सूरजमुखी का तेल, | Litre लि. | | |
| 197 | Gingelly oil तिल का तेल | Litre लि. | | |
| 209 | Oil and fats तेल एवं वसा sub-total उप-योग: (190-203) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड (एफ/एफ+ई) | | X | |
| 198 | Palm oil (Litre) पॉम ऑयल (लीटर), 199 Rapeseed oil (Litre) दुआ का तेल (लीटर), 200 Rice Bran Oil (Litre) राईस ब्रान ऑयल (लीटर), 201 Linseed oil (Litre) जलसी का तेल (लीटर), 202 Kardi oil (Litre) कर्डी ऑयल (लीटर), 203 Other Vegetable Oils (specify) अन्य वनस्पति तेल (विवरण दें) | | | |
| Item code मद संकेतांक | Items मद | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
| 1 | 2 | 3 | Quantity मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 210 | Eggs-hen मुर्गी के अण्डे | No. सं. | | |
| 211 | Eggs-duck बतख के अण्डे | No. सं. | | |
| 212 | Fish fresh ताजा मछली | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 213 | Fish dry सूखी मछली | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 214 | Goat meat बकरे का मांस | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 215 | Mutton भेड़ का मांस | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 216 | Beef गाय का मांस | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 217 | Pork सुअर का मांस | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 218 | Buffalo meat भैंस का मांस | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 219 | Poultry/chicken कुबकट/चिकन | Kg. कि.ग्रा. | | |
| 229 | Eggs, fish and meat: अण्डा, मछली तथा मीट Sub-total उप-योग (210-220) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड (एफ/एफ+ई) | | X | |
| 220 | Other meat (specify) अन्य मीट (विवरण दें) | | | |



| Item Code मद संकेतांक | Items मद | Unit युनिट | Consumption उपभोग | | |
|---|--|---------------|-------------------|---------------|--|
| | | | Quantity मात्रा | | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| | | | No. संख्या | Weight भार | |
| 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 |
| 290 | Banana केला | No. सं. | | | |
| 291 | Apple सेब | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 292 | Orange संतरा | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 293 | Mango आम | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 294 | Papaya पपीता | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 295 | Guava अमरूद | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 296 | Kharbooza खरबूजा | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 297 | Water melon तरबूज | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 298 | Jamun/Jambu fruit जामुन | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 299 | Grapes अंगूर | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 300 | Mosumbi मौसमी | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 301 | Coconut fresh with pulp निरी सहित ताजा नारियल | No. सं. | | | |
| 302 | Chiku चीकू | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 303 | Leechi लीची | Kg. कि.ग्रा | X | | |
| 304 | Kinnow कीनू | Kg. कि.ग्रा | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 319 | Fruits fresh ताजा फल | X | X | X | |
| | Sub-total उप-योग : (290-315) | | | | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X | X |
| | Factor $\{(f+e)$ गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | X | |
| 305 Pomegranate/Anar (Kg) अनार (कि.ग्रा.), 306 Pineapple (No. and weight) अनानास (संख्या और भार), 307 Pears/Nashpati (Kg) पीपर्स/नाशपाती (कि.ग्रा.), 308 Berries(Kg) बेर (कि.ग्रा.), 309 Cherry (Kg) चैरी (कि.ग्रा.), 310 Plum/Aloo Bukhara (Kg) आलू बुखारा (कि.ग्रा.), 311 Apricot fresh (Kg) खुरमानी (कि.ग्रा.), 312 Kiwi fruit (No. and weight) किवी फल (संख्या और भार), 313 Jack fruit-ripe (Kg) कटहल-पका हुआ (कि.ग्रा.), 314 Singhara (Kg) सिघाड़ा (कि.ग्रा.), 315 Other fresh fruits (specify) अन्य ताजा फल (विवरण दें) | | | | | |
| Note: In case the local transaction is in different unit, then the equivalent weight in standard unit Kg may be given. नोट: यदि स्थानीय अंतरण दूसरी युनिट में है तो बराबर भार को मानक युनिट किलोग्राम में दिया जाए। | | | | | |
| Item code मद संकेतांक | Items मदें | Unit युनिट | Consumption उपभोग | | |
| | | | Quantity मात्रा | | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| | | | (0.000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 320 | Almond बादाम | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 321 | Cashew nut काजू | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 322 | Coconut dry/Copra सुखा नारियल/कोपरा | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 323 | Dates खजूर | Kg. कि.ग्रा | | | |
| 324 | Walnut अखरोट | Kg. कि.ग्रा | | | |



| 325 | Kishmish/Raisin किशमिश | Kg. कि.ग्रा | | |
|--|--|---------------|-------------------------------|---|
| | | | | |
| 329 | Fruits dry सुखे फल Sub-total उप-योग : (320-328) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 326 Monacca (Kg) मुनक्का (कि.ग्रा.) 327 Dry Apricot (Kg) सूखी खुरमानी (कि.ग्रा.) 328 Other dry fruits (specify) अन्य सूखे फल (विवरण दें) | | | | |
| 330 | Turmeric हल्दी | Gm ग्रा. | | |
| 331 | Chillies dry सूखी लाल मिर्च | Gm ग्रा. | | |
| 332 | Tamarind इमली | Gm ग्रा. | | |
| 333 | Coriander धनिया | Gm ग्रा. | | |
| 334 | Cumin seed/Jira जीरा | Gm ग्रा. | | |
| 335 | Pepper काली मिर्च | Gm ग्रा. | | |
| 336 | Methi seeds मेथी के बीज | Gm ग्रा. | | |
| 337 | Mixed spices मिश्रित मसाले | Gm ग्रा. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 349 | Spices मसाले Sub-total उप-योग : (330-347) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 338 Clove (Gms) लौंग (ग्राम), 339 Cardamom-big (Gms) बड़ी इलाईची (ग्राम), 340 Cardamom-small (Gms) छोटी इलाईची (ग्राम), 341 Saffron (Gms) केसर (ग्राम), 342 Curry powder (Gms) कढ़ी पाउडर (ग्राम), 343 Bay leaves (Gms) तेज पत्ता (ग्राम), 344 Poppy seed/Khas Khas (Gms) पोस्त दाना/खस-खस (ग्राम), 345 Mustard seeds/other oilseeds (Gms), सरसों के बीज/अन्य तेलों के बीज (ग्राम), 346 Asafoetida (Gms) हींग (ग्राम), 347 Other spices (specify) अन्य मसाले (विवरण दें) | | | | |
| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Unit यूनिट | Consumption उपभोग | |
| | | | Quantity मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 350 | Tea Hot-drink (cups) गर्म पेय चाय (कप) | No. सं. | | |
| 351 | Tea-leaf चाय पत्ती | Gms ग्रा. | | |
| 352 | Coffee Hot-drink (cups) गर्म पेय कॉफी (कप) | No. सं. | | |
| 353 | Coffee powder कॉफी पाउडर | Gms ग्रा. | | |
| 354 | Mineral water मिनरल वॉटर | Litre लि. | | |
| 355 | Cold beverages (bottled/canned) शीतल पेय (बोतलबंद/कैन) | Litre लि. | | |
| 356 | Fruit Juice and shakes फलों का रस तथा शेक | Litre लि. | | |
| 357 | Squashes & syrups स्क्वैश एवं सिरप/शरबत | Litre लि. | | |
| 358 | Sugar cane juice गन्ने का जूस | Litre लि. | | |
| 359 | Green coconut-water हरा नारियल पानी वाला | No. सं. | | |
| 360 | Cocoa, chocolate drink, etc. कोको, चॉकलेट पेय इत्यादि | Litre लि. | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|--|-------------|---|---|
| 369 | Non-alcoholic beverages गैर-मादक पेय पदार्थ Sub-total उप-योग : (350-361) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 361 Other Beverages (specify) अन्य पेय पदार्थ (विवरण दें) | | | | |
| 370 | Cooked meals purchased खरीदा गया पका खाना | No. सं. | | |
| 371 | Cooked meals received free at work place कार्य स्थल पर निःशुल्क प्राप्त पका हुआ खाना | No. सं. | | |
| 372 | Cooked meals received as assistance MDM etc सहायता के रूप में प्राप्त पका खाना जैसे एमडीएम इत्यादि | No. सं. | | |
| 373 | Snack saltish - Samosa, Pakora, etc., नमकीन नारता- समोसा, पकोड़ा इत्यादि | No. सं. | | |
| 374 | Vada, Idli, Dosa, etc., वड़ा, इडली, डोसा इत्यादि | No. सं. | | |
| 375 | Pav Bhaji, Vada Pav etc., पाव-भाजी, वड़ा पाव इत्यादि | No. सं. | | |
| 376 | Noodles, Chowmein, Momos, Piza, Pasta etc., नूडल्स, चाओमिन, मॉमोज़, पिज्जा, पास्ता इत्यादि | No. सं. | | |
| 377 | Cake, Pastry केक, पेस्ट्री | Gms ग्रा. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 379 | Served processed food परोसा गया संसाधित खाद्य : Sub-total उप-योग (370-378) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 378 Other served processed food (specify) परोसा गया संसाधित खाना (विवरण दें) | | | | |
| 380 | Snack sweet (made from Khoya, Maida, Besan, etc.) मीठा नारता (खोआ, मैदा, बेसन इत्यादि से निर्मित) | Kg कि.ग्रा. | | |
| 381 | Biscuits बिस्कुट | Kg कि.ग्रा. | | |
| 382 | Toffee, Chocolate टॉफी, चॉकलेट | No. सं. | | |
| 383 | Chips, Kurkure etc., चिप्स, कुरकुरे | Kg कि.ग्रा. | | |
| 384 | Papad, Vadi etc., पापड़, वड़ी इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | |
| 385 | Pickles अचार | Kg कि.ग्रा. | | |
| 386 | Bhujia, Namkeen, Mixture, Chanachur, etc. भुजिया, नमकीन, मिक्सचर, चनाचूर इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | |
| 387 | Sauce सॉस | Kg कि.ग्रा. | | |
| 388 | Jam, Jelly etc., जैम, जैली इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 399 | Packaged processed food पैकड संसाधित खाद्य: Sub-total उप-योग (380-394) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 389 Groundnut Roasted (Kg) भुनी हुई भुंगफली (कि.ग्रा.) 390 Parched/Roasted gram (Kg) भुने हुए चने (कि.ग्रा.) 391 Gram Sattu (Kg) चने का सत्तू (कि.ग्रा.) 392 Cocoa products/ Bournvita etc (Kg) कौको उत्पाद/ बॉर्नवीटा. (कि.ग्रा.) 393 Ready to cook mixtures (Kg) पकाने के लिए तैयार मिश्रण (कि.ग्रा.) 394 Other packaged processed foods (specify) अन्य पैकड संसाधित खाद्य (विवरण दें) | | | | |



| | |
|--|--|
| Block 10.2 Total Consumption expenditure of edible oil, egg, fish and meat, vegetables, fruits, Dry fruits, spices, beverages and processed food during the last 7 days (Unadjusted (Rs.) खण्ड 10.2 पिछले सात दिनों के दौरान खाद्य तेल, अंडा, मछली तथा मीट, सब्जियाँ, फलों, सूखे फल, मसालों, पेय पदार्थों तथा संसाधित खाद्य के उपभोग पर हुआ कुल व्यय-असमायोजित (रु) (209+229+289+319+329+349+ 369+379+399) | |
| Adjusted Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित व्यय (रु. पै.) ((209+229+289+319+329+349+ 369+379+399) *30/7) | |
| Adjusted expenditure for family ((f/f+e)*(209+229+289+319+329+349+ 369+379+399) *30/7) (Rs. P.) परिवार के लिए समायोजित व्यय (रु. पै.) ((एफ/एफ+ई)*(209+229+289+319+329+349+369+379+399) *30/7) | |

Block 11 Consumption expenditure of Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants during the last 7 days ended on

खण्ड 11 को समाप्त पिछले 7 दिनों के दौरान पान, सुपारी, तंबाकू तथा मादक पदार्थों का उपभोग व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
|--|---|--------------|----------------------------|---|
| | | | Quantity मात्रा (0.000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | Pan-leaf पान का पत्ता | No. सं. | | |
| 401 | Pan finished तैयार पान (बीडा) | No. सं. | | |
| 402 | Supari सुपारी | Gms. ग्राम. | | |
| 403 | Lime यूना | Gms. ग्राम. | | |
| 404 | Katha कत्था | Gms. ग्राम. | | |
| 409 | Pan, Supari, etc. पान, सुपारी, इत्यादि Sub-total उप-योग (400-407) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर- पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 405 Pan Masala (Gms) पान मसाला (ग्राम.), 406.Sweet Saunf (Gms) मीठी सौंफ (ग्राम.), 407 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 410 | Bidi बीड़ी | No. सं. | | |
| 411 | Cigarettes सिगरेट | No. सं. | | |
| 412 | Leaf tobacco तंबाकू पत्ता | Gms. ग्राम. | | |
| 413 | Smoking tobacco. Hukka tobacco-prepared पीने का तंबाकू, तैयार हुक्का तंबाकू | Gms. ग्राम. | | |
| 414 | Snuff नसवार | Gms. ग्राम. | | |
| 415 | Cigar, Cheroot सिगार, चुरुट | No सं. | | |
| 416 | Chewing tobacco चबाने वाला तंबाकू | Gms. ग्राम. | | |
| 417 | Zarda, kimam, surti, Gutka etc.. जर्दा, किमाम, सुर्ती, गुटखा इत्यादि | Gms. ग्राम. | | |
| 419 | Tobacco तंबाकू : Sub total उप-योग (410-418) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर- पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 418 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | | | |



| | | | | |
|---|--|-----------|---|---|
| 420 | Country liquor देसी शराब | Litre लि. | | |
| 421 | Foreign/Refined liquor (brandy, whisky, wine etc.) विदेशी/परिष्कृत शराब (ब्रांडी, विस्की, वाइन इत्यादि) | Litre लि. | | |
| 422 | Beer बीयर | Litre लि. | | |
| 423 | Handia, Toddy, Madi, Neera हॉडिया, ताड़ी, माडी, नीरा | Litre लि. | | |
| | | | | |
| 429 | Intoxicants मादक पदार्थ: Sub-total उप-योग (420-426) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 424 Bhang (Gms/litre) भांग (ग्राम/ लि.), 425 Ganja (Gms) गांजा (ग्र.), 426 Other intoxicants (specify) अन्य मादक पदार्थ (विवरण दें) | | | | |
| Block 11 Total Consumption expenditure of Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants during the last 7 days - Unadjusted (Rs.) खण्ड 11 पिछले सात दिनों के दौरान पान, सुपारी, तंबाकू तथा मादक पदार्थों का कुल उपभोग व्यय -असमायोजित (रु) (409+419+429) | | | | |
| Adjusted Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित व्यय (रु.पै.) ((409+419+429) *30/7) | | | | |
| Adjusted expenditure for family (Rs. P.) {(f/f+e)*(409+419+429)*30/7} | | | | |
| परिवार के लिए समायोजित व्यय (रु.पै.) :{(एफ/एफ+ई)*(409+419+429)*30/7} | | | | |

Block 12 Consumption expenditure on Energy (Fuel, Light and Household appliances) during the last 30 days ended on

खण्ड 12 को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान ऊर्जा (ईंधन, प्रकाश तथा घरेलू उपकरण) पर उपभोग व्यय

| Item Code संकेतांक | Items मदें | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
|--|--|------------------------|-------------------------|---|
| | | | Quantity मात्रा (0,000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 430 | Firewood and chips जलाने की लकड़ी तथा चैले | Kg कि.ग्रा. | | |
| 431 | Soft coke साफ्ट कोक | Kg कि.ग्रा. | | |
| 432 | Match box टिगलनाई | No. संख्या | | |
| 433 | Kerosene oil-PDS मिट्टी का तेल पी.डी.एस | Litre लि. | | |
| 434 | Kerosene oil-other sources मिट्टी का तेल -अन्य स्रोत | Litre लि. | | |
| 435 | Electricity Domestic - बिजली घरेलू प्रयोग हेतु | Energy Unit शक्ति इकाई | | |
| 436 | Cooking gas /LPG* खाना पकाने की गैस/एल पी जी* | Kg कि. ग्रा. | | |
| 437 | Dung Cake गोबर के उपले | No. सं. | | |
| | | | | |
| 449 | Fuel and Light ईंधन एवं प्रकाश : Sub - total उप-योग (430-447) | X | X | |
| | No. of family members (f) परिवार के सदस्यों की संख्या (एफ) | | X | X |
| | No. of non-family members / extra persons (e) गैर-पारिवारिक सदस्यों/अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (ई) | | X | X |
| | Factor (f/f+e) गुणनखण्ड(एफ/एफ+ई) | | X | |
| 438 Saw dust (kg) लकड़ी का बुरादा (कि.ग्रा.), 439 Charcoal (kg) लकड़ी का कोयला (कि.ग्रा.), 440 Gul Korla Briquettes (Kg) गुल कोयला (कि.ग्रा.), 441 Coconut shells (kg) नारियल की खोल (कि.ग्रा.), 442 Gubar Gas गोबर गैस, 443 Other fuels (specify) अन्य ईंधन (विवरण दें), 444 Candles (No with size) मोमबत्ती (आकार के साथ नंबर), 445 Other oils used for lighting (specify) प्रकाश हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य तेल (विवरण दें), 446 Generator Charges जेनरेटर प्रभार 447 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | | | |
| *One regular domestic LPG Cylinder contains 14.2 Kg Gas एक नियमित घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 14.2 कि.ग्रा. गैस होता है। | | | | |
| Block 12 Total Consumption expenditure of Energy (Fuel, Light and Household appliances) during the last 30 days - Unadjusted (Rs.) खण्ड 12 पिछले 30 दिनों के दौरान ऊर्जा (ईंधन, प्रकाश तथा घरेलू उपकरण) पर कुल उपभोग व्यय असमायोजित (रु) (449) | | | | |
| Adjusted expenditure for family (Rs. P.) {(f/f+e)*(449)} परिवार के लिए समायोजित व्यय (रु.पै.) {(एफ/एफ+ई)*(449)} | | | | |



Block 13 Consumption expenditure on Clothing, Bedding and Footwear during the last 365 days ended on

खण्ड 13 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान वस्त्रों, बिस्तर तथा जूतों पर उपभोग व्यय

Block 13.1 Clothing खण्ड 13.1 वस्त्र

| Item Code मद संकेतांक | Items मद | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
|----------------------------------|---|--------------|----------------------------|--|
| | | | Quantity मात्रा (0,000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Clothing: First hand वस्त्र : नए | | | | |
| 450 | Dhoti-Cotton धोती सूती | No. सं. | | |
| 451 | Saree Cotton साड़ी सूती | No. सं. | | |
| 452 | Saree Synthetic साड़ी सिंथेटिक | No. सं. | | |
| 453 | Saree Silks साड़ी सिल्क | No. सं. | | |
| 454 | Lungi लूंगी | No. सं. | | |
| 455 | Shirt Cloth Cotton कमीज का कपड़ा- सूती | Metre मी. | | |
| 456 | Shirt Cloth-Synthetic कमीज का कपड़ा- सिंथेटिक | Metre मी. | | |
| 457 | Trouser, Pant Cloth- Cotton ट्राउजर, पैंट का कपड़ा- सूती | Metre मी. | | |
| 458 | Trouser, Pant Cloth- Synthetic ट्राउजर, पैंट का कपड़ा- सिंथेटिक | Metre मी. | | |
| 459 | Shirt, T-Shirt-Readymade कमीज, टीशर्ट-रेडिमेड | No. सं. | | |
| 460 | Trouser, Pant-Readymade ट्राउजर, पैंट-रेडिमेड | No. सं. | | |
| 461 | Kurta-Pajama suits-male कुर्ता-पायजामा सूट- पुरुष | No. सं. | | |
| 462 | Kurta-Pajama suits-female कुर्ती -पायजामी-महिला | No. सं. | | |
| 463 | Coat, Overcoat-Readymade कोट, ओवरकोट-रेडिमेड | No. सं. | | |
| 464 | Ladies suiting (Salwar, Kamiz, Petticoat, Blouse etc.) महिला सूट (सलवार, कमीज, पेटीकोट, ब्लाउज इत्यादि) | Metre मी. | | |
| 465 | Gents suiting - Synthetic पुरुष सूट-सिंथेटिक | Metre मी. | | |
| 466 | Gents suiting - Woolen पुरुष सूट- ऊनी | Metre मी. | | |
| 467 | Vest, Ganji, Banian वेस्ट, गंजी, बनियान | No. सं. | | |
| 468 | Undergarments (Gents, Ladies) अंडरगारमेंट्स (महिला, पुरुष) | No. सं. | | |
| 469 | Towel, Gamcha तौलिया, गमछा | No. सं. | | |
| 470 | Children Garments (Frock, skirt, etc.) बच्चों के वस्त्र (फ्रॉक, स्कर्ट इत्यादि) | No. सं. | | |
| 471 | Long cloth, Khaddar लट्ठा, खददर | Metre मी. | | |
| 472 | School uniform Boys बालकों की स्कूली वर्दी | No. सं. | | |
| 473 | School uniform Girls बालिकाओं की स्कूली वर्दी | No. सं. | | |
| 474 | Woolen Sweater, Pull-over ऊनी स्वेटर, पुल-ओवर | No. सं. | | |
| 499 | Clothing वस्त्र Sub total उप-योग : (450-492) | X | X | |

475 Dhoti Synthetic (No.), धोती-सिंथेटिक (सं.), 476 Turban and headwear (No. and metre), पगड़ी तथा सिर पर बांधने वाला कपड़ा (सं. और मी.) 477 Dupatta Odhani (No. and metre) दुपट्टा ओढ़नी (सं. और मी.) 478 Casual wear (incl. maxis, nightdresses) (No.) सामान्य वस्त्र (मैक्सि, नाईटड्रेस सहित) (सं.), 479 Bermuda, Half Pant etc. (No.) बरमुडा, हॉफ पैंट (सं.) 480 Markin (Mtr) मार्किन (मी.), 481 Chhintz (Metre) चिंटज (मी.), 482 Chaddar, Angabastiram (Metre) चददर, अंगवस्त्र (मी.), 483 Handkerchief (No.) स्माल (सं.) 484 Shawl, Wrapper, Scarf (No.) शॉल, रैपर, स्कार्फ (सं.), 485 Socks (No. of pairs) मोजे (जोड़ों की संख्या), 486 Other hosiery garments (specify) अन्य हॉजरी के वस्त्र (विवरण दें), 487 Other garments (specify) अन्य वस्त्र (विवरण दें), 488 Knitting Wool (Gms) बुनाई का ऊन (ग्रा.), 489 Other shirting and coating (specify) अन्य शर्टिंग तथा कोटिंग (विवरण दें), 490 Other cloth (specify) अन्य कपड़ा (विवरण दें), 491 Windcheater (No.) विंडचीटर (सं.), 492 Clothing second-hand (specify) पुराने वस्त्र (विवरण दें)



| Block 13.2 Bedding | | खण्ड 13.2 बिस्तर | | |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|--|
| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Unit इकाई | Consumption उपभोग | |
| | | | Quantity मात्रा (0,000) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 500 | Bed-sheet बेड-शीट | No. सं. | | |
| 501 | Matress गद्दा | No. सं. | | |
| 502 | Durrie दरी | No सं. | | |
| 503 | Blanket, Rug कंबल, रग | No. सं. | | |
| 504 | Bed-cover बेड कवर | No सं. | | |
| 505 | Pillow readymade रेडिमेड तकिया | No सं. | | |
| 506 | Quilt रजाई | No. सं. | | |
| 507 | Mosquito net मच्छरदानी | No सं. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 519 | Bedding बिस्तर Sub total उप-योग : (500-514) | X | X | |

508 Pillow case (No.) तकिये की खोल (सं.), 509 Pillow cover (No.) तकिया कवर (सं.), 510 Cloth for upholstery (Metre) सोफा सजाने हेतु वस्त्र (मी.), 511 Curtain cloth (Metre) पर्दे हेतु कपड़ा (मी.), 512 Table cloth (No.) मेजपोश (सं.), 513 Other bedding cloth (specify) अन्य बिस्तर हेतु कपड़ा (विवरण दें), 514 Others like cotton etc. (specify) अन्य जैसे कपास इत्यादि (विवरण दें)

Block 13.3 Footwear खण्ड 13.3 जूते व चप्पल

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Quantity (No. of pairs) मात्रा (जोड़े की संख्या) | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 520 | Leather Boots, Shoes चमड़े के बूट, जूते | | |
| 521 | Leather Sandal, Chappal, Slipper चमड़े के सैंडल, चप्पल, स्लीपर | | |
| 522 | Rubber Chappal रबड़ की चप्पल | | |
| 523 | Rubber Gum boots रबड़ के गम बूट | | |
| 524 | Plastic/PVC Shoes प्लास्टिक/पीवीसी जूते | | |
| 525 | Canvas Shoes कैनवस जूते | | |
| | | | |
| | | | |
| 529 | Footwear जूते व चप्पल Sub-total उप-योग : (520-527) | X | |

526 Repair and maintenance of footwear जूतों का रखरखाव एवं मरम्मत. 527 Other footwear (specify). अन्य जूते व चप्पल (विवरण दें)

Block 13 Total Consumption expenditure on Clothing, Bedding and Footwear during the last 365 days -Unadjusted (Rs.) खण्ड 13 पिछले 365 दिनों के दौरान वस्त्रों, बिस्तरों तथा जूते व चप्पल पर हुआ कुल उपभोग व्यय-असमायोजित (रु) (499+519+529)

Adjusted Family Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित परिवार व्यय (रु. पै.) ((499+519+529) *30/365)



Block 14 Expenditure on Education and Medical/Health (Institutional) goods and services during the last 365 days ended on

खण्ड 14 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान शिक्षा तथा चिकित्सा/स्वास्थ्य (संस्थागत) वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 530 | Tuition and other fees-School/ITI ट्यूशन फीस तथा अन्य फीस-स्कूल/आईटीआई | |
| 531 | Tuition and other fees-College/University ट्यूशन फीस तथा अन्य फीस-महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | |
| 532 | Books -School/ITI पुस्तकें- स्कूल/आईटीआई | |
| 533 | Books -College/University पुस्तकें- कॉलेज/यूनिवर्सिटी | |
| 534 | Stationery-all kinds लेखन सामग्री- सभी प्रकार | |
| 535 | Library charges पुस्तकालय प्रभार | |
| 536 | Books and Journals -First hand पुस्तकें एवं मैगजीन- नई | |
| 537 | Books and Journals -Second hand पुस्तकें एवं मैगजीन-पुरानी | |
| 538 | Newspapers and Periodicals अखबार एवं पत्रिका | |
| 539 | Private Tutor, Coaching Centre Fees निजी शिक्षक, कोचिंग केन्द्र फीस | |
| 540 | Photocopying charges फोटोकॉपींग प्रभार | |
| | | |
| | | |
| 549 | Education शिक्षा Sub total उप-योग : (530-545) | |
| 541 Hostel or boarding charges छात्रवास या बोर्डिंग प्रभार, 542 Pocket expenses to children बच्चों को जेब खर्चा, 543 Educational CD शैक्षणिक सीडी, 544 Computer Training course fee कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस, 545 Other educational expenses (specify) अन्य शैक्षणिक व्यय (विवरण दें) | | |
| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
| 1 | 2 | 3 |
| 550 | Doctor's/ Surgeon's fee डॉक्टर/सर्जन फीस | |
| 551 | Medicines दवाईयाँ | |
| 552 | Ambulance Charges रोगीवाहन प्रभार | |
| 553 | Hospital/Nursing Home Charges हॉस्पिटल/नर्सिंग प्रभार | |
| 554 | Laboratory/Testing Charges प्रयोगशाला/परीक्षण प्रभार | |
| 555 | X-Ray Charges एक्स रे प्रभार | |
| 556 | Operation Charges ऑपरेशन प्रभार | |
| 557 | Nurse/Midwife charge नर्स/दाई प्रभार | |
| | | |
| | | |
| 559 | Health Institutional स्वास्थ्य संस्थागत Sub total उप-योग : (550-558) | |
| 558 Other institutional medical charges/expenses (specify) अन्य संस्थागत चिकित्सा प्रभार/व्यय (विवरण दें) | | |

| | |
|---|--|
| Block 14 Total Consumption expenditure on Education and Medical/Health (Institutional) goods and services during the last 365 days - Unadjusted (Rs.) खण्ड 14 पिछले 365 दिनों के दौरान शिक्षा तथा चिकित्सा/स्वास्थ्य (संस्थागत) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल उपभोग व्यय - असमायोजित (रु.) (549+559) | |
| Adjusted Family Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित परिवार व्यय (रु. पै.) [(549+559) *30/365] | |



- Block 15 Expenditure on Miscellaneous Goods, Services and Housing
 खण्ड 15 विविध वस्तुओं, सेवाओं तथा मकान पर व्यय
 Block 15.1 & 15.2 Expenditure on Miscellaneous Goods, Services including Medical/Health (Non-Institutional) during the last 30 days ended on
 खण्ड 15.1 एवं 15.2को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान विविध वस्तुओं तथा सेवाओं जिसमें चिकित्सा/स्वास्थ्य (गैर-संस्थागत) सेवाएं शामिल हैं पर व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) | Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15.1 | Medical/Health (Non-Institutional) चिकित्सा/स्वास्थ्य (गैर-संस्थागत) | | 15.2 | Entertainment मनोरंजन | |
| 560 | Doctor's/Surgeon's fee चिकित्सक/सर्जन फीस | | 580 | Cinema Hall सिनेमा हॉल | |
| 561 | Medicine Allopathic एलोपैथिक दवाई | | 581 | Cinema Balcony सिनेमा बालकॉनी | |
| 562 | Medicine Homeopathic होमियोपैथिक दवाई | | 582 | Multiplex मल्टीप्लेक्स | |
| 563 | Medicine Ayurvedic आयुर्वेदिक दवाई | | 583 | Cable TV/DTH Charges केबल टीवी/डीटीएच प्रभार | |
| 564 | Dentists fee दंत चिकित्सक की फीस | | 584 | Mela, fair, picnic etc., मेला, चिकनिक इत्यादि | |
| 565 | Laboratory/Testing Charges प्रयोगशाला/परीक्षण प्रभार | | 585 | Musical and dance performances संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन | |
| 566 | X-Ray/Ultrasound Charges एक्स रे/अल्ट्रासाउंड प्रभार | | 586 | Photographic expenses फोटोग्राफिक व्यय | |
| 567 | ECG Charges, Echo etc., ईसीजी प्रभार, इको इत्यादि | | 587 | VCD/DVD hire (incl. instrument) वीसीडी/डीवीडी का किराया (यंत्र सहित) | |
| 568 | Employees State Insurance contribution (ESI) कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान | | 588 | Sports goods, Toys, etc. खेलकुद की वस्तुएं, खिलौने इत्यादि | |
| 569 | Health service contribution (CGHS, etc.,) स्वास्थ्य सेवा अंशदान | | 589 | Club fees क्लब फीस | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 579 | Health (Non-Institutional) स्वास्थ्य (गैर-संस्थागत) Sub-total उप-योग (560-572) | | 599 | Entertainment मनोरंजन : Sub-total उप-योग (580-593) | |
| 570 | Medicine Unani, Sidha etc. दवा मुनानी, सिद्धा इत्यादि, | | 590 | Theatre थियेटर, | |
| | Family Planning devices परिवार नियोजन उपकरण, | | 591 | Fireworks पटाखेबाजी, | |
| | 572 Other (non-institutional) medical expenses (specify) अन्य (गैर-संस्थागत) चिकित्सा व्यय (विवरण दें) | | 592 | Colours for Holi होली हेतु रंग, | |
| | | | 593 | Other entertainment expenses (specify) अन्य मनोरंजन व्यय (विवरण दें) | |



Block 15.3 & 15.4 Expenditure on Toilet articles and Minor durables-type goods during the last 30 days ended on

खण्ड 15.3 तथा 15.4 को समाप्त पिछले 30 दिनों के लिए प्रसाधन सामग्री तथा लघु टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) | Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15.3 Toilet articles प्रसाधन सामग्री | | | 15.4 Minor durable-type goods लघु टिकाऊ वस्तुएं | | |
| 600 | Toilet Soap नहाने का साबून | | 620 | Torch टॉर्च | |
| 601 | Tooth paste, Tooth powder दूधपेस्ट, दूध पाउडर | | 621 | Lock ताले | |
| 602 | Tooth brush दूध ब्रश | | 622 | Umbrella छाता | |
| 603 | Face cream, Face powder etc., फेस क्रीम, फेस पाउडर | | 623 | Rain-coat बरसाती | |
| 604 | Hair oil, Hair cream etc., हेयर ऑयल, हेयर क्रीम इत्यादि | | 624 | Lighter (for Bidi/Cigarette/Gas stove) लाईटर (बीड़ी/सिगरेट/गैस चूल्हा के लिए) | |
| 605 | Shampoo, Hair Lotion शैम्पू, हेयर लोशन | | 625 | Scissors, Knife कैंची, चाकू | |
| 606 | Shaving soap/cream शेविंग साबून/क्रीम | | 626 | Mirror आईना | |
| 607 | Shaving Blade, Razor शेविंग ब्लेड, रैजर | | | | |
| 608 | Hand wash liquid हाथ धोने के लिए तरल साबून | | | | |
| 609 | Scents and perfumes इन तथा परफ्यूम | | | | |
| 610 | Lipstick, Nail Polish etc., लिपस्टिक, नेल पॉलिश इत्यादि | | | | |
| 611 | Sanitary napkins सेनीटेरी नैपकिन्स | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 619 | Toilet articles प्रसाधन सामग्री Sub-total उप-योग (606-616) | | 629 | Minor durable-type goods लघु टिकाऊ वस्तुएं Sub-total उप-योग (620-628) | |
| 612 Comb/ Hair brush कंघा/हेयर ब्रश, 613 Soap nut रीठा, 614 After Shave Lotion शेव उपरांत प्रयुक्त होने वाला लोशन, 615 Neem and similar sticks नीम तथा अन्य दातुन, 616 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | | 627 Hand Suck हाथ की छड़ी, 628 Other minor durable goods (specify) अन्य लघु टिकाऊ वस्तुएं (विवरण दें) | | |



Block 15.5 & 15.6 Expenditure on Other household consumables and Consumer services excluding conveyance during the last 30 days ended on
 खण्ड 15.5 एवं 15.6 को समाप्त अंतिम 30 दिनों के दौरान परिवहन/वाहन को छोड़कर अन्य उपभोग्य वस्तुओं तथा उपभोक्ता सेवाओं पर व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) | Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15.5 | Other Household Consumables अन्य घरेलू उपभोग्य वस्तुएं | | 15.6 | Consumer Services excluding Conveyance परिवहन/वाहन को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएं | |
| 630 | Electric bulb incl. LED Bulb इलैक्ट्रिक बल्ब एलईडी बल्ब सहित | | 660 | Domestic servant (including kind) घरेलू नौकर (वस्तुओं की कीमत सहित) | |
| 631 | Electric Tube light इलैक्ट्रिक ट्यूबलाइट | | 661 | Cook, Ayah, Gardener, etc... रसोईया, आया, माली इत्यादि | |
| 632 | Electric batteries इलैक्ट्रिक बैटरी | | 662 | Attendant/Watchman etc., सेवाद्वार/घांकीदार इत्यादि | |
| 633 | Earthenware मिट्टी के बर्तन | | 663 | Sweeper, Refuse Collection Charges स्वीपर, कूड़ा कंकट उठाने के प्रभार | |
| 634 | Glassware काँच के बर्तन | | 664 | Barber, Beautician, etc. नाई, ब्यूटीशियन इत्यादि | |
| 635 | Bucket, Water bottle/Feeding bottle and other plastic goods बाल्टी, पानी की बोतल/फीडिंग बोतल तथा अन्य प्लास्टिक वस्तुएं | | 665 | Washer man, Laundry, Ironing धोबी, लंड्री, ऑयरनिंग | |
| 636 | Coir, Rope etc. नारियल की रस्सी, रस्सी इत्यादि | | 666 | Dry Cleaning, Dyeing ड्राई क्लीनिंग, रंगाई | |
| 637 | Washing soap/ soda, Soap chips etc. धोने का साबुन/सोडा, साबुन की चिप्स इत्यादि | | 667 | Tailoring Charges, Embroidery दर्जी की सिलाई, कढ़ाई का प्रभार | |
| 638 | Detergent, soap/Powder, etc., डिटर्जेंट, साबुन/पाउडर इत्यादि | | 668 | Grinding Charges पिसाई प्रभार (including grinding waste जलती सहित) | |
| 639 | Blue Powder/Liquid नील पाउडर/ तरल | | 669 | Postage-Ordinary/Regd./ Speed post/ Courier/Fax डाक-साधारण/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर/फैक्स | |
| 640 | Toilet/Floor cleaner (Harpic, Lizol, Acid, etc.) टॉयलेट/फर्श क्लीनर (हार्पिक, लाएजोल, तेजाब इत्यादि) | | 670 | Money Order Charges मनी ऑर्डर प्रभार | |
| 641 | Mosquito repellent, Insecticide, etc., मच्छर मारने वाला द्रव्य, कीटनाशक इत्यादि | | 671 | Telephone charges landline* लैंडलाइन टेलिफोन प्रभार* | |
| 642 | Ornaments glass, plastic etc., (other than precious) शीशे, प्लास्टिक इत्यादि के आभूषण (बहुमूल्य को छोड़कर) | | 672 | Telephone charge mobile मोबाइल टेलिफोन प्रभार | |
| 643 | Incense (Agarbatti), Dhoop अगरबत्ती, धूप | | 673 | Internet charges incl. Cyber cafe इंटरनेट प्रभार साईबर कैफे सहित | |
| 644 | Room Freshener स्म फ्रेशनर | | 674 | Pet animals (incl. bird, fish, etc.) पालतू जानवर (चिड़िया, मछली इत्यादि सहित) | |
| 645 | Flowers/flower garlands फूल/ फूलों की माला | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 659 | Other household consumables अन्य घरेलू उपभोग्य Sub-total उप-योग (630-651) | | 679 | Consumer services excluding conveyance परिवहन/वाहन को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएं Sub-total उपयोग (660-678) | |



| | |
|---|---|
| 646 Other non-durable electric goods (specify) अन्य गैर टिकाऊ इलेक्ट्रिक वस्तुएँ (विवरण दें), 647 Broom/Wiper झाड़ू/वाईपर, 648 Other washing requisites (specify अन्य वाशिंग उपकरण (विवरण दें)), 649 Utensil Cleansing Bar, Liquid, Powder etc. बर्तन धोने की टिकिया, तरल, पाऊंडर इत्यादि, 650 Boot Polish बूट पॉलिश, 651 Other petty articles (specify) अन्य लघु वस्तुएँ (विवरण दें) | 675 Electrician charges इलेक्ट्रिशियन प्रभार, 676 Plumber Charges प्लम्बर प्रभार, 677 Debit Card/ATM/Credit card charges डेबिट कार्ड/ एटीएम/क्रेडिट कार्ड प्रभार, 678 Other consumer services excluding conveyance (specify) परिवहन/वाहन को छोड़कर अन्य उपभोक्ता सेवाएँ (विवरण दें) |
|---|---|

*The value may be derived as the amount last paid divided by the number of months for which amount was paid.

• मूल्य को भुगतान की गई अंतिम राशि को संबन्धित महीनों की संख्या से भाग देने के उपरांत निकाला जाएगा।

Block 15.7 Expenditure on Transport/Conveyance during the last 30 days ended on

खण्ड 15.7 को समाप्त अंतिम 30 दिनों के दौरान परिवहन/वाहन पर हुआ व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 680 | Rail fare रेल किराया | |
| 681 | Bus fare बस किराया | |
| 682 | Auto-rickshaw, Scooter fare ऑटोरिक्शा, स्कूटर किराया | |
| 683 | Taxi fare टैक्सी किराया | |
| 684 | Metro fare मेट्रो किराया | |
| 685 | Petrol for vehicle वाहन हेतु पेट्रोल | |
| 686 | Diesel for vehicle वाहन हेतु डीजल | |
| 687 | LPG for vehicle वाहन हेतु एलपीजी | |
| 688 | Rickshaw fare, Bicycle hire रिक्शा किराया, साईकिल किराया | |
| 689 | Coolie Charges कुली प्रभार | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 699 | Transport/Conveyance परिवहन/वाहन Sub total उप-योग : (680-698) | |
| 690 Air fare हवाई किराया, 691 Tram fare ट्राम किराया, 692 Mono rail fare मोनो रेल किराया, 693 Steamer/boat fare स्टीमर/बोट किराया, 694 Horse cart fare घोड़ा-गाड़ी किराया, 695 School bus/van fare स्कूल बस/वैन किराया, 696 Lubricants and other fuels for vehicle वाहनों हेतु लुब्रीकेंट्स तथा अन्य ईंधन, 697 Maintenance of horses and bullocks घोड़ों तथा बैलों का रखरखाव, 698 Other conveyance charges including car/scooter/bike parking fee, Toll charges etc.. (specify) अन्य यात्रा प्रभार कार/स्कूटर/बाईक पार्किंग प्रभार, टॉल प्रभार सहित (विवरण दें) | | |



Block 15.8 Expenditure on Housing (Actual and Imputed Rentals) during the last 30 days ended on

खण्ड 15.8 को समाप्त पिछले - 30 दिनों के दौरान आवास पर व्यय (वास्तविक तथा आरोपित किराया)

| Particulars of the dwelling occupied धारित निवास का विवरण | | |
|---|-----------------|--|
| 1. Living rooms (आवासीय कमरे) | No. संख्या..... | Area (in sq. metres) क्षेत्रफल (वर्गमीटर)..... |
| 2. Any other room (कोई अन्य कमरा) | No. संख्या..... | Area (in sq. metres) क्षेत्रफल (वर्गमीटर)..... |
| 3. Year of construction (निर्माण वर्ष) | | |

(10.76 sq.ft वर्गफुट = 1 sq. metre वर्गमीटर)

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 700 | Rent for residential house - Private rented * आवासीय मकान का किराया- प्राइवेट किराए पर* | |
| 701 | Rent for residential house provided by Employer - Non-concessional नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास का किराया- छूट रहित | |
| 702 | Concessional/subsidized house provided by Employer - (Imputed Rental) छूट प्राप्त/सम्बिन्धी वाले आवास जो नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं (आरोपित किराया) | |
| 703 | Rent Free House provided by Employer - (Imputed Rental) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध निःशुल्क आवास-(आरोपित किराया) | |
| 704 | Residential house provided by others (specify) - Concessional/ subsidized/ free (Imputed Rental) अन्य द्वारा उपलब्ध करवाया गया आवास -छूट प्राप्त/सम्बिन्धी पर/निशुल्क (आरोपित किराया) | |
| 705 | Rent for residential land आवासीय भूमि का किराया | |
| 706 | Self owned house - (Imputed Rental) स्वयं का घर -(आरोपित किराया) | |
| 707 | Water Charges* पानी का प्रभार | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 719 | Housing आवास Sub-total उप-योग : (700-711) | |
| 708 | Hotel में ठहरने के प्रभार Hotel lodging charges, 709 गैरराज हेतु प्रभार Rent for Garage, 710 अन्य किराया (विवरण दें) Other rent (specify), 711 आवास पर हुए अन्य खर्च (विवरण दें) Other expenses on housing (specify) | |

*The value may be derived as the amount last paid divided by the number of months for which amount was paid.
• मूल्य को भुगतान की गई अंतिम राशि को संबंधित महिनों की संख्या से भाग देने के उपरांत निकाला जाएगा ।

| | |
|--|--|
| <p>Block 15 Total Consumption expenditure of Miscellaneous goods and services including Medical/Health (Non-Institutional), Entertainment, Toilet articles and Minor durable-type goods, Other household consumables and Consumer services excluding conveyance, Transport/Conveyance and Housing (Actual and Imputed Rentals) during the last 30 days - Unadjusted/Adjusted (Rs.)</p> <p>खण्ड 15 पिछले 30 दिनों के दौरान विविध वस्तुओं तथा सेवाओं जैसे चिकित्सा/स्वास्थ्य (गैर-संस्थागत), मनोरंजन, प्रसाधन सामग्री तथा लघु टिकाऊ वस्तुओं सहित अन्य घरेलू उपभोग्य तथा परिवहन/वाहन साधन को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएं, परिवहन/वाहन साधन तथा आवास (वास्तविक तथा आरोपित किराया) का कुल उपभोग व्यय - असमायोजित/समायोजित (रु) (579+599+619+629+659+679+699+719)</p> | |
|--|--|



Block 16 Expenditure for purchase and construction (including repair and maintenance) of durable goods like Furniture and Fixtures, durable goods for Recreation, Crockery and Utensils, Cooking and other Household Appliances, Personal Transport Equipment, Therapeutic Appliances, other durable personal goods including repair and maintenance of Residential Building and Land for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं जैसे फर्नीचर तथा फिक्सचर के निर्माण और खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित), मनोरंजन हेतु टिकाऊ वस्तुओं, क्राफ्टी और बर्तन, खाना पकाने के और अन्य घरेलू उपकरणों, व्यक्तिगत परिवहन उपकरण, चिकित्सीय उपकरणों, अन्य टिकाऊ व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू प्रयोग हेतु आवासीय भवन और भूमि के मरम्मत एवं रख-रखाव पर व्यय ।

Block 16.1 Expenditure for purchase and construction (including repair and maintenance) of durable goods like furniture and fixtures for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.1 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं जैसे फर्नीचर तथा फिक्सचर (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) के निर्माण और खरीद पर व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Purchase code क्रय संकेतांक | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|--|--------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 720 | Bedstead, cot पलंग, चारपाई | | | |
| 721 | Wooden Almirah, Box etc., लकड़ी की अलमारी, बक्सा, इत्यादि | | | |
| 722 | Steel Almirah, Box, Trunk etc., स्टील की अलमारी, बक्सा, टंक इत्यादि | | | |
| 723 | Wooden - Chair, Table, Bench, Chouki, Takhal, etc., लकड़ी- कुर्सी, टेबल, बेंच, चौकी, तख्त, इत्यादि | | | |
| 724 | Dining Table, Dressing table, Side table, TV Stand/Trolley, etc., डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, टी.वी स्टैंड/टॉली, इत्यादि | | | |
| 725 | Steel Chair, Table, Stool etc., स्टील की कुर्सी, टेबल, स्टूल इत्यादि | | | |
| 726 | Plastic Chair, Table, Stool, etc., प्लास्टिक की कुर्सी, टेबल, स्टूल इत्यादि | | | |
| 727 | Sofa-couch (. . .No of seats) सोफा-कोच (सीटों की संख्या.....) | | | |
| 728 | Foam, Rubber cushions etc., फोम, रबर कुशन इत्यादि | | | |
| 729 | Paintings, drawings and engravings, etc., पेंटिंग, ड्राइंग तथा नक्काशी, इत्यादि | | | |
| 730 | Carpets, durie & other floor matings कारपेट, दरी तथा अन्य फर्शचटाई, इत्यादि | | | |
| 731 | Suit case, Attache case, Brief case, Hand Bag and other travel bags सूटकेस, अटैची केस, ब्रीफकेस, हैंड बैग तथा अन्य यात्रा बैग | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 739 | Furniture and fixtures फर्नीचर तथा फिक्सचर Sub total उप-योग (720-735) | X | X | |
| 732 Purse-ladies/Gents पर्स-महिला/पुरुष, 733 Repair and maintenance of furniture फर्नीचर की मरम्मत तथा रख-रखाव 734 Rent for furniture फर्नीचर का किराया, 735 Other furniture & fixtures (specify) अन्य फर्नीचर तथा फिक्सचर (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, Got Constructed निर्माण करवाया गया-3, On Hire- Purchase किराई पर खरीद -4, others अन्य -5



recreation for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.2को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग के लिए मनोरंजन हेतु टिकाऊ वस्तुओं की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय।

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Purchase code* क्रय संकेतांक* | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 740 | Radio, Transistor, Tape Recorder, 2-in-1 रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर, 2-इन-1 | | | |
| 741 | Television /टेलिविजन | | | |
| 742 | VCR/VCD/DVD Player वीसीआर/वीसीडी/डीवीडी प्लेयर | | | |
| 743 | Cable/DTH Installation केबल/डीटीएच इंस्टालेशन | | | |
| 744 | CD, DVD, Audio/Video Cassette, etc., सीडी, डीवीडी, ऑडियो/विडियो कैसेट, इत्यादि | | | |
| 745 | Camera and photographic equipment कैमरा तथा फोटोग्राफिक उपकरण | | | |
| 746 | Musical Instruments संगीत यंत्र | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 749 | Goods for recreation मनोरंजन की वस्तुएं Sub-total उप-योग (740-748) | X | X | |
| 747 Repair and maintenance of recreation durables मनोरंजन की टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत तथा रख-रखाव, 748 Other goods for recreation (specify) अन्य मनोरंजन की वस्तुएं (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second-hand पुराना -2, On Hire- Purchase किराते पर खरीद -3, others अन्य -4

Block 16.3 Expenditure for purchase (including repair and maintenance) of durable goods like crockery and utensils for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.3 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु टिकाऊ वस्तुओं जैसे क्राँकरी तथा बर्तन की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय।

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Purchase code* क्रय संकेतांक* | Quantity मात्रा | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Stainless steel Utensils (Kg) स्टेनलैस स्टील के बर्तन (कि.ग्रा.) | | | |
| 751 | Aluminum Utensils (Kg) एल्युमिनियम के बर्तन (कि.ग्रा.) | | | |
| 752 | Brass Utensils (Kg) पीतल के बर्तन (कि.ग्रा.) | | | |
| 753 | Casserole, Thermos, Thermo ware (No.) कैसरोल, थर्मस, थर्मो वेयर (संख्या) | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 754 | Enamelware (No.) एनैमलवेयर (संख्या) | | | |
| 755 | Chinaware Tea Set, Dinner set etc., (No.) चीनी मिट्टी के टी-सेट, डिनर सेट इत्यादि (सं.) | | | |
| 756 | Melmsware (No.) मेलमोवेयर (सं.) | | | |
| | | | | |
| 769 | Crockery and utensils क्रोकरी तथा बर्तन Sub-total उप-योग (750-761) | X | X | |
| 757 Utensil Copper (Kg) तांबे के बर्तन (कि.ग्रा.), 758 Utensil Bell metal (Kg) कांसे के बर्तन (कि.ग्रा.), 759 Utensil Iron (Kg) लोहे के बर्तन (कि.ग्रा.), 760 Other metal Utensils (Kg) अन्य धातु के बर्तन (कि.ग्रा.), 761 Other Crockery and Utensils (specify) अन्य क्रोकरी तथा बर्तन (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, On Hire- Purchase किराई पर खरीद -3, others अन्य -4

Block 16.4 Expenditure for purchase (including repair and maintenance) of durable goods like cooking and other household appliances for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.4 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु खाना पकाने तथा अन्य घरेलू उपकरणों, जैसी टिकाऊ वस्तुओं की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्द | Purchase code* क्रय संकेतांक* | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|---|----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 770 | Electric-fan इलेक्ट्रिक पंखा | | | |
| 771 | Air Conditioner, Air Cooler एयर कंडिशनर एयर कुलर | | | |
| 772 | Inverter/इन्वर्टर | | | |
| 773 | Lantern, Lamp, Electric Lampshade लानटेन, लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्पशेड | | | |
| 774 | Sewing machine सिलाई की मशीन | | | |
| 775 | Washing machine वाशिंग मशीन | | | |
| 776 | Kerosene Stove, Gas Stove कैरोसीन स्टोव, गैस स्टोव | | | |
| 777 | Pressure cooker/Pressure pan प्रेशर कुकर/ प्रेशर पैन | | | |
| 778 | Refrigerator रेफ्रिजरेटर | | | |
| 779 | Water Purifier/ वाटर प्यूरिफायर | | | |
| 780 | Electric-iron इलेक्ट्रिक-आयरन | | | |
| 781 | Room Heater, Blower रूम हीटर, ब्लोवर | | | |
| 782 | Toaster, Oven, Griller, Microwave टोस्टर, ओवन, ग्रिलर, माइक्रोवेव | | | |
| 783 | Food Processor, Mixer, Blender, Juicer फूड प्रोसेसर, मिक्सचर, ब्लेंडर, जूसर | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 789 | Cooking and other household appliances खाना पकाने तथा अन्य घरेलू उपकरण Sub total उप-योग (770-788) | X | X | |
| 784 Electric Kettle इलेक्ट्रिक कैंटल, 785 Geyser गीजर, 786 Repair and maintenance of household appliances घरेलू उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव, 787 Rent for household appliances घरेलू उपकरणों हेतु किराया, 788 Other cooking and household appliances (specify) अन्य कुकिंग तथा घरेलू उपकरण (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, On Hire- Purchase किराई पर खरीद -3, others अन्य -4



Block 16.5 Expenditure for purchase (including repair and maintenance) of durable goods like personal Transport equipment for domestic use during the last 365 days ended on
 खण्ड 16.5 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु व्यक्तिगत परिवहन उपकरण जैसे टिकाऊ वस्तुओं की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Purchase code* क्रय संकेतांक* | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|--|----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 790 | Bicycle साईकल | | | |
| 791 | Motor-cycle, Scooter, Moped, etc., मोटर-साईकल, स्कूटर, मोपेड, इत्यादि | | | |
| 792 | Motor Car, Jeep, Van etc., मोटर कार, जीप, वैन इत्यादि | | | |
| 793 | Tyres and Tubes टायर और ट्यूब | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 799 | Personal transport equipment व्यक्तिगत परिवहन उपकरण Sub total उप-योग (790-797) | X | X | |
| 794 Tricycle ट्राईसाईकल, 795 Perambulator पैरम्बुलेटर, 796 Repair charges of personal transport व्यक्तिगत परिवहन के मरम्मत का खर्च, 797 Other expenses of owned transport equipment (specify) स्वयं के परिवहन उपकरण पर अन्य खर्च (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, On Hire- Purchase किरतों पर खरीद -3, others अन्य -4

Block 16.6 Expenditure for purchase (including repair and maintenance) of durable goods like therapeutic appliances for domestic use during the last 365 days ended on
 खण्ड 16.6 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु चिकित्सीय उपकरण जैसे टिकाऊ वस्तुओं की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दे | Purchase code क्रय संकेतांक | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|---|---|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800 | Spectacles, Contact Lenses चश्मा, कॉन्टैक्ट लेन्स | | | |
| 801 | Hearing Aids कान की मशीन | | | |
| 802 | Orthopaedic equipment हड्डी रोग उपकरण | | | |
| 803 | Dentures नकली दाँत | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 809 | Therapeutic appliances चिकित्सीय उपकरण Sub total कुल योग (800-806) | X | X | |
| 804 Thermometer थर्मामीटर, 805 Artificial limbs कृत्रिम अंग, 806 Other medical equipment (specify) अन्य चिकित्सीय उपकरण (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, On Hire- Purchase किरतों पर खरीद -3, others अन्य -4



Block 16.7 Expenditure for purchase (including repair and maintenance) of other durable personal goods for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.7 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु अन्य टिकाऊ व्यक्तिगत वस्तुओं की खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित) हेतु व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मदें | Purchase code* क्रय संकेतांक* | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|--|----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 810 | Clock, Wrist watch दीवार घड़ी, हाथ घड़ी | | | |
| 811 | Mobile Handset मोबाइल हैंड सेट | | | |
| 812 | Telephone, Telefax Instrument टेलीफोन, टेलीफैक्स यंत्र | | | |
| 813 | Calculator/कैलकुलेटर | | | |
| 814 | Personal Computer/Laptop including other peripherals and software व्यक्तिगत कम्प्यूटर/ लैपटॉप अन्य बाह्य उपकरणों तथा सॉफ्टवेयर सहित | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 819 | Other personal goods अन्य व्यक्तिगत सामान Sub total उप-योग (810-818) | X | X | |
| 815 Internet Connection/Wi-Fi Instrument/Dongal इंटरनेट कनेक्शन/वाई-फाई उपकरण/ डोंगल, 816 Pen drive, पैन-ड्राइव, 817 Other machines for household work (specify) घरेलू कार्य के लिए अन्य मशीन (विवरण दें), 818 Other personal goods (specify) अन्य व्यक्तिगत सामान (विवरण दें) | | | | |

*Code of purchase क्रय का संकेतांक: First hand नया -1, Second hand पुराना -2, On Hire- Purchase
किश्तों पर खरीद -3, others अन्य -4



Block 16.8 Expenditure for purchase of other durables and on repair and maintenance of residential building and land for domestic use during the last 365 days ended on

खण्ड 16.8 को समाप्त पिछले 365 दिनों के लिए घरेलू प्रयोग हेतु अन्य टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, आवासीय भवन व भूमि की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दें | No. संख्या | Value (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 820 | Bath Room and Sanitary equipment बाथरूम तथा सफाई उपकरण | | |
| 821 | Plugs, Switches and other electrical fittings प्लग्स, स्विच तथा अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स | | |
| 822 | Cost of Repairs only for Residential building & Land केवल आवासीय भवन व भूमि के लिए मरम्मत की लागत | | |
| 823 | Hose Pipe, Garden equipment etc., होज पाइप, उद्यान उपकरण इत्यादि | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 829 | Other Durables and repairs of Residential building and Land अन्य टिकाऊ वस्तुएं तथा आवासीय भवन व भूमि की मरम्मत Sub total उप-योग (820-824) | X | |
| 824 Other durables for domestic use (specify) घरेलू प्रयोग के लिए अन्य टिकाऊ वस्तुएं (विवरण दें) | | | |

| | |
|---|--|
| <p>Block 16 Total Consumption expenditure on purchase and construction (including repair and maintenance) of durable goods like furniture and fixtures, durable goods for recreation, crockery and utensils, cooking and other household appliances, personal transport equipment, therapeutic appliances, other durable personal goods and on repair and maintenance of residential building and land for domestic use during the last 365 days – Unadjusted (Rs.)</p> <p>पिछले 365 दिनों के दौरान घरेलू प्रयोग हेतु टिकाऊ वस्तुओं जैसे फर्नीचर तथा फिक्सचर का निर्माण और खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित), मनोरंजन हेतु टिकाऊ वस्तुओं, क्राँकरी एवं बर्तन, खाना पकाने के तथा अन्य घरेलू उपकरण, व्यक्तिगत परिवहन उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, अन्य टिकाऊ व्यक्तिगत वस्तुएं तथा आवासीय भवन व भूमि के मरम्मत एवं रख-रखाव पर कुल उपभोग व्यय - असमायोजित (रु) (739+749+769+789+799+809+819+829)</p> | |
| <p>Adjusted Family Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित पारिवारिक व्यय (रु. पै.) {(739+749+769+789+799+809+ 819+ 829)*30/365}</p> | |



Block 17 Non - Consumption Expenditure during the last 365 days ended on

खण्ड 17 को समाप्त पिछले 365 दिनों के दौरान गैर-उपभोग व्यय

| Item Code मद संकेतांक | Item मद | Amount (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) | Item Code मद संकेतांक | Item मद | Amount (Rs. in whole numbers) मूल्य (रु. पूर्णांक में) |
|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 17.1 Subscription, etc. अंशदान इत्यादि | | | 17.2 Taxes कर | | |
| 1000 | Trade union श्रमिक संघ | | 1010 | Road tax मार्ग कर | |
| 1001 | Religious (including priests) धर्म (पुजारी सहित) | | 1011 | Income-tax आयकर | |
| 1002 | Gift and charity उपहार एवं दान | | 1012 | Municipal tax निगम कर | |
| 1003 | Ceremonies समारोह | | 1013 | Chowkidari tax चौकीदारी कर | |
| 1004 | Chance game, Lottery दांव का खेल, लॉटरी | | 1014 | Revenue stamp रसीदी टिकट | |
| | | | 1015 | Professional tax व्यावसायिक कर | |
| 1009 | Subscription अंशदान : Sub-total उप-योग (1000-1005) | | 1019 | Taxes कर : Sub-total उप-योग (1010-1016) | |
| 1005 | Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | 1016 | Others (specify) अन्य (विवरण दें) | |
| 17.3 Interest, Litigation, Remittance ब्याज, मुकदमा, प्रेषण | | | 17.4 Savings and investments बचत तथा निवेश | | |
| 1020 | Interest paid on loan ऋण पर ब्याज का भुगतान | | 1030 | Ornaments-gold, Gold ware सोने के आभूषण - सोने के बर्तन | |
| 1021 | Expenditure on litigation मुकदमें पर व्यय | | 1031 | Ornaments-silver, Silver ware चांदी के आभूषण - चांदी के बर्तन | |
| 1022 | Remittances to dependents आश्रितों को प्रेषित रकम | | 1032 | Ornaments- other precious (specify) आभूषण- अन्य मूल्यवान (विवरण दें) | |
| | | | 1033 | Live stock पशुधन | |
| | | | 1034 | Land and building (including pump, tanks etc.) भूमि एवं भवन (पम्प, टैंक इत्यादि सहित) | |
| 1029 | Interest, Litigation, and Remittance ब्याज, मुकदमे तथा प्रेषण: Sub- total उप योग (1020-1023) | | 1035 | Life insurance premium जीवन बीमा प्रीमियम | |
| 1023 | Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | 1036 | General Insurance premium सामान्य बीमा प्रीमियम | |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | 1037 | Employees Provident fund Contribution कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान | |
| | | 1038 | General Provident fund contribution सामान्य भविष्य निधि अंशदान | |
| 17.5 Debts repaid ऋणों का पुर्नभुगतान | | 1039 | Bank savings बैंक बचत | |
| 1050 | Debts repaid ऋणों का पुर्नभुगतान | 1040 | Postal savings डाक बचत | |
| | | 1041 | Compulsory deposit with the co-operative society सहकारी समिति के पास अनिवार्य जमा पूंजी | |
| | | 1042 | Loan advanced दिया गया ऋण | |
| | | 1043 | Shares and securities अंश और प्रतिभूतियां | |
| | | 1044 | Cash in hand नकद रोकड़ | |
| | | 1045 | Savings in kind वस्तुओं के रूप में बचत | |
| 1059 | Debts repaid ऋण का पुर्नभुगतान: Sub-total उप-योग (1050-1051) | | | |
| 1051 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1049 | Savings and investments बचत तथा निवेश Sub-total उप योग (1030-1046) | |
| | | 1046 Others (specify) अन्य (विवरण दें) | | |

| | |
|--|--|
| Block 17 Total Non-Consumption expenditure during the last 365 days - (Rs.) खण्ड 17 पिछले 365 दिनों के दौरान कुल गैर-उपभोग व्यय - (रु.) (1009+1019+1029+1049+1059) | |
| Adjusted Family Expenditure for 30 days (Rs. P.) 30 दिनों के लिए समायोजित पारिवारिक व्यय (रु. पै.) ((1009+1019+1029+1049+1059)*30/365) | |



Block 18 Purchase source of few important items, value (in Rs.) and quantity in standard unit during the last 30 days ended on

खण्ड 18. को समाप्त पिछले 30 दिनों के दौरान आवश्यक मर्दों की खरीद के स्रोत, मात्रा तथा मानक इकाई का मूल्य (रु. में)

| Item Code मद संकेतांक | Items मर्दों | Unit इकाई | Source स्रोत | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | Fair Price Shop उचित दर दुकान | | Tea Garden Depot घाय बागान डिपो | | Open Market खुला बाजार | | |
| | | | Quantity मात्रा | Value (Rs.) मूल्य (रु.) | Quantity मात्रा | Value (Rs.) मूल्य (रु.) | Quantity मात्रा | Value (Rs.) मूल्य (रु.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Cereals-Rice अनाज-चावल | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 02 | Cereals-Wheat अनाज-गेहूँ | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 03 | Pulses दालें | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 04 | Oil, fats खाद्य तैल, वसा | Litre/Kg लिट्र/कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 05 | Vegetables and fruits फल तथा सब्जियां | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 06 | Milk etc दूध इत्यादि | Litre/Kg लिट्र/कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 07 | Spices etc मसाले इत्यादि | Gms ग्रा. | | | | | | | |
| 08 | Sugar etc. चीनी इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 09 | Tea, coffee etc. चाय, कॉफी इत्यादि | Kg कि.ग्रा. | | | | | | | |
| 10 | Fuels (specify) ईंधन (विवरण दें) | Kg/Litre कि.ग्रा./लिट्र | | | | | | | |
| 11 | Clothing (specify) वस्त्र (विवरण दें) | Metre मीटर | | | | | | | |
| 12 | Medicines (specify)* दवाईयां (विवरण दें)* | | | | | | | | |
| 13 | Stationery (specify)* लेखन-सामग्री (विवरण दें)* | | | | | | | | |
| 14 | Others (specify)* अन्य (विवरण दें)* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Unit may also be specified for these items •इन्हें मर्दों की इकाई का विवरण भी दें।



Block 19. Summary of Income and Expenditure

खण्ड 19. आय एवं व्यय का सारांश

A. Receipts and Expenditure

क. प्राप्तियाँ तथा व्यय

| Sl. No. क्र.सं. | Items मर्दे | Amount राशि | | | % to total expenditure in col.5 कॉलम 5 में कुल व्यय का प्रतिशत |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| | | Unadjusted (Rs. in whole numbers) असमायोजित (रु. पूर्णांक में) | Adjusted for 30 days (Rs.P.) 30 दिनों के लिए समायोजित (रु.पै.) | Adjusted for family members (f/f+e) (Rs.P.) पारिवारिक सदस्यों के लिए समायोजित (एफ/एफ+ई) (रु.पै.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Receipts during the last 30 days (Block 9.1 Total in col. 30) पिछले 30 दिन के दौरान प्राप्तियाँ (खण्ड 9.1 कॉलम 30 में योग) | | | | X |
| 2 | Expenditures during last 30 days पिछले 30 दिनों के दौरान व्यय | | | | |
| | (i) Block 10.1 Total Consumption expenditure of cereals, pulses, milk and milk products, sugar and salt (i) खण्ड 10.1 अनाज, दालें, दूध तथा दूध उत्पाद, अमक तथा चीनी, का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (ii) Block 10.2 Total Consumption expenditure of edible oil, egg, fish and meat, vegetables, fruits, spices, beverages and processed food (ii) खण्ड 10.2 घाय तेल, अण्डे, मत्छी तथा मांस, सब्जियाँ, फल, पेय तथा संशोधित खाद्य का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (iii) Block 11 Total Consumption expenditure of Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants (iii) खण्ड 11 पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक द्रव्यों/पदार्थों का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (iv) Block 12 Total Consumption expenditure of Energy (Fuel, Light and Household appliances) (iv) खण्ड 12 ऊर्जा (ईंधन, प्रकाश तथा घरेलू उपकरण) का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (v) Block 13 Total Consumption expenditure on Clothing, Bedding and Footwear (v) खण्ड 13 वस्त्र, बिस्तर एवं जूती पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (vi) Block 14 Total Consumption expenditure on Education and Medical/Health (Institutional) goods and services (vi) खण्ड 14 शिक्षा तथा चिकित्सा/स्वास्थ्य (संस्थागत) वस्तुएं एवं सेवाओं पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (vii) Block 15 Total Consumption expenditure of Miscellaneous goods and services including Medical/Health (Non-Institutional), Entertainment, Toilet articles and Minor durables-type goods, Other household consumables and Consumer services excluding conveyance, Transport/Conveyance and Housing (Actual and Imputed Rentals) (vii) खण्ड 15 विविध वस्तुओं तथा सेवाओं जिसमें चिकित्सा/स्वास्थ्य (गैर संस्थागत), मनोरंजन, प्रकाशन सामग्री तथा मनु टिकाऊ वस्तुएं, अन्य घरेलू उपकरण तथा उपभोग सेवाएँ, (वातावरण को छोड़कर), परिवहन/वाहन तथा आवास (वास्तविक तथा आरोपित किराया) पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (viii) Block 16 Total Consumption expenditure on purchase and construction (including repair and maintenance) of durable goods like furniture and fixtures, durable goods for recreation, crockery and utensils, cooking and other household appliances, personal transport equipment, therapeutic appliances, other durable personal goods including repair and maintenance of residential building and land for domestic use (viii) खण्ड 16 घरेलू उपयोग हेतु टिकाऊ वस्तुओं जैसे फर्नीचर तथा किचनवेयर के निर्माण और खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित), मनोरंजन हेतु टिकाऊ वस्तुओं, क्रॉकरी एवं बर्तन, खाना पकाने के तथा अन्य घरेलू उपकरण, व्यक्तिगत परिवहन उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, अन्य टिकाऊ व्यक्तिगत वस्तुएं तथा आवासीय भवन व भूमि की मरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (ix) Block 17 Total Non-Consumption expenditure (ix) खण्ड 17 कुल गैर-उपभोग व्यय | | | | |
| | (x) Total expenditure (i) to (ix) कुल व्यय (i) से (ix) तक | X | | | 100% |
| 3 | Balance - Receipts minus Expenditure Amount (Rs.P.) [1-2(x)] शेष - प्राप्त घटाकर व्यय राशि (रु.पै.) [1-2(x)] | X | | | X |
| | Code: संकेतांक Positive घनात्मक -1, Negative ऋणात्मक -2 | X | | | X |



B. Normal Monthly Income & Expenditure ख. सामान्य मासिक आय एवं व्यय

| Sl. No. क्र.सं. | Items मर्दे | Amount राशि (Rs रु.) | | | % to total expenditure in col.5 कॉलम 5 में कुल व्यय का प्रतिशत |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | Unadjusted (Rs. in whole numbers) असमायोजित (रु. पूर्णांक में) | Adjusted for 30 days (Rs.P.) 30 दिनों के लिए समायोजित (रु.पै.) | Adjusted for family members (f/f+e) (Rs.P.) पारिवारिक सदस्यों के लिए समायोजित (एफ/एफ+ई) (रु.पै.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Normal monthly income (Block 9.2 Total in col.21) सामान्य मासिक आय (खण्ड 9.2 कॉलम 21 में कुल) | X | | | X |
| 2 | Normal monthly consumption expenditure सामान्य मासिक उपभोग व्यय | | | | |
| | (i) Block 10.1 Total Consumption expenditure of cereals, pulses, milk and milk products, sugar and salt (i) खण्ड 10.1 अनाज, दालें, दूध एवं दूध उत्पाद, नमक तथा घौनी का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (ii) Block 10.2 Total Consumption expenditure of edible oil, egg, fish and meat, vegetables, fruits, spices, beverages and processed food (ii) खण्ड 10.2 खाद्य तेल, अण्डे, मछली तथा मांस, सब्जियां, फल, पेय तथा संसाधित खाद्य का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (iii) Block 11 Total Consumption expenditure of Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants (iii) खण्ड 11 पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक द्रव्यों का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (iv) Block 12 Total Consumption expenditure of Energy (Fuel, Light and Household appliances) (iv) खण्ड 12 ऊर्जा (ईंधन, प्रकाश तथा घरेलू उपकरण) का कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (v) Block 13 Total Consumption expenditure on Clothing, Bedding and Footwear (v) खण्ड 13 वस्त्र, बिस्तर एवं जूते पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (vi) Block 14 Total Consumption expenditure on Education and Medical/Health (Institutional) goods and services (vi) खण्ड 14 शिक्षा तथा वैदिक/स्वास्थ्य (संस्थागत) वस्तुएं एवं सेवाओं पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (vii) Block 15 Total Consumption expenditure of Miscellaneous goods and services including Medical/Health (Non-Institutional), Entertainment, Toilet articles and Minor durables-type goods, Other household consumables and Consumer services excluding conveyance, Transport/Conveyance and Housing (Actual and Imputed Rentals) (vii) खण्ड 15 विविध वस्तुओं तथा सेवाओं जिसमें चिकित्सा/स्वास्थ्य (नै-संस्थागत), मनोरंजन, प्रसाधन उपकरण तथा न्यु टिकाउ वस्तुएं, अन्य घरेलू उपकरण तथा उपभोग सेवाओं, (पलायत को छोड़कर), परिवहन/वाहन तथा आवास (वास्तविक तथा आर्पित किराया) पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (viii) Block 16 Total Consumption expenditure on purchase and construction (including repair and maintenance) of durable goods like furniture and fixtures, durable goods for recreation, crockery and utensils, cooking and other household appliances, personal transport equipment, therapeutic appliances, other durable personal goods including repair and maintenance of residential building and land for domestic use (viii) खण्ड 16 घरेलू उपयोग हेतु टिकाउ वस्तुओं जैसे कनीघर तथा फिक्सचर के निर्माण और खरीद (मरम्मत एवं रख-रखाव सहित), मनोरंजन हेतु टिकाउ वस्तुओं, हॉकी एवं बर्तन, खाना पकाने के ज़िर तथा अन्य घरेलू उपकरण, व्यक्तिगत परिवहन उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, अन्य टिकाउ व्यक्तिगत वस्तुएं तथा आवासीय भवन व भूमि की मरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल उपभोग व्यय | | | | |
| | (ix) Total normal consumption expenditure (i) to (viii) (ix) कुल सामान्य उपभोग व्यय (i - viii) | X | | | 100% |
| 3 | Surplus or deficit of normal income over normal expenditure Amount (Rs.P.) सामान्य आय से सामान्य व्यय पर बचत अथवा घाटा राशि (रु.पै.) [1-2(ix)] Code: Surplus-1, Deficit-2 संकेतांक: बचत-1, घाटा -2 | X | | | X |
| | | X | | | X |



Block 20. Indebtedness on the date of the survey खण्ड 20. सवक्षण का ताराख पर ऋण भार

| Sr. No. क्र. सं. | Particulars of loan taken लिए गए ऋण का विवरण | Loan-1 ऋण-1 | Loan-2 ऋण-2 | Loan-3 ऋण-3 | Loan-4 ऋण-4 | Loan-5 ऋण-5 | Loan-6 ऋण-6 | Total योग |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Purpose of loan (a) ऋण का उद्देश्य (ऐ) | | | | | | | |
| 02 | Amount of loan (Rs p.) ऋण की राशि (रु.पै.) | | | | | | | |
| | i) Original मूल | | | | | | | |
| | ii) Outstanding बकाया | | | | | | | |
| 03 | Date on which loan was incurred ऋण लेने की तारीख | | | | | | | |
| 04 | Source of loan (b) ऋण का स्रोत (बी) | | | | | | | |
| 05 | Rate of interest percent per Annum (0.00)% वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत (0.00)% | | | | | | | |
| 06 | Nature of security (c) जमानत का स्वरूप (सी) | | | | | | | |
| 07 | Type of instalment (d) किस्त का प्रारूप (डी) | | | | | | | |
| 08 | Amount of instalment (Rs. P.) किस्त की धनराशि (रु. पै.) | | | | | | | |
| Codes संकेतांक :- (a) Purpose of loan (ऐ) ऋण का उद्देश्य :- | | | | | | | | |
| i) On family account :- Festival-1, Marriage-2, Child birth-3, Funeral-4, Ceremonies/rites-5, Sickness-6, Education-7, Un-employment, Lay-off etc.-8, Current deficit including consumption-9, others (specify)-10. | | | | | | | | |
| i) घरेलू मद पर :- त्यौहार-1, विवाह-2, बच्चे का जन्म-3, दाह संस्कार-4, अनुष्ठानों/संस्कार -5, बीमारी-6, शिक्षा-7, बेरोजगारी, छुटनी इत्यादि-8, उपभोग सहित वर्तमान घाटा-9, अन्य (विवरण दें)-10. | | | | | | | | |
| ii) On enterprise and other purpose account :- Building and its repairs-11 Purchase of other assets (land etc.)-12, Cultivation-13, Other family enterprise-14, Inherited debts-15, Payment of Insurance premium-16 others (specify) -17 | | | | | | | | |
| ii) व्यवसाय तथा अन्य उद्देश्य हेतु :- भवन एवं उसकी मरम्मत-11, अन्य संपत्तियों का क्रय (भूमि इत्यादि)-12, कृषि-13, अन्य पारिवारिक उद्यम-14, विरासती कर्ज़-15, बीमा प्रीमियम का भुगतान -16, अन्य (विवरण दें) -17 | | | | | | | | |
| (b) Source of loan :- Provident fund-1, Co-operative credit society-2, Co-operative house building society-3, Employer-4, Money lender-5, Shop keeper-6, Friend and Relative-7, Bank-8, L.I.C-9, Welfare fund-10, Others (specify)-11. | | | | | | | | |
| (बी) ऋण का स्रोत :- भविष्य निधि-1, सहकारी ऋण समिति -2, सहकारी आवास निर्माण समिति -3, नियोक्ता-4, साहूकार-5, दुकानदार-6, मित्र तथा सगे-संबंधी-7, बैंक-8, एलआईसी-9, कल्याण कोष -10, अन्य (विवरण दें)-11 | | | | | | | | |
| (c) Nature of security :- No security-1, Surety of co-members of society-2, Land-3, Ornaments and jewellery-4, other assets (specify)-5, Life insurance policy-6, others (specify)-7. | | | | | | | | |
| (सी) जमानत का स्वरूप :- कोई जमानत नहीं -1, समिति के सह-सदस्यों की जमानत-2, ज़मीन-3, आभूषण तथा गहनें -4, अन्य संपत्तियों (विवरण दें)-5, जीवन बीमा पॉलिसी-6, अन्य (विवरण दें)-7. | | | | | | | | |
| (d) Type of instalment :- Weekly-1, Monthly-2, Quarterly-3, Half-yearly-4, Yearly-5, Not fixed-6, others (specify)-7. | | | | | | | | |
| (डी) किस्त का प्रारूप :- साप्ताहिक-1, मासिक-2, तिमाही-3, अर्धवार्षिक-4, वार्षिक-5, कोई तय नहीं-6, अन्य (विवरण दें)-7 | | | | | | | | |



Block 21. Difficulties experienced and remarks by Field Investigator:

खण्ड 21. क्षेत्र अन्वेषक के द्वारा अनुभव की गई परेशानियों तथा टिप्पणियाँ:

| |
|--|
| |
|--|

Block 22. Comments of Supervisory Officer(s):

खण्ड 22. पर्यवेक्षक अधिकारियों के द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

| |
|--|
| |
|--|



ANNEXURE-IV

भारत सरकार
 GOVERNMENT OF INDIA
 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
 NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE
 श्रमिक वर्गीय पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण 2015-16
 WORKING CLASS FAMILY INCOME AND EXPENDITURE SURVEY 2015-16
 अनुसूची बी (1) मकान किराया सर्वेक्षण
 SCHEDULE B (1) HOUSE RENT SURVEY
 खण्ड (1) पारिवारिक पहचान एवं सूचक का विवरण
 Block (1) IDENTIFICATION AND INFORMANT PARTICULARS

मूल प्रति / Original/*
 द्वितीय प्रति / Duplicate

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 1. | परिक्षेत्र Zone: | राज्य State: | केन्द्र Centre: |
| 2. | Stratum स्तर | | 7. Name of Head of Family/Worker परिवार के मुखिया/श्रमिक का नाम |
| 3. | Sub-sample उप प्रतिदर्श | | 8. Sector to which worker belongs श्रमिक किस क्षेत्र से सम्बन्धित है |
| 4. | Sample Unit I प्रतिदर्श इकाई I | | 9. Name of informant सूचक का नाम |
| 5. | Sample Unit II प्रतिदर्श इकाई II | | 10. Relationship with head of family /worker परिवार के मुखिया/श्रमिक से सम्बन्ध |
| 6. | Reference month संदर्भ मास (i.e. the month in which sample dwelling is to be canvassed) (जिस मास में प्रतिदर्श आवास का सर्वेक्षण करना है) | | 11. Address of establishment and token no./designation/unit/section of worker covered: श्रमिक के प्रतिष्ठान का पता और टोकन नम्बर/पद/इकाई/अनुभाग : |

*Strike out whichever is inapplicable जो लागू न हो उसे काट दीजिए



Block (2) IDENTIFICATION PARTICULARS OF THE DWELLING
खण्ड (2) आवास का परिचयात्मक विवरण

| | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Name of Owner मालिक का नाम | 3. | Location स्थान निर्धारण (a) On the main road (क) मुख्य सड़क पर (Yes-1, No -2) (हां 1. नहीं-2) _____ (b) Four sides of the dwelling (ख) आवास की चौहद्दी |
| 2. | Address:-पता (a) *Flat/Suit No. _____ फ्लैट/सूट संख्या (b) Floor No. (0,1 etc) _____ तल संख्या (0,1 इत्यादि) _____ (c) Premises No. _____ परिसर संख्या (d) Premises Name _____ परिसर का नाम (e) Municipal Ward No. _____ नगरपालिका वार्ड संख्या (f) Post Office _____ डाक घर (g) Name of The Road /Street/Lane* सड़क/गली/कूचा का नाम* _____ _____ _____ _____ _____ | 4. | Building type (chawl-bustee-1, flat-2, independent house-3, others-4). <input type="text"/> मकान प्रकार (चाल बस्ती-1, फ्लैट-2, अलग मकान-3, अन्य-4) (Chawl/Bustee is a cluster of dwellings with common facilities generally located in slum areas) (चाल/बस्ती आवासों का वह समूह है, जिन में सामूहिक सुविधायें होती हैं, और वह प्रायः स्लम क्षेत्र में स्थित होती हैं) |
| | | 5. | Other particulars अन्य विवरण : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ |

*Strike out whichever is inapplicable जो लागू न हो उसे काट दीजिए



Block (3) PARTICULARS OF THE DWELLING खण्ड (3) आवास का विवरण

1. Number of rooms etc. in the dwelling (if shared with occupant of other dwellings, then a remark 'shared' may be indicated against the relevant entry). आवास के कमरों की संख्या इत्यादि (यदि दूसरे निवासियों के साथ साझेदारी में हो तो संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति 'साझेदारी' निर्दिष्ट करें)

| Particulars विवरण | | No. संख्या | Floor Space (in sq.m.) तल क्षेत्र (वर्गमीटर) @ | Particulars विवरण | | No. संख्या | Floor Space (in sq.m.) तल क्षेत्र (वर्गमीटर) @ |
|-------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------|---|------------|---|
| (a) (क) | Living Rooms आवास कक्ष | | | (e) (इ) | Latrines शौचालय | | |
| (b) (ख) | Kitchen Rooms रसोई घर के कमरे | | | (f) (फ) | Any other rooms कोई अन्य कमरे | | |
| (c) (ग) | Store Rooms झंडार कक्ष | | | (g) (घ) | Covered Verandah ढका हुआ बरामदा | | |
| (d) (घ) | Bath Rooms स्नानघर | | | (h) (ज) | Uncovered Verandah बिना ढका हुआ बरामदा | | |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Courtyard (no courtyard-1, if courtyard: no access-2, independent-3, not independent-4) आँगन (आँगन नहीं-1, यदि आँगन है: प्रवेश मार्ग नहीं-2, स्वतंत्र-3, स्वतंत्र नहीं -4) | |
| 3. | Drinking water supply: (outside dwelling-1, outside but within premises-2, if inside : independent - 3 not independent - 4) पेय जल आपूर्ति: (आवास के बाहर-1, आवास के बाहर परंतु परिसर के अंदर-2, यदि अंदर; स्वतंत्र-3; स्वतंत्र नहीं-4) | |
| 4. | Drinking water sources: (tap-1,well with hand- pump-2,well without hand -pump-3, tubewell-4, hand-pump-5, others-6) पेय जल स्रोत: (नल-1, कुआँ हस्त चलित पम्प-2, कुआँ बिना हस्त चलित पम्प-3, नलकूप-4, हस्त चलित पम्प-5, अन्य-6) | |
| 5. | Latrine: (within dwelling-1, outside dwelling but within premises-2, outside premises-3, no latrine-4) शौचालय: (आवास के अन्दर-1, आवास के बाहर परंतु परिसर के अंदर-2, परिसर के बाहर-3, शौचालय नहीं-4) | |
| 6. | Whether the dwelling is electrified? (Yes-1.No-2) क्या आवास विद्युत युक्त है (हां-1,नहीं-2) | |
| 7. | Particulars of furniture, electric fan etc., if provided by landlord फर्नीचर, विद्युत पंखा इत्यादि का विवरण यदि मकान मालिक द्वारा दिया गया हो | |
| 8. | Whether any change has occurred in the above characteristics(1-7) since the date of last survey, if yes, please give details क्या पूर्व सर्वेक्षण की तिथि के बाद उपरोक्त (1-7) अभिलक्षणों में कोई बदलाव हुआ, यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें _____ _____ _____ | |

@ 10.76 sq. ft=1 sq.mt 10.76 वर्गफीट=1 वर्गमीटर



Block (4) HOUSE RENT AND PARTICULARS OF TENANCY खण्ड (4) मकान का किराया तथा किराएदारी का विवरण

| | | |
|--|------------------------|--|
| I * A. Whether the dwelling is rent free? क) क्या आवास किराया मुक्त है? | (Yes/No) (हां/नहीं) | |
| * B. Whether the dwelling is self-owned? ख) क्या आवास स्वयं का है? | (Yes/No) (हां/नहीं) | |
| *(if yes against A or B, please collect monthly rent for a comparable rented dwelling in the same building or nearby locality and enter here) यदि क) या ख) के सामने हाँ है तो कृपया तुलनीय आवास (उसी भवन में या पास के स्थान) का मासिक किराया भरें | | |

C. Average monthly rent payable to landlord/employer for the dwelling Rs. P. _____
आवास के लिए मकान मालिक/नियोक्ता को मासिक देय औसत किराया रु.पै. _____

| January जनवरी, 20.. | February फरवरी, 20.. | March मार्च, 20.. | April अप्रैल, 20.. | May मई, 20.. | June जून, 20.. |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| July जुलाई, 20.. | August अगस्त, 20.. | September सितम्बर, 20.. | October अक्टूबर, 20.. | November नवम्बर, 20.. | December दिसम्बर, 20.. |
| | | | | | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| D. | In case the dwelling is provided by the employer. then please mention the House Rent Allowance lost by the worker. क्या आवास नियोक्ता द्वारा दिया गया है तो उस स्थिति में कृपया श्रमिक का आवास किराया भत्ता जो उसे नहीं मिला यहाँ अंकित करें | Rs. P. |
| E. | Whether the rent of dwelling is concessional? क्या आवास का किराया रियायती है? | Yes/No हां/नहीं |

| 2. | Whether following charges included in rent? क्या निम्नलिखित प्रभार किराए में शामिल हैं? | Yes-1 No-2 हाँ -1 नहीं-2 | If 1 in col.(2) average monthly charges (Rs. P.) यदि कॉलम (2) में संकेतांक 1 है तो औसत मासिक प्रभार (रु.पै.) | 3. | Whether separate charges for the following payable by tenant other than rent क्या किराएदार को किराए के अलावा निम्नलिखित प्रभार देय हैं | Yes-1 No-2 हाँ -1 नहीं-2 | If 1 in col.(2) average monthly charges (Rs.P.) यदि कॉलम (2) में संकेतांक 1 है तो औसत मासिक प्रभार (रु.पै.) |
|------------|--|-----------------------------------|---|------------|---|-----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
| (a) (क) | Electricity charges विद्युत प्रभार | | | (a) (क) | Electricity charges विद्युत प्रभार | | |
| (b) (ख) | Water charges जल प्रभार | | | (b) (ख) | Water charges जल प्रभार | | |
| (c) (ग) | Sweeper charges मेहतर प्रभार | | | (c) (ग) | Sweeper charges मेहतर प्रभार | | |
| (d) (घ) | Any other charges (specify)+ कोई अन्य प्रभार (विवरण दें) + | | | (d) (घ) | Taxes (municipal, corporation, road, etc.) कर (नगरपालिका, सड़क, इत्यादि) | | |
| | | | | (e) (ङ) | Any other charges (chowkidar etc.) कोई अन्य प्रभार (चौकीदार इत्यादि) | | |

+ Charges Other than those covered in item no. 4 of Block (4) on next page

+ आगामी प्रष्ठ पर खण्ड (4) की मद सं.4 में शामिल खर्चों को छोड़कर अन्य खर्च



| 4. Particulars of repairs (excluding improvements, additions which alter the original quality of the dwelling) charges incurred by the tenant(s). किराएदारों द्वारा मरम्मत(संशोधन, परिवर्धन जो आवास के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर दे, को छोड़कर) पर व्यय का विवरण | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | Repairs मरम्मत | Periodicity of repairs: Biennial-1, Annual-2, Half- yearly-3, No regular periodicity- 4, Others (specify)-5 मरम्मत की अवधि : द्विवार्षिक-1, वार्षिक-2, अर्धवार्षिक-3, अनियमित- अवधि-4, अन्य (विवरण दें)-5 | Month and year during which repairs were last carried out पिछली मरम्मत होने का मास तथा वर्ष | Total amount spent on repairs (Rs.) मरम्मत पर खर्च हुई कुल धन राशि (रु) | Average monthly expenses (Rs.P.) औसत मासिक व्यय (रु.पै.)** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (a) (क) | White-washing सफेदी कराना | | | | |
| (b) (ख) | Repairs of : मरम्मत : Doors & windows दरवाजे एवं खिड़कियाँ | | | | |
| (i) | | | | | |
| (ii) | Flooring, ceiling and walls फर्श, भीतरी छत तथा दीवारें | | | | |
| (iii) | Roof छत | | | | |
| (iv) | Any other part of the dwelling (specify) आवास का कोई अन्य भाग (विवरण दें) | | | | |
| (c) (ग) | Painting etc. रंग रोगन इत्यादि | | | | |

** The figure in col.(5) is to be derived by dividing figures in col.(4) by the total number of months in the period indicated in col.(2) in case of codes 1, 2, 3 & 5 and by number of months calculated with the help of col.3 in case of code 4.

** कॉलम 4 में दी गई प्रविष्टि को कॉलम 2 में दी गई अवधि के कुल महीनों से भाग दे कर कॉलम 5 में भरें यदि कोड 1,2,3 तथा 5 हो और यदि कोड 4 हो तो कॉलम 3 में दिखाए गए कुल महीनों की सहायता से भरें।



| 5. Particulars of Tenancy in the Dwelling आवास में किरायेदारी का विवरण | | | |
|--|--|--|---|
| Serial No. क्रम संख्या | Category श्रेणी (Tenant किराएदार-1 Sub-tenant उप किराएदार-2) | Tenancy directly under किराएदारी सीधे अन्तर्गत (owner of house, मकान मालिक-1 any other tenant, कोई अन्य किराएदार-2 any other agent कोई अन्य अभिकर्ता-3) | Period of residence in the dwelling up to the date of survey (Number of Months) सर्वेक्षण तिथि तक आवास में रहने की अवधि (माह में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Total number of residents in the dwelling:- आवास में रहने वालों की कुल संख्या (a) Adults (क) व्यस्क----- (b) Children (ख) बच्चे----- | | | |
| 7. Rent payable to the landlord for the same dwelling on the last date of survey (i.e. 6 months prior to the reference month) पिछले सर्वेक्षण तिथि पर इसी आवास का मकान मालिक को देय किराया (जैसा कि संदर्भ मास से 6 मास पूर्व) Rs----- P----- रु.....पै..... | | | |
| 8. If the rent has changed since the last date of survey, specify reasons, if any, for the same and furnish details यदि सर्वेक्षण तिथि से पूर्व किराया बदल गया है तो उसके लिए यदि कोई विशेष कारण हो, विवरण दें। _____ | | | |
| Block (5) DETAILS OF INVESTIGATION AND SUPERVISION खण्ड (5) जाँच एवं पर्यवेक्षण का विवरण | | | |
| (A) Field Investigator (क) क्षेत्र अन्वेषक | | (B) Inspecting Officer (ख) निरीक्षण अधिकारी | |
| 1. Name नाम | | 1. Name नाम | |
| 2. Date of survey सर्वेक्षण तिथि | | 2. Date of inspection निरीक्षण तिथि | |
| 3. Time taken लिया गया समय Interview साक्षात्कार -----0.0 hrs. घंटे Others अन्य -----0.0 hrs. घंटे | | 3. Time taken for Inspection : निरीक्षण हेतु लिया गया समय : -----0.0 hrs. घंटे | |
| 4. Date of dispatch of schedule : अनुसूची प्रेषण की तिथि : | | 4. Date of receipt प्राप्ति की तिथि:- | |
| 5. Signature हस्ताक्षर : _____ | | 5. Date of scrutiny संवीक्षा की तिथि:- | |
| | | 6. Time taken for Scrutiny : संवीक्षा हेतु लिया गया समय :-----0.0 hrs. घंटे | |
| | | 7. Date of dispatch of schedule : अनुसूची प्रेषण की तिथि : | |
| | | 8. Signature हस्ताक्षर : _____ | |



Annexure-V
Centre-wise Group Weights of New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers on Base 2016=100
vis-a-vis 2001=100

| Centre Name | Ahmedabad | | Alwar | | Bhavnagar | | Bhilai | |
|--|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group* | 47.08 | 38.87 | New centre | 42.93 | 49.72 | 40.53 | 51.35 | 29.45 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 1.64 | 1.85 | New centre | 1.65 | 2.56 | 1.99 | 2.98 | 2.08 |
| Fuel & Light Group | 6.88 | 6.34 | New centre | 7.02 | 6.27 | 6.37 | 6.16 | 4.71 |
| Clothing & Footwear Group** | 8.17 | 5.11 | New centre | 6.77 | 4.94 | 5.72 | 4.77 | 5.78 |
| Housing Group | 17.59 | 21.76 | New centre | 19.66 | 20.90 | 18.18 | 11.43 | 15.21 |
| Miscellaneous Group | 18.64 | 26.07 | New centre | 21.97 | 15.61 | 27.21 | 23.31 | 42.77 |
| Total | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Bhilwara | | Bhopal | | Chhindwara | | Dadra & Nagar Haveli | |
|--|----------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 49.90 | 40.02 | 41.47 | 31.46 | 41.86 | 36.99 | New centre | 43.33 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 4.31 | 2.14 | 2.72 | 1.25 | 4.11 | 4.19 | New centre | 4.04 |
| Fuel & Light Group | 6.24 | 5.41 | 5.99 | 6.26 | 10.70 | 6.29 | New centre | 4.63 |
| Clothing & Footwear Group | 6.70 | 6.31 | 5.13 | 4.75 | 6.73 | 6.79 | New centre | 9.05 |
| Housing Group | 13.25 | 15.99 | 17.99 | 22.68 | 9.08 | 10.40 | New centre | 15.48 |
| Miscellaneous Group | 19.60 | 30.13 | 26.70 | 33.60 | 27.52 | 35.34 | New centre | 23.47 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |



| Centre Name | Goa | | Indore | | Jabalpur | | Jaipur | |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 44.01 | 41.05 | 41.26 | 37.10 | 37.62 | 35.43 | 43.82 | 32.31 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 2.09 | 0.42 | 3.01 | 1.01 | 1.67 | 1.57 | 2.76 | 1.50 |
| Fuel & Light Group | 4.38 | 4.22 | 7.53 | 7.81 | 6.62 | 6.32 | 5.65 | 6.83 |
| Clothing & Footwear Group | 7.47 | 6.93 | 5.43 | 4.32 | 6.44 | 7.44 | 6.11 | 4.66 |
| Housing Group | 15.70 | 19.55 | 18.47 | 27.51 | 14.91 | 13.55 | 21.54 | 21.27 |
| Miscellaneous Group | 26.35 | 27.83 | 24.30 | 22.25 | 32.74 | 35.69 | 20.12 | 33.43 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Korba | | Mumbai | | Nagpur | | Nasik | |
|--|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 30.20 | 48.88 | 37.91 | 43.05 | 35.44 | 41.43 | 40.63 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 1.98 | 1.29 | 0.61 | 2.32 | 1.82 | 1.34 | 1.41 |
| Fuel & Light Group | New centre | 4.69 | 6.98 | 5.33 | 6.98 | 7.16 | 5.02 | 4.48 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 9.36 | 5.16 | 5.03 | 6.66 | 3.83 | 6.63 | 4.74 |
| Housing Group | New centre | 12.73 | 13.26 | 26.48 | 18.40 | 19.29 | 20.04 | 22.08 |
| Miscellaneous Group | New centre | 41.04 | 24.43 | 24.64 | 22.59 | 32.46 | 25.54 | 26.66 |
| Total | - | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Pune | | Raipur | | Rajkot | | Solapur | |
|--|--------|--------|------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 39.77 | 35.14 | New centre | 34.47 | 43.74 | 40.55 | 54.74 | 43.52 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 1.32 | 0.64 | New centre | 3.15 | 3.08 | 1.81 | 2.15 | 2.38 |
| Fuel & Light Group | 4.35 | 4.56 | New centre | 5.86 | 6.49 | 7.53 | 6.60 | 7.32 |
| Clothing & Footwear Group | 6.49 | 4.91 | New centre | 10.09 | 3.46 | 3.66 | 5.96 | 7.74 |
| Housing Group | 17.47 | 22.43 | New centre | 17.51 | 23.15 | 18.93 | 11.03 | 14.89 |
| Miscellaneous Group | 30.60 | 32.32 | New centre | 28.92 | 20.08 | 27.52 | 19.52 | 24.15 |
| Total | 100.00 | 100.00 | - | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Surat | | Thane | | Vadodara | | Chennai | |
|--|--------|--------|------------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 46.81 | 38.08 | New centre | 37.74 | 44.52 | 35.07 | 44.12 | 39.61 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 0.54 | 0.81 | New centre | 1.13 | 0.97 | 0.53 | 1.80 | 0.75 |
| Fuel & Light Group | 9.03 | 5.64 | New centre | 5.98 | 6.56 | 5.89 | 6.64 | 3.94 |
| Clothing & Footwear Group | 5.42 | 9.17 | New centre | 5.27 | 6.14 | 6.27 | 4.71 | 4.79 |
| Housing Group | 19.93 | 17.46 | New centre | 20.12 | 17.32 | 18.91 | 18.39 | 21.55 |
| Miscellaneous Group | 18.27 | 28.84 | New centre | 29.76 | 24.49 | 33.33 | 24.34 | 29.36 |
| Total | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Chikmagalur | | Hubali-Dharwad | | Nellore | | Visakhapatnam | |
|--|---------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| | Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 41.07 | 49.51 | 39.80 | New centre | 42.84 | 39.90 | 31.45 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 2.31 | 3.01 | 2.56 | New centre | 1.93 | 3.07 | 0.60 |
| Fuel & Light Group | New centre | 5.49 | 6.23 | 4.51 | New centre | 3.58 | 4.74 | 3.73 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 8.36 | 5.32 | 5.33 | New centre | 5.99 | 7.79 | 6.98 |
| Housing Group | New centre | 18.87 | 13.40 | 19.01 | New centre | 13.96 | 12.66 | 16.02 |
| Miscellaneous Group | New centre | 23.90 | 22.53 | 28.79 | New centre | 31.70 | 31.84 | 41.22 |
| Total | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Bengaluru | | Belgaum | | Coimbatore | | Coonoor | |
|--|---------------------------------------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| | Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 45.53 | 35.04 | 51.76 | 42.73 | 43.76 | 40.09 | 47.34 | 44.90 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 1.55 | 2.93 | 0.73 | 1.72 | 2.01 |
| Fuel & Light Group | 6.76 | 3.44 | 7.31 | 5.10 | 4.91 | 4.58 | 7.06 | 5.89 |
| Clothing & Footwear Group | 6.28 | 6.31 | 5.27 | 5.88 | 7.60 | 5.58 | 8.18 | 5.63 |
| Housing Group | 19.78 | 25.40 | 10.63 | 15.16 | 16.85 | 21.85 | 11.05 | 15.42 |
| Miscellaneous Group | 19.35 | 26.81 | 22.63 | 29.58 | 23.95 | 27.17 | 24.65 | 26.15 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Davangere | | Ernakulam | | Guntur | | Hyderabad | |
|--|------------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 42.00 | 37.99 | 31.82 | 55.96 | 41.39 | 41.80 | 38.03 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 1.95 | 2.22 | 0.62 | 1.37 | 1.47 | 2.00 | 2.14 |
| Fuel & Light Group | New centre | 5.35 | 4.15 | 3.78 | 8.80 | 4.51 | 5.50 | 3.88 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 5.68 | 8.38 | 5.06 | 4.63 | 6.21 | 6.44 | 7.50 |
| Housing Group | New centre | 16.98 | 15.73 | 22.23 | 15.54 | 17.16 | 17.85 | 19.50 |
| Miscellaneous Group | New centre | 28.04 | 31.53 | 36.49 | 13.70 | 29.26 | 26.41 | 28.95 |
| Total | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Idukki | | Kollam(Quilon) | | Madurai | | Mancherial | |
|--|------------|--------|----------------|--------|---------|--------|------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 48.08 | 52.50 | 39.64 | 48.56 | 44.85 | New centre | 36.13 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 1.67 | 3.75 | 2.31 | 2.21 | 4.01 | New centre | 6.91 |
| Fuel & Light Group | New centre | 5.57 | 4.89 | 5.59 | 5.79 | 3.69 | New centre | 3.23 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 7.12 | 5.05 | 5.01 | 6.14 | 5.52 | New centre | 6.81 |
| Housing Group | New centre | 9.51 | 12.73 | 18.21 | 16.17 | 12.88 | New centre | 7.51 |
| Miscellaneous Group | New centre | 28.05 | 21.08 | 29.24 | 21.13 | 29.05 | New centre | 39.41 |
| Total | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |



| Centre Name | Mercara | | Mysore | | Puducherry | | Salem | |
|--|---------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 55.41 | 43.42 | 48.05 | 32.51 | 44.14 | 42.03 | 56.18 | 43.72 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 6.24 | 6.69 | 1.28 | 1.67 | 2.84 | 1.13 | 2.12 | 1.55 |
| Fuel & Light Group | 8.48 | 4.84 | 6.89 | 4.33 | 3.81 | 4.07 | 5.02 | 4.55 |
| Clothing & Footwear Group | 6.92 | 6.93 | 5.18 | 6.13 | 9.31 | 5.47 | 6.04 | 4.29 |
| Housing Group | 10.13 | 17.20 | 15.10 | 23.55 | 11.08 | 13.97 | 10.49 | 15.52 |
| Miscellaneous Group | 12.82 | 20.92 | 23.50 | 31.81 | 28.82 | 33.33 | 20.15 | 30.37 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Tirunelveli | | Virudhunagar | | Warangal | | Darjeeling | |
|--|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 42.12 | New centre | 51.13 | 47.67 | 38.58 | 57.68 | 48.12 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 1.46 | New centre | 4.07 | 2.19 | 2.86 | 4.51 | 1.38 |
| Fuel & Light Group | New centre | 5.07 | New centre | 4.34 | 6.52 | 3.47 | 7.78 | 10.36 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 6.19 | New centre | 5.70 | 9.10 | 7.47 | 12.52 | 6.22 |
| Housing Group | New centre | 19.95 | New centre | 8.25 | 16.06 | 13.37 | 6.60 | 20.19 |
| Miscellaneous Group | New centre | 25.21 | New centre | 26.51 | 18.46 | 34.25 | 10.91 | 13.73 |
| Total | - | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Guwahati | | Jalpaiguri | | Keonjhar | | Numaligarh-Golaghat | |
|--|----------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Food & Beverages Group | 43.72 | 48.00 | 60.80 | 48.47 | New centre | 42.30 | New centre | 51.13 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 2.81 | 3.11 | 5.36 | 1.63 | New centre | 3.42 | New centre | 4.08 |
| Fuel & Light Group | 6.56 | 5.57 | 8.26 | 10.31 | New centre | 5.27 | New centre | 10.14 |
| Clothing & Footwear Group | 7.48 | 3.24 | 6.57 | 5.66 | New centre | 5.36 | New centre | 5.61 |
| Housing Group | 21.42 | 18.62 | 7.53 | 22.08 | New centre | 14.59 | New centre | 7.76 |
| Miscellaneous Group | 18.01 | 21.46 | 11.48 | 11.85 | New centre | 29.06 | New centre | 21.28 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |

| Centre Name | Sibsagar | | Cuttack | | Doom-Tinsukia | | Durgapur | |
|--|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|----------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Food & Beverages Group | New centre | 52.39 | New centre | 42.85 | 64.48 | 54.84 | 44.81 | 37.69 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 4.41 | New centre | 3.99 | 4.73 | 5.71 | 2.32 | 1.38 |
| Fuel & Light Group | New centre | 6.71 | New centre | 4.51 | 5.79 | 4.51 | 6.54 | 6.08 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 8.34 | New centre | 5.38 | 7.04 | 5.49 | 7.10 | 7.06 |
| Housing Group | New centre | 5.10 | New centre | 15.96 | 9.07 | 6.75 | 11.18 | 18.70 |
| Miscellaneous Group | New centre | 23.05 | New centre | 27.31 | 8.89 | 22.70 | 28.05 | 29.09 |
| Total | - | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Howrah | | Kolkata | | Raniganj | | Shillong | |
|--|--------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 48.09 | 40.17 | 48.76 | 42.58 | 53.50 | 28.11 | New centre | 39.60 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 2.09 | 1.22 | 2.65 | 1.39 | 4.88 | 4.32 | New centre | 3.96 |
| Fuel & Light Group | 8.86 | 7.73 | 7.45 | 7.95 | 8.58 | 4.88 | New centre | 7.10 |
| Clothing & Footwear Group | 8.17 | 5.54 | 6.38 | 4.75 | 6.58 | 10.39 | New centre | 4.86 |
| Housing Group | 11.15 | 18.61 | 13.79 | 16.50 | 8.23 | 10.08 | New centre | 16.42 |
| Miscellaneous Group | 21.64 | 26.73 | 20.97 | 26.83 | 18.23 | 42.22 | New centre | 28.06 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |

| Centre Name | AngulTalcher | | Tripura | | Haldia | | BiswanathChariali | |
|--|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 46.97 | 42.35 | 61.04 | 55.44 | 36.61 | 36.00 | New centre | 56.13 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 2.60 | 3.21 | 2.69 | 8.33 | 1.82 | 1.36 | New centre | 5.93 |
| Fuel & Light Group | 6.45 | 5.09 | 6.90 | 7.80 | 3.86 | 5.45 | New centre | 10.21 |
| Clothing & Footwear Group | 6.72 | 5.24 | 7.93 | 2.02 | 6.12 | 5.99 | New centre | 6.39 |
| Housing Group | 13.66 | 13.23 | 8.43 | 9.15 | 30.91 | 17.38 | New centre | 6.35 |
| Miscellaneous Group | 23.60 | 30.88 | 13.01 | 17.26 | 20.68 | 33.82 | New centre | 14.99 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |



| Centre Name | Ghaziabad | | Gurugram | | Himachal Pradesh | | Jalandhar | |
|--|-----------|--------|------------|-------|------------------|--------|-----------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 38.21 | 39.98 | New centre | 41.03 | 46.17 | 39.31 | 39.37 | 46.22 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 1.06 | 0.64 | New centre | 0.57 | 2.42 | 3.02 | 2.20 | 1.10 |
| Fuel & Light Group | 7.53 | 5.99 | New centre | 5.75 | 5.25 | 6.98 | 8.06 | 9.62 |
| Clothing & Footwear Group | 5.03 | 7.52 | New centre | 8.36 | 8.58 | 8.51 | 6.00 | 5.45 |
| Housing Group | 20.95 | 18.43 | New centre | 19.15 | 15.98 | 19.97 | 18.80 | 16.56 |
| Miscellaneous Group | 27.22 | 27.44 | New centre | 25.14 | 21.60 | 22.21 | 25.57 | 21.05 |
| Total | 100.00 | 100.00 | - | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Centre Name | Jammu & Kashmir (Srinagar) | | Jamshedpur | | Kanpur | | Lucknow | |
|--|----------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 45.61 | 40.03 | 42.02 | 35.65 | 41.31 | 35.03 | 40.80 | 41.11 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 1.32 | 1.14 | 0.96 | 0.65 | 1.77 | 1.36 | 1.81 | 0.95 |
| Fuel & Light Group | 7.10 | 6.55 | 5.80 | 5.11 | 6.75 | 7.51 | 5.49 | 6.07 |
| Clothing & Footwear Group | 6.97 | 6.24 | 7.55 | 5.80 | 7.34 | 4.97 | 7.59 | 5.20 |
| Housing Group | 17.14 | 18.67 | 17.37 | 17.49 | 14.96 | 17.13 | 15.59 | 17.06 |
| Miscellaneous Group | 21.86 | 27.37 | 26.30 | 35.30 | 27.87 | 34.00 | 28.72 | 29.61 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



| Centre Name | Ludhiana | | Munger-Jamalpur | | Patna | | Ramgarh | |
|--|----------|--------|-----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | 45.37 | 45.12 | 53.16 | 39.14 | New centre | 38.95 | New centre | 41.51 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | 0.88 | 2.49 | 1.74 | 1.08 | New centre | 0.33 | New centre | 2.95 |
| Fuel & Light Group | 11.00 | 7.67 | 6.26 | 3.67 | New centre | 5.60 | New centre | 3.32 |
| Clothing & Footwear Group | 5.77 | 5.43 | 8.04 | 8.25 | New centre | 4.35 | New centre | 6.82 |
| Housing Group | 20.21 | 16.81 | 8.37 | 9.87 | New centre | 18.55 | New centre | 10.69 |
| Miscellaneous Group | 16.77 | 22.48 | 22.43 | 37.99 | New centre | 32.22 | New centre | 34.71 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |

| Centre Name | Sangrur | | U. S. Nagar | | Varanasi | | Yamunanagar | |
|--|------------|--------|-------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| Group wise Weights 2001 & 2016 series | | | | | | | | |
| Food & Beverages Group | New centre | 40.41 | New centre | 38.06 | 40.90 | 39.70 | 46.66 | 39.63 |
| Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Group | New centre | 1.08 | New centre | 2.80 | 1.56 | 0.68 | 1.91 | 1.12 |
| Fuel & Light Group | New centre | 10.43 | New centre | 6.41 | 5.04 | 5.38 | 8.75 | 8.00 |
| Clothing & Footwear Group | New centre | 4.35 | New centre | 5.07 | 9.84 | 4.96 | 5.76 | 4.74 |
| Housing Group | New centre | 18.78 | New centre | 18.87 | 16.77 | 17.98 | 13.84 | 16.67 |
| Miscellaneous Group | New centre | 24.95 | New centre | 28.79 | 25.89 | 31.30 | 23.08 | 29.84 |
| Total | - | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Notes:

- (i) (*) In old series of CPI-IW(2001=100) Food & Beverages group was Food Group.
(ii) (**) In old series of CPI-IW(2001=100) Clothing & Footwear Group was Clothing, Bedding & Footwear Group.

**Annexure-VI****Centre-Wise List of Markets Under New Series of CPI-IW (2016=100)**

| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | ANDHRA PRADESH | 1. Vishakhapatnam | 2 | 1. Purna | | |
| | | | | 2. Gajuwaka | | |
| | | 2. Nellore | 1 | 1. Trunk Road Market | | |
| | | 3. Guntur | 1 | 1. Guntur Market | | |
| 2 | TELANGANA | 1. Hyderabad | 4 | 1. Monda | | |
| | | | | 2. Kukatpalli Houring Board Colony | | |
| | | | | 3. Kushaiguda | | |
| | | | | 4. Kothapet | | |
| | | | | 2. Manchiryal | 1 | 1. Manchiryal |
| | | | | 3. Warangal | 2 | 1. Kazipet |
| | | | | | | 2. Warangal |
| | | | | | | |
| 3 | ASSAM | 7. Doom-Dooma Tinsukia | 2 | 1. Doom-Dooma | | |
| | | | | 2. Tinsukia (Daily Bazar) | | |
| | | 8. Labac Silchar | 3 | 1. Pilapool | | |
| | | | | 2. Kalain | | |
| | | | | 3. Fatak Bazar | | |
| | | 9. Sibsagar | 3 | 1. Central Market | | |
| | | | | 2. Nazira | | |
| | | | | 3. Demow | | |
| | | 10. Numaligarh-Golaghat | 2 | 1. Golaghat | | |
| | | | | 2. Bokaghat | | |
| | | 11. Biswanath Chariali | 1 | 1. Biswanath Chariali | | |
| 12. Guwahati | 4 | 1. Paltan Bazar | | | | |
| | | 2. Ganesh Guri | | | | |
| | | 3. Bamumi Maidan (Colony Bazar) | | | | |
| | | 4. Pandu Bazar | | | | |
| 4 | BIHAR | 13. Patna | 3 | 1. Machratha Market (Patna City) | | |
| | | | | 2. Meethapur-Station Road Market | | |
| | | | | 3. Danapur Market | | |
| | | 14. Munger Jamalpur | 2 | 1. Munger | | |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 2. Jamalpur |
| 5 | GOA | 15. Goa | 5 | 1. Margao |
| | | | | 2. Vasco |
| | | | | 3. Ponda |
| | | | | 4. Mapusa |
| | | | | 5. Panjim |
| 6 | GUJARAT | 16. Surat | 5 | 1. Navsari Bazar |
| | | | | 2. Udhna Station Road, Main Road |
| | | | | 3. Varchna Road |
| | | | | 4. Limbyat |
| | | | | 5. Pandesara Housing |
| | | 17. Ahmedabad | 10 | 1. BehrampurJamalpur |
| | | | | 2. RakhialGomtipur |
| | | | | 3. Khokhara |
| | | | | 4. Saraspur |
| | | | | 5. Isanpur |
| | | | | 6. Bapunagar |
| | | | | 7. Asarwa |
| | | | | 8. Sabarmati |
| | | | | 9. Madhupura |
| | | | | 10. Naroda |
| | | 18. Vadodara | 4 | 1. Chaukhandi |
| | | | | 2. Kadak Bazar |
| | | | | 3. Tarsali |
| | | | | 4. Ajwa Road |
| | | 19. Rajkot | 3 | 1. BediPada |
| | | | | 2. Gundawadi |
| | | | | 3. Manhar Vijay Plot |
| | | 20. Bhavnagar | 2 | 1. VadvaAmbaChowk |
| | | | | 2. Karchaliya Para Khargate |
| 7 | HARYANA | 21. Faridabad | 4 | 1. Ballabgarh |
| | | | | 2. Old Faridabad |
| | | | | 3. SaraiKhawaja |
| | | | | 4. New Industrial Township |
| | | 22. Gurgaon | 3 | 1. Sadar Bazar |
| | | | | 2. Manesar |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | 3. Dundahera |
| | | 23. Yamunanagar | 2 | 1. Yamuna Nagar |
| | | | | 2. Jagdari |
| 8 | HIMACHAL PRADESH | 24. Himachal Pradesh | 10 | 1. Ponta Sahib |
| | | | | 2. Solan |
| | | | | 3. Parwanoo |
| | | | | 4. Baddi |
| | | | | 5. Gagret |
| | | | | 6. Amb |
| | | | | 7. Reckong PEO |
| | | | | 8. Bhunter Shamshi/Kullu |
| | | | | 9. Shimla |
| | | | | 10. Chamba |
| 9 | KARNATAKA | 25. Bengaluru | 7 | 1. K.R. Market |
| | | | | 2. Kengeri Market |
| | | | | 3. Yashawanthpur Market |
| | | | | 4. Madivala Market |
| | | | | 5. T. Dasarahalli Market |
| | | | | 6. Ramamurthy Nagara Market |
| | | | | 7. Yelahanka Market |
| | | 26. Belgaum | 2 | 1. Shahapur |
| | | | | 2. Raviwarpeth |
| | | 27. Mysore | 2 | 1. Devaraja Urs |
| | | | | 2. Hebbal (Surya Bakery Circle) |
| | | 28. Hubli-Dharwad | 2 | 1. Dharwad (Nehru Market) |
| | | | | 2. Hubli (MG Market) |
| | | 29. Mercara- Kodagu | 3 | 1. Madikeri |
| | | | | 2. Somwarpeth |
| | | | | 3. Virajpet |
| | | 30. Davanagere | 2 | 1. K.R. Market |
| | | | | 2. Harihara |
| | | 31. Chikmangalur | 1 | 1. Chikmangalur City Market |
| 10 | KERALA | 32. Idukki(P) | 2 | 1. Elapara |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | 2. Vandiperiyar |
| | | 33. Kollam | 1 | 1. Big Bazar |
| | | 34. Ernakulam/Alwaye | 2 | 1. Aluva |
| | | | | 2. Ernakulam |
| 11 | MADHYA PRADESH | 35. Jabalpur | 5 | 1. MiloniGanj |
| | | | | 2. Raujhi Bazar |
| | | | | 3. LalMitti |
| | | | | 4. Adhartal |
| | | | | 5. Garha |
| | | 36. Indore | 5 | 1. Sanwer Road (Banganga) |
| | | | | 2. Marla Mill-Patnipura |
| | | | | 3. Chandan Nagar-Dhar Road |
| | | | | 4. Manglia |
| | | | | 5. Mussakheri |
| | | 37. Bhopal | 3 | 1. Azad Jumerati |
| | | | | 2. Piplani |
| | | | | 3. Anand Nagar |
| | | 38. Chhindwara | 2 | 1. Junardev |
| | | | | 2. ChandamettqaParasia |
| 12 | MAHARASHTRA | 39. Mumbai | 14 | 1. Andheri |
| | | | | 2. Borivali |
| | | | | 3. Bhandup |
| | | | | 4. Chembur |
| | | | | 5. Dadar |
| | | | | 6. Ghatkkopar |
| | | | | 7. Goregaon |
| | | | | 8. Hains Road |
| | | | | 9. Kurla |
| | | | | 10. Kandivali |
| | | | | 11. LalbaughDelisle Road |
| | | | | 12. Naigaum |
| | | | | 13. Sewri |
| | | | | 14. Worli Naka |
| | | 40. Thane | 7 | 1. Thane |
| | | | | 2. Kalyan/Dombivali |
| | | | | 3. Vashi |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 4. Turbhey |
| | | | | 5. Boisar |
| | | | | 6. Ulhasnagar |
| | | | | 7. Badlapur/Ambernath |
| | | 41. Pune | 6 | 1. PhuleMandai&Laxmi Road |
| | | | | 2. Hadapsar |
| | | | | 3. Chandan Nagar |
| | | | | 4. Kirkee |
| | | | | 5. Pimpri |
| | | | | 6. Chinchwad |
| | | 42. Nagpur | 7 | 1. ItwariBudhwari |
| | | | | 2. SitaBurdi |
| | | | | 3. Mahal& New Shukarwari |
| | | | | 4. Dr. Ambedkar Road/Panch Pauli |
| | | | | 5. ShakkardaraRaghujee Nagar |
| | | | | 6. Wadi |
| | | | | 7. Pardi |
| | | 43. Solapur | 3 | 1. MangalwarJodhbhariPeth |
| | | | | 2. NaviPeth |
| | | | | 3. Ashok Chowk |
| | | 44. Nasik | 4 | 1. Satpur |
| | | | | 2. Nashik Road |
| | | | | 3. Panchvati |
| | | | | 4. CIDCO |
| 13 | ORISSA | 45. Cuttak | 3 | 1. Buxi Bazar |
| | | | | 2. Chaudwar |
| | | | | 3. Jagatpur |
| | | 46. Keonjhar | 2 | 1. Barbil |
| | | | | 2. Joda |
| | | 47. Angul-Talcher | 3 | 1. Angul |
| | | | | 2. Talcher |
| | | | | 3. Kanahia |
| 14 | PONDICHERRY | 48. Puducherry | 1 | 1. Big Market |
| 15 | PUNJAB | 49. Amritsar | 5 | 1. Ratan Singh Chowk |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 2. Pratap Bazar Chheratha |
| | | | | 3. Verka |
| | | | | 4. Sultanwind Road |
| | | | | 5. Putlighar |
| | | 50. Ludhiana | 4 | 1. Gill Road-Miller ganj |
| | | | | 2. Division No. 3 |
| | | | | 3. PuraniSabjiMandi |
| | | | | 4. Sherpur |
| | | 51. Jalandhar | 4 | 1. Baba Bastikhel |
| | | | | 2. Model House |
| | | | | 3. Guru Nanak Pura |
| | | | | 4. Sodal Road |
| | | 52. Sangrur | 1 | 1. Sadar Market |
| 16 | RAJASTHAN | 53. Jaipur | 6 | 1. Chandpole |
| | | | | 2. Sodala |
| | | | | 3. Sanganer |
| | | | | 4. Jhotwara |
| | | | | 5. Mansrover |
| | | | | 6. Malviya Nagar |
| | | 54. Alwar | 3 | 1. Hope Circus/Kedalganj |
| | | | | 2. Behror |
| | | | | 3. Bhiwadi |
| | | 55. Bhilwara | 3 | 1. Bhilwara Bazar |
| | | | | 2. Gulabpura |
| | | | | 3. Bijolia |
| 17 | TAMIL NADU | 56. Coimbatore | 2 | 1. Thiyagi Kumaram |
| | | | | 2. Gandhipuram |
| | | 57. Salem | 1 | 1. Town Market |
| | | 58. Virudhu Nagar | 1 | 1. Kamarajar |
| | | 59. Chennai | 6 | 1. Ambattor |
| | | | | 2. Sembium |
| | | | | 3. Tiruvottriyur |
| | | | | 4. Saidapet |
| | | | | 5. Pattalam |
| | | | | 6. Washer Manpet |
| | | 60. Madurai | 1 | 1. Ram Nagar |
| | | 61. Tirunelveli | 1 | 1. Town Market |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | 62. Coonoor-The Niligiris | 2 | 1. Coonoor |
| | | | | 2. Kotagiri |
| 18 | TRIPURA | 63. Tripura | 11 | 1. Battola |
| | | | | 2. Jirania |
| | | | | 3. Bishalgarh |
| | | | | 4. Kamalghat |
| | | | | 5. Teliamura |
| | | | | 6. Shantir Bazar |
| | | | | 7. Kumarghat |
| | | | | 8. Kailasahar |
| | | | | 9. Dharmanagar |
| | | | | 10. Kadamtala |
| | | | | 11. Ambassa |
| 19 | UTTAR PRADESH | 64. Ghaziabad/G.B.Nagar | 3 | 1. Ghaziabad |
| | | | | 2. Surajpur |
| | | | | 3. Bhangel/Salarpur |
| | | 65. Varanasi | 4 | 1. Sigra |
| | | | | 2. Manduvedi |
| | | | | 3. Mugalsarai |
| | | | | 4. Shivpur |
| | | 66. Kanpur | 6 | 1. Gumti No. 5/DarshanPurva |
| | | | | 2. Kidwai Nagar |
| | | | | 3. Shashtri Nagar |
| | | | | 4. Daboli |
| | | | | 5. GwalTole |
| | | | | 6. Lal Bangla |
| | | 67. Lucknow | 4 | 1. Indira Nagar |
| | | | | 2. Daliganj |
| | | | | 3. Alambagh |
| | | | | 4. Aminabad |
| | | 68. Agra | 4 | 1. GhatiyaKinari Bazar |
| | | | | 2. LohaMandi |
| | | | | 3. BunduKatra |
| | | | | 4. KatraWazir Khan |
| 20 | WEST BENGAL | 69. Kolkatta | 10 | 1. Naihati (Goripur) |
| | | | | 2. Gora Bazar |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Entally |
| | | | | 4. Titagarh |
| | | | | 5. Belgharia |
| | | | | 6. Bara Nagar |
| | | | | 7. Kidderpore |
| | | | | 8. MetiaBruz |
| | | | | 9. Budge-Budge (Chorial) |
| | | | | 10 Jagatdal |
| | | 70. Haldia | 4 | 1. MakhanBabu Bazar |
| | | | | 2. Durgachak |
| | | | | 3. Baishnabchak |
| | | | | 4. Chaitannyapur |
| | | 71. Durgapur | 3 | 1. Benachity |
| | | | | 2. Chandidas Market |
| | | | | 3. Hattala |
| | | 72. Raniganj | 4 | 1. Raniganj |
| | | | | 2. Jamuria |
| | | | | 3. Ukhra |
| | | | | 4. Asansol |
| | | 73. Jalpaiguri | 4 | 1. Birpara |
| | | | | 2. Hamiltonganj |
| | | | | 3. Banarhat |
| | | | | 4. Mal Bataigol (Mal Bazar) |
| | | 74. Darjeeling | 4 | 1. Chowk Bazar |
| | | | | 2. Kurseong |
| | | | | 3. Sukhia |
| | | | | 4. Mirik |
| | | 75. Howrah | 7 | 1. Liluah |
| | | | | 2. Ghusuri |
| | | | | 3. Bally Bazar |
| | | | | 4. Fazir bazar |
| | | | | 5. Chinsurah |
| | | | | 6. Srirampur |
| | | | | 7. Bauria |
| 21 | JHARKHAND | 76. Bokaro | 2 | 1. Laxmi Nagar |
| | | | | 2. Chas |
| | | 77. Dhanbad | 4 | 1. Jharia |
| | | | | 2. Katras |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|---------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | | | 3. Kirkend Kendua |
| | | | | 4. Chirkunda |
| | | 78. Jamshedpur | 4 | 1. Sakchi |
| | | | | 2. Bistupur |
| | | | | 3. Mango |
| | | | | 4. Jugusalai |
| | | 79. Ramgarh | 2 | 1. Ramgarh |
| | | | | 2. Bhurkunda |
| 22 | CHATTISGARH | 80. Raipur | 2 | 1. Gol Bazar |
| | | | | 2. BirGaum |
| | | 81. Korbe | 1 | 1. Korba |
| | | 82. Bhilai | 2 | 1. Akash Ganga-Supela |
| | | | | 2. Camp-2 |
| 23 | DELHI | 83. Delhi | 11 | 1. SamaipurBadli |
| | | | | 2. Mongolpuri |
| | | | | 3. SubjiMandi |
| | | | | 4. Shahdara |
| | | | | 5. Govindpuri/Kalkajee |
| | | | | 6. Azadpur |
| | | | | 7. Bhawana |
| | | | | 8. Nazafgarh |
| | | | | 9. Tilak Nagar |
| | | | | 10. KotlaMubarkpur |
| | | | | 11. Yamunavihar/ Bhajanpura |
| 24 | UTTRAKHAND | 84. Udham Singh Nagar | 2 | 1 Rudharpur |
| | | | | 2.Kicha Bazaar (Kishya) |
| 25 | DADRA & NAGAR HAVELI | 85. Dadra & Nagar Haveli | 1 | 1. Kilwani Naka, Panchayal Market |
| 26 | CHANDIGARH | 86. Chandigarh | 3 | 1. Ram Darbar |
| | | | | 2. Burail |
| | | | | 3. Sec. 20&30 |
| 27 | MEGHALAYA | 87. Meghalaya | 1 | 1 Shillong(Bada Bazar Police Bazar)Jail Road |
| 28 | JAMMU & KASHMIR | 88. Jammu & Kashmir | 6 | 1. Samba |
| | | | | 2. Bari Brahma |
| | | | | 3. PuraniMandi |
| | | | | 4. Kathua |



| Sr. No. | State/U.T. | Name of the Centre | No. of Markets | Name of Market |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 5. Pampore |
| | | | | 6. Maharaja Bazar |
| | | | 317 | |

**Annexure-VII****Centre Weights in All India CPI-IW New Series (2016=100)**

| Sl.No | Centre Name | Centre Weight in All India 2016=100 |
|-------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | Hyderabad | 1.51 |
| 2 | Guntur | 2.25 |
| 3 | Visakhapatnam | 3.37 |
| 4 | Warangal | 0.18 |
| 5 | Guwahati | 0.58 |
| 6 | Doom-DoomaTinsukia | 0.51 |
| 7 | Labac-Silchar | 0.31 |
| 8 | Munger-Jamalpur | 1.57 |
| 9 | Jamshedpur | 1.4 |
| 10 | Bokaro | 1.24 |
| 11 | Dhanbad (Jharia) | 1.4 |
| 12 | Goa | 0.51 |
| 13 | Ahmedabad | 0.97 |
| 14 | Vadodara | 1.1 |
| 15 | Bhavnagar | 0.82 |
| 16 | Surat | 0.87 |
| 17 | Rajkot | 0.75 |
| 18 | Yamunanagar | 1.48 |
| 19 | Faridabad | 1.21 |
| 20 | Himachal Pradesh | 0.76 |
| 21 | J&K (Srinagar) | 0.26 |
| 22 | Bengaluru | 2.86 |
| 23 | Hubli-Dharwad | 0.97 |
| 24 | Mysore | 0.95 |
| 25 | Belgaum | 0.83 |
| 26 | Mercara-Kodagu | 0.68 |
| 27 | Ernakulam | 1.13 |
| 28 | Kollam (Quilon) | 0.76 |
| 29 | Bhopal | 1.47 |
| 30 | Jabalpur | 1.38 |
| 31 | Bhilai | 1.11 |
| 32 | Indore | 0.72 |



| | | |
|----|-----------------------|------|
| 33 | Chhindwara | 1.24 |
| 34 | Mumbai | 3.59 |
| 35 | Solapur | 1.88 |
| 36 | Nasik | 2.51 |
| 37 | Nagpur | 2.37 |
| 38 | Pune | 2.93 |
| 39 | Angul-Talcher | 0.49 |
| 40 | Puducherry | 0.64 |
| 41 | Amritsar | 0.87 |
| 42 | Ludhiana | 0.75 |
| 43 | Jalandhar | 0.78 |
| 44 | Jaipur | 1.2 |
| 45 | Bhilwara | 1 |
| 46 | Chennai | 3.09 |
| 47 | Coimbatore | 1.21 |
| 48 | Madurai | 1.69 |
| 49 | Salem | 1.84 |
| 50 | Coonoor | 1.06 |
| 51 | Tripura | 0.27 |
| 52 | Ghaziabad/ G.B. Nagar | 1.62 |
| 53 | Varanasi | 1.5 |
| 54 | Kanpur | 1.31 |
| 55 | Agra | 1.2 |
| 56 | Lucknow | 1.56 |
| 57 | Kolkata | 1.51 |
| 58 | Howrah | 0.55 |
| 59 | Durgapur | 0.71 |
| 60 | Haldia | 0.96 |
| 61 | Raniganj | 1.3 |
| 62 | Jalpaiguri | 0.51 |
| 63 | Darjeeling | 0.36 |
| 64 | Chandigarh | 0.17 |
| 65 | Delhi | 1.4 |
| 66 | Nellore | 2.81 |
| 67 | Manchiryal | 0.3 |
| 68 | BiswanathChariali | 0.42 |
| 69 | Numaligarh-Golaghat | 0.36 |



| | | |
|----|----------------------|------|
| 70 | Sibsagar | 0.41 |
| 71 | Patna | 0.96 |
| 72 | Gurgaon/Gurugram | 1.01 |
| 73 | Davanagere | 0.85 |
| 74 | Chikmanglur | 0.76 |
| 75 | Idukki | 0.74 |
| 76 | Thane | 2.51 |
| 77 | Cuttack | 0.45 |
| 78 | Keonjhar | 0.41 |
| 79 | Sangrur | 0.9 |
| 80 | Alwar | 0.82 |
| 81 | Virudhu Nagar | 1.22 |
| 82 | Tirunelveli | 1.33 |
| 83 | Ramgarh | 1.26 |
| 84 | Raipur | 0.57 |
| 85 | Korba | 0.96 |
| 86 | Udham Singh Nagar | 0.48 |
| 87 | Dadra & Nagar Haveli | 0.39 |
| 88 | Shillong | 0.13 |

**ANNEXURE-VIII****List of 78 Selected Centres under old series of Consumer Price Index for Industrial Workers 2001=100**

| Sr. NO. | State/ U.T. | Centre(s) |
|---------|------------------|--|
| 1. | Andhra Pradesh | Guntur Vijayawada Visakhapatnam |
| 2. | Assam | Doom-Dooma-Tinsukia Guwahati Labac-Silchar Mariani-Jorhat Rangapara-Tezpur |
| 3. | Bihar | Munger-Jamalpur |
| 4. | Chandigarh | Chandigarh |
| 5. | Chhattisgarh | Bhilai |
| 6. | Delhi | Delhi |
| 7. | Goa | Goa |
| 8. | Gujarat | Ahmedabad Bhavnagar Rajkot Surat Vadodara |
| 9. | Haryana | Faridabad Yamunanagar |
| 10. | Himachal Pradesh | H.P. |
| 11. | Jammu & Kashmir | Srinagar |
| 12. | Jharkhand | Bokaro Giridih Jamshedpur Jharia Kodarma Ranchi-Hatia |
| 13. | Karnataka | Belgaum Bengaluru Hubli-Dharwar Mercara Mysore |
| 14. | Kerala | Ernakulam Mundakayam Quilon |
| 15. | Madhya Pradesh | Bhopal Chhindwara Indore Jabalpur |



| | | |
|-----|---------------|--|
| 16. | Maharashtra | Mumbai Nagpur Nasik Pune Solapur |
| 17. | Odisha | Angul-Talcher Rourkela |
| 18. | Puducherry | Puducherry |
| 19. | Punjab | Amritsar Jalandhar Ludhiana |
| 20. | Rajasthan | Ajmer Bhilwara Jaipur |
| 21. | Tamil Nadu | Chennai Coimbatore Coonoor Madurai Salem Tiruchirapally |
| 22. | Tripura | Tripura |
| 23. | Telangana | Godavarikhani Hyderabad Warangal |
| 24. | Uttar Pradesh | Agra Ghaziabad Kanpur Lucknow Varanasi |
| 25. | West Bengal | Asansol Darjeeling Durgapur Haldia Howrah Jalpaiguri Kolkata Raniganj Siliguri |



ANNEXURE-IX

Centre-wise Linking Factor between New Series and Old Series

| State/UT | S. No. | Centre | Linking Factor | State/UT | S. No. | Centre | Linking Factor |
|----------|--------|----------------------|----------------|----------|----------------------|------------------------|----------------|
| AP | 1 | Guntur | 2.61 | MHR | 50 | Mumbai | 2.91 |
| | 2 | Nellore | N | | 51 | Nagpur | 3.60 |
| | 3 | Visakhapatnam | 2.44 | | 52 | Nasik | 3.42 |
| ASM | 4 | Biswanath-Chariali | N | 53 | Pune | 3.22 | |
| | 5 | Doom-Dooma Tinsukia | 2.38 | 54 | Solapur | 3.10 | |
| | 6 | Guwahati | 2.42 | 55 | Thane | N | |
| | 7 | Labac-Silchar | 2.48 | MEG | 56 | Shillong | N |
| | 8 | Numaligarh-Golaghat | N | PUD | 57 | Puducherry | 2.88 |
| BIH | 9 | Sibsagar | N | PUN | 58 | Amritsar | 2.98 |
| | 10 | Munger-Jamalpur | 3.16 | 59 | Jalandhar | 2.84 | |
| | 11 | Patna | N | 60 | Ludhiana | 2.62 | |
| CHD | 12 | Chandigarh | 2.79 | 61 | Sangrur | N | |
| CHS | 13 | Raipur | N | RJN | 62 | Alwar | N |
| | 14 | Bhilai | 3.13 | 63 | Bhilwara | 2.71 | |
| | 15 | Korba | N | 64 | Jaipur | 2.89 | |
| DNH | 16 | Dadra & Nagar Haveli | N | TN | 65 | Chennai | 2.50 |
| DLI | 17 | Delhi | 2.82 | 66 | Coimbatore | 2.60 | |
| GOA | 18 | Goa | 3.20 | 67 | Coonoor | 2.96 | |
| GUJ | 19 | Ahmedabad | 2.73 | 68 | Madurai | 2.69 | |
| | 20 | Bhavnagar | 2.84 | 69 | Salem | 2.69 | |
| | 21 | Rajkot | 2.90 | 70 | Tirunelveli | N | |
| | 22 | Surat | 2.64 | 71 | Virudhu Nagar | N | |
| | 23 | Vadodara | 2.66 | TEL | 72 | Hyderabad | 2.44 |
| HRY | 24 | Faridabad | 2.57 | 73 | Mancheriyal | N | |
| | 25 | Gurgaon | N | 74 | Warangal | 2.97 | |
| | 26 | Yamunanagar | 2.78 | TRP | 75 | Tripura | 2.43 |
| HP | 27 | Himachal Pradesh | 2.46 | UP | 76 | Agra | 3.33 |
| J&K | 28 | Jammu & Kashmir | 2.55 | 77 | Ghaziabad/G.B. Nagar | 3.00 | |
| JRK | 29 | Bokaro | 2.78 | 78 | Kanpur | 3.15 | |
| | 30 | Dhanbad-Jharia | 3.29 | 79 | Lucknow | 3.05 | |
| | 31 | Jamshedpur | 3.24 | 80 | Varanasi | 3.03 | |
| | 32 | Ramgarh | N | UTK | 81 | Udham Singh Nagar | N |
| KNT | 33 | Bengaluru | 2.75 | WB | 82 | Darjeeling | 2.53 |
| | 34 | Belgaum | 2.86 | 83 | Durgapur | 2.92 | |
| | 35 | Chikmagalur | N | 84 | Haldia | 3.55 | |
| | 36 | Davanagere | N | 85 | Howrah | 2.58 | |
| | 37 | Hubli-Dharwad | 3.10 | 86 | Jalpaiguri | 2.52 | |
| | 38 | Mercara-Kodagu | 2.97 | 87 | Kolkata | 2.46 | |
| | 39 | Mysore | 2.92 | 88 | Raniganj | 2.57 | |
| KRL | 40 | Ernakulam/Alwaye | 2.84 | | | All India Index | 2.88 |
| | 41 | Idukki | N | | | | |
| | 42 | Kollam | 3.21 | | | | |
| MP | 43 | Bhopal | 3.11 | | | | |
| | 44 | Chhindwara | 2.94 | | | | |
| | 45 | Indore | 2.70 | | | | |
| ODI | 46 | Jabalpur | 3.00 | | | | |
| | 47 | Angul-Talcher | 2.88 | | | | |
| | 48 | Cuttack | N | | | | |
| | 49 | Keonjhar | N | | | | |

N-New centres in 2016=100series.



ANNEXURE-X

No. M-13011/01/2015-PCL.
 Government of India
 Ministry of Statistics and Programme Implementation
 Price Statistics Division, National Statistical Office

Level-5, East Block No. 6,
 R. K. Puram, New Delhi - 66.
 Dated: 23.12.2019.

OFFICE MEMORANDUM

The Government of India hereby reconstitutes Group of Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living (TAC on SPCL) with effect from 23rd December, 2019, with the following composition:

| | | |
|-------|--|----------|
| (i) | Director General (Economic Statistics), National Statistical Office, Ministry of Statistics and PI, Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi - 110 001. | Chairman |
| (ii) | Additional Director General, Field Operations Division, National Statistical Office, Sankhiyiki Bhawan, GPOA Building at CBD Shahdara Near Karkardooma Court, Delhi-110032. | Member |
| (iii) | Additional Director General, Price Statistics Division, National Statistical Office, East Block No. 6, R. K. Puram New Delhi - 110 066. | Member |
| (iv) | Senior Economic Adviser (Prices), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110 001. | Member |
| (v) | Director General, Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment 28-31, Sector 17-A, Chandigarh | Member |
| (vi) | Deputy Director General, Price Statistics Division, National Statistical Office, East Block No. 6, R. K. Puram New Delhi - 110 066. | Member |
| (vii) | Adviser, D/o Statistics and Information Mgt., Reserve Bank of India, Central Office, C-8-9 Bandra-Kurla Complex Post Box No.8128, Bandra (East), Mumbai - 400051. | Member |

27/12/19
 Di (1754)

Rami
 30/12/19
 30/12/19
 30/12/19
 30/12/19

30/12/19
 30/12/19
 30/12/19

30/12/19
 30/12/19

संख्या 617
 दिनांक 27/12/19



| | | |
|--------|--|---------------------|
| (viii) | Adviser, Monetary Policy Department Reserve Bank of India, Central Office Building, 24th Floor, Shahid Bhagat Singh Road Mumbai-400 001. | Member |
| (ix) | Economic Adviser, Office of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Udyoag Bhawan, New Delhi. | Member |
| (x) | Deputy Director General, Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment 28-31, Sector 17-A, Chandigarh. | Member Secretary |

2. **Terms of Reference:**

The Group will:

- (i) examine the centre specific weighting diagrams for all the centres, selection of base year, compilation of base year prices, trial indices and computation of linking factors etc.;
- (ii) consider any other issue (s), matter relating to revision of CPI (IW) as may be felt necessary;
- (iii) submit its recommendations to the TAC on SPCL, within one year from the date of notification, for its consideration and approval.

3. The Secretarial assistance to the Group will be provided by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministries/Departments/ Organizations to which they belong.

4. This issues with the approval of Secretary (S&PI) vide Note No. # 197, page 70, Computer No. 19075, e-file no. M-13011/01/2018-PSD(Vol.-III) dated 23-12-2019.

Rakesh Kumar
(Rakesh Kumar)
Director (PSD)

Copy forwarded to:-

1. Chairman and Members of the Group.
2. PPS to Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation.
3. PPS to Director General (Economic Statistics), National Statistical Office.
4. PPS to Director General (Labour Bureau), M/o Labour & Employment.



(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-I, SECTION-I)

Government of India
Ministry of Statistics and Programme Implementation
Central Statistics Office

Sardar Patel Bhawan,
Sansad Marg
New Delhi - 110001

NOTIFICATION

No. M-13011/01/2013-TAC-NAD(PCL)

Date: 04.03.2014

The Government of India hereby reconstitutes Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living with effect from 4th March, 2014 with the following members:

- | | |
|--|----------|
| (1) Director General Central Statistics Office Ministry of Statistics and Programme Implementation Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg New Delhi - 110001. | Chairman |
| (2) Dr. M.S. Srinivasan, Chairman, Tamil Nadu State Board, All India Manufacturer's Organization, Jeevan Sahakar, 4 th Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001. | Member |
| (3) Shri Pawan Kumar, Zonal Organizing Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, 2426, Tilak Gali, Paharganj, New Delhi - 110005. | Member |
| (4) Dr. Himanshu, Centre for the Study of Regional Development, JNU, Delhi | Member |

on file H

12/3/14

SD/ST

12/3/14



115

| | |
|---|--------|
| (5) Prof. J. V. Meenakshi Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi 110007 | Member |
| (6) Director Directorate of Economic & Statistics Government of Maharashtra, Mumbai. | Member |
| (7) Director Directorate of Economic & Statistics Government of Bihar, Patna. | Member |
| (8) Director Directorate of Economic & Statistics Government of Karnataka, Bangalore. | Member |
| (9) Director Directorate of Economic & Statistics Government of West Bengal, Kolkata. | Member |
| (10) Adviser, Perspective Planning Division, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi - 110001 | Member |
| (11) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agricultural, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001 | Member |
| (12) Economic Adviser (Prices) Ministry of Finance Department of Economic Affairs North Block, New Delhi - 110001. | Member |
| (13) Sr. Economic Adviser (OEA) Ministry of Commerce and Industry Udyog Bhawan, New Delhi - 110001. | Member |



116

| | |
|--|--------------------|
| (14) Sr. Economic Adviser Department of Consumer Affairs Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, 305 A - Wing, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001. | Member |
| (15) Director General & Chief Executive Officer National Sample Survey Office Ministry of Statistics and Programme Implementation Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg New Delhi - 110001. | Member |
| (16) Additional Director General Field Operations Division National Sample Survey Office East Block No. 6, R.K. Puram New Delhi - 110066. | Member |
| (17) Director General Labour Bureau Ministry of Labour Cleremount Building Shimla - 171004. | Member |
| (18) Additional Director General National Accounts Division (NAD) Central Statistics Office, Sardar Patel Bhawan New Delhi - 110001. | Member |
| (19) Representative Commission of Agricultural Cost & Prices Department of Agriculture & Co-operation Ministry of Agricultural, Krishi Bhawan New Delhi - 110001. | Member |
| (20) Representative Reserve Bank of India, Central Office Central Office Building Shahid Bhagat Singh Road Mumbai - 400001. | Member |
| (21) Deputy Director General NAD(PCL Unit), CSO, S.P. Bhawan New Delhi - 110001 | Member - Secretary |



- 117
2. The representatives of the State governments, the academic field and the employee(s) trade unions/employer(s) organizations will serve on the Committee for a period of two years with effect from 4th March, 2014.
 3. The terms of reference of the reconstituted Committee are as under:
 - (i) Examination of proposals for the conduct of Family Budget Enquiries by Central Government, State Governments and Union Territory Administrations;
 - (ii) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations for the construction of consumer, wholesale, retail and producers' price indices, comparative costliness indices, other price indices and special problems connected therewith, including problems concerning All-India and State Level indices;
 - (iii) Improvement and standardization of the concepts, definitions and methods of price collection and compilation of consumer, wholesale, retail and producers' prices, comparative costliness indices, other price indices, including methods of appropriate weighting for each type of indices;
 - (iv) Review of organizational arrangement and the machinery for price collection with a view to rationalize and develop an integrated system of collection, compilation and dissemination of price statistics.
 4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation.
 5. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministries/Departments/organizations to which they belong.
 6. Non-Official members mentioned (at Sl.No. 2, 3, 4 and 5 of Para 1) will be paid TA/DA/conveyance allowance etc. as admissible to the non-official members for meetings as per instructions contained in para 1(ii) of Office Memorandum No. 19020/1/84-E.IV dated 23rd June 1986 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance as amended and clarified from time to time. The non-official members of the Committee will be provided sitting fee of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only) per day and taxi fare of Rs. 300/- (Rupees Three Hundred Only) or actual taxi fare whichever is less as per Office Memorandum No. A-27017/1/2002-AdIV dated 01.03.2007 of this Ministry.
 7. The expenditure on account of payment of TA/DA to the non-official members (at Sl. No. 2, 3, 4 and 5 of Para 1 above) and other expenses for holding the meetings



118

will be met out of the budget provision under the Plan Budget of Ministry of Statistics and Programme Implementation.

8. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics) via Budget & Finance Section Dy. No. 192/AS&FA dated 21.02.2014.

(G. Vaidheeswaran)

Under Secretary to the Government of India

To
The General Manager
Government of India Press
Faridabad (with Hindi version)

F.No. M-13011/01/2013-TAC-NAD(PCL)

Dated: 04.03.2014

Copy forwarded to:-

1. All Ministries / Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries to all the State Governments and Union Territory Governments / Administrations.
3. Directors of all State Statistical Bureaus.
4. All members of the Committee.
5. All Additional Director Generals, Deputy Director Generals, Central Statistics Office / National Statistical Commission.
6. Admin.II and Cash & Accounts Sections.
7. Budget & Finance / General / ISS / ICT sections.
8. PPS to Secretary, Ministry of Statistics & Programme Implementation.
9. PPS to Director General, Central Statistics Office.
10. PPS to DG & CEO, NSSO.

(G. Vaidheeswaran)

Under Secretary to the Government of India



S.No-5(R)

- 10

No. Y-12011/5/2010-ESA(LB)
Government of India
Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi dated ²³ December, 2015

462
4/1/16
20/15
5.1.16
Dix (FES)

To
The Director General
Labour Bureau
SCO 28-30, Sector 17/A
Chandigarh-160017.

Subject: Constitution of Standing Tripartite Committee pertaining to Consumer Price Index Number of Industrial Workers, New Series - reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of an Order dated ^{23/12/2015} relating to Constitution of Standing Tripartite Committee pertaining to Consumer Price Index Number of Industrial Workers, New Series.

2. Labour Bureau is requested to seek nominations from the concerned Departments/Organizations/CTUs and send the same to the Ministry for incorporation of the same in the Order.

Yours faithfully

Nisha Gaur
(Nisha Gaur)
Under Secretary to the Govt. of India

4/1/16
5/1/16
5/1/16
EO (Md. Alam Ansari)

462/E
05/01/2016

महानिदेशक
संख्या.....
दिनांक..... 4/1/2016



No. Y-12011/5/2010-ESA(LB)
Government of India
Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi dated 23 December, 2015

ORDER

The Government hereby constitutes a Standing Tripartite Committee, to advise the Government on matters arising out of issues pertaining to Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (CPI-IW) New Series (Base:2011) with the following composition and Terms of Reference:-

A Composition

1. Principal Labour & Employment Adviser
Ministry of Labour & Employment
Shramshakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi Chairman

III. Central Trade Unions/Workers Representatives (Two)

2. General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)
27, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002 Member

3. Indian National Trade Union Congress (INTUC)
"Shramik Kendra", 4, Bhai Veer Singh Marg
New Delhi-110001 Member

II. Employers' Organizations (Two)

4. Confederation of Indian Industry
The Mantosh Sondhi Centre
23, Institutional Area, Lodhi Road
New Delhi. Member

5. Federation of Indian Chamber of Commerce
Industry, Federation House
Tansen Marg, New Delhi-110001 Member

III. Independent Member (One)/Academic Representative (One)

6. Shri T.Krishna Murthy
House No.1-2-56/74, Domalguda,
Hyderabad-500029 Member

7. Institute of Economic Growth, Delhi Member

IV. Women's Organization/Women's representative (One)

8. Smt.Mantri Kalavathy,
R/o H.No.6-637/3, Kavadiguda,
Secunderabad, Telangana-500080 Member

Cont/-



-2-

- ✓ **V. State Representatives (Four)**
9. ✓ Additional Chief Secretary
✓ Planning Economics and Statistics Department
Govt. of Madhya Pradesh
Vidhyanchal Bhavan, Bhopal Member
10. ✓ Principal Secretary,
✓ Planning Programme Monitoring and
Statistics Department, Govt. of Karnataka
M.S, Building
Bangalore-560001 Member
11. ✓ Secretary, Department of Statistics and Programme
Implementation, Govt. of West Bengal,
4th and 5th Floor, Joint Administrative Building
HC-7, Bidhan Nagar, Kolkata -700106 Member
12. ✓ Principal Secretary (Planning) ✓
General Administration Department, Govt. of Gujarat
Sachivalaya, Gandhinagar. Member
- ✓ **VI. Central Government Representatives (Three)**
13. ✓ Central Statistical Office,
✓ Ministry of Statistics and Programme Implementation,
Sardar Patel Bhawan
Sansad Marg, New Delhi. Member
14. ✓ Department of Economic Affairs
✓ Ministry of Finance
North Block, New Delhi. Member
15. ✓ Department of Industrial Policy and Promotion
✓ Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhavan, New Delhi Member
- VII. Ministry of Labour & Employment (Three)**
16. Director General, Labour Welfare
Ministry of Labour and Employment
Shram Shakti Bhawan, New Delhi. Member
17. Deputy Director General (ESA)
Ministry of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan, New Delhi. Member
18. Deputy Director General (Employment)
Directorate General of Employment & Training
Ministry of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan, New Delhi. Member

Cont/--



-3-

B. Terms of Reference

1. The Standing Tripartite Committee will
 - (v) To examine the various aspects of the base year revision of CPI(IW) including the sampling design, methodology for deriving the weighting diagram, index compilation and linking factor;
 - (vi) Examine the method of price collection procedures and machinery of price collection;
 - (vii) Examine the centre specific weighting diagrams for all the centres, selection of base year, compilation of base year prices, trial indices and
 - (viii) Consider any other relevant issue(s)/matter as may be necessary.
2. Secretarial assistance to the Standing Tripartite Committee will be provided by the Labour Bureau. The committee may also enlist the assistance of subject matter experts within and/ or outside the Government and may co-opt members according to necessity.
3. The expenditure on TA/DA in respect of the official members for attending the meetings of the Committee will be borne by their respective Ministries/Departments/Organizations.
4. The expenditure on account of payment of TA/DA to the non-official members will be met out of the budget provision under the Plan Scheme "Labour and Employment Statistical System" of Labour Bureau.
5. Payment of TA/DA to non Official members will be regulated as per the provisions contained in the Office Memorandum No. 19020/1/89-E.IV dated 23rd June, 1986 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, as amended from time to time.

Nisha Gaur
(Nisha Gaur)

Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23473278

Copy to:

1. Chairman of the Standing Tripartite Committee.
2. All Members concerned.
3. Director General, Labour Bureau, Chandigarh
4. PS to MOS(L&E)
5. PSO to Secretary(L&E)
6. Guard File.